

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 24—मार्च 30, 2018 (चैत्र 3, 1940)

No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 24—MARCH 30, 2018 (CHAITRA 3, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग III—खण्ड 1]

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो)

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 2018

सं. डीपी/पर्स. 1/2018/1055/03/07/2018.—राष्ट्रपति महोदय एतद्वारा श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव, भा.पु.सेवा (एमपी : 1992) को 19.02.2018 के पूर्वाह्न से आरम्भतः पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, दि.वि.पु. स्थापना में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी. पी. सिंह

प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
महालेखाकार (ले व ह), केरल का कार्यालय
तिरुवनंतपुरम, दिनांक 6 मार्च 2018

सं. 02/2018.—

क्र.सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	जैनम्मा मात्तु	लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	28.02.2018

के के जयकुमार
लेखा अधिकारी/का.स्था.(ह व रो)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
(कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय)
प्रारूप संख्या एसटीके 6
सार्वजनिक सूचना

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुकरण में]

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्न कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

अहमदाबाद—380013, दिनांक 21 फरवरी 2018

सं. आरओसी/गुज./248/2018/8683—

(1) इसके द्वारा यह सूचित दिया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को ऊपर उल्लिखित कम्पनियों से कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त किया है कि वे उनकी कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पायी हैं और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार सं अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

(2) तदनुसार कम्पनी रजिस्ट्रार, कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने का प्रस्ताव करता है।

(3) यदि किसी व्यक्ति के कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर ऊपर उल्लिखित कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकता है।

1	U22121GJ2013PTC073973	वायोलेट कोम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	G73241812
2	U51909GJ2014PTC078486	बनास इम्पेक्ष प्राईवेट लिमिटेड	G73173767
3	U45309GJ2016PTC091840	सोनीया इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	G73091597
4	U74999GJ2015PTC084066	इनाकार्का रीनीवेबल्स प्राईवेट लिमिटेड	G72882723
5	U27209GJ2014PTC079572	जेप्टो टर्मीनल्स प्राईवेट लिमिटेड	G72749427
6	U29120GJ2014PTC081380	नुपुर इन्डस्ट्रीअल बोइलर्स प्राईवेट लिमिटेड	G72738909
7	U70109GJ2013PTC073646	सत्यसारथी डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	G72640402
8	U74140GJ2014PTC080329	एयुरेअस कन्सल्टींग प्राईवेट लिमिटेड	G72441082
9	U52190GJ2015PTC083527	ग्लोबल एबसर्सीव सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड	G72401011
10	U36101GJ2012PTC071994	डीटेक्स मल्टीप्रोजेक्ट्स डायमण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड	G72301062

11	U74900GJ2016PTC085843	चालो प्रदेश विज्ञा सर्वीसीस प्राईवेट लिमिटेड	G72299282
12	U72300GJ2014PTC079426	स्टेलीयन इन्टेलीट्युअल प्राईवेट लिमिटेड	G72233737
13	U45201GJ2008PTC053575	सीटी गोल्ड एस्टेट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	G72194624
14	U45201GJ2008PTC053770	सीटी गोल्ड लेण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	G72160245
15	U31908GJ2010PTC059191	नीपोन कारबन इलेक्ट्रोडस प्राईवेट लिमिटेड	G72011760
16	U17120GJ2015PTC084234	सिद्धी विनायक ट्रेन्ड्स प्राईवेट लिमिटेड	G71156376
17	U01403GJ2011PTC064429	मारुल एगो फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड	G70943527
18	U01122GJ2013PTC074313	जयेष्ठा एगो प्राईवेट लिमिटेड	G70942594
19	U01210GJ2013PTC074224	जसुड एगो प्राईवेट लिमिटेड	G70941810
20	U01403GJ2013PTC074263	अमथ एगो प्राईवेट लिमिटेड	G70940499
21	U25191GJ2013PTC075793	विनसन रबर प्राईवेट लिमिटेड	G70733704
22	U45201GJ2011PTC067968	सुमीरन रीयल्टी प्राईवेट लिमिटेड	G70687256
23	U34300GJ2008PTC055746	डीम ओटो-टेक प्राईवेट लिमिटेड	G70520713
24	U27310GJ2008PTC053921	वन्डर कास्टींग्स प्राईवेट लिमिटेड	G70517172
25	U24246GJ2013PTC074606	हीया ब्युटी कोन्सेप्ट प्राईवेट लिमिटेड	G70481361
26	U45209GJ2010PTC063113	शक्तीमान मेगा फुड पार्क प्राईवेट लिमिटेड	G70462643
27	U51909GJ2013PTC073691	केरीओन ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड	G70452826
28	U27109GJ2007PTC052209	सीन्क्रोवेल्स स्टील प्राईवेट लिमिटेड	G70419031
29	U36991GJ2007PTC052187	टुडेय्स पेपर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	G70417720
30	U85194GJ2015PTC082283	फेलकन रेडीयेशन प्राईवेट लिमिटेड	G70387626
31	U63030GJ2013PTC074823	एशीयन लीफ्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	G70359740
32	U29130GJ2000PTC038385	बीकेय स्प्रिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	G70358684
33	U74900GJ2016PTC085771	पुथा आईबीजनेस प्राईवेट लिमिटेड	G70193503
34	U74140GJ2014PTC079632	फानटम इ-सर्वीसीस प्राईवेट लिमिटेड	G70190970
35	U74999GJ2016PTC093357	आलोक गुप प्राईवेट लिमिटेड	G70163985
36	U72900GJ2017PTC095008	इनोस्पायर टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड	G70141262
37	U74140GJ2007PTC051390	एस वी सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड	G70010038
38	U52100GJ2015PTC082616	डीजायर बीजनेस सोल्युशन प्राईवेट लिमिटेड	G68471564
39	U74999GJ1995PTC024168	अंबिका लेबलींग प्राईवेट लिमिटेड	G63936769
40	U50101GJ1959PTC000924	मर्क्युरी मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड	G62102793
41	U45200GJ2011PTC064967	आधार इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड	G61153946
42	U26914GJ2013PTC073426	सुप्रीम मोनोलीथीक्स एण्ड रीफेक्टोरीज प्राईवेट लिमिटेड	G60791357
43	U15490GJ2016PTC094379	बालाजी नमकीन प्राईवेट लिमिटेड	G59105213
44	U22219GJ2015PTC085004	नीयोप्रेस पब्लीसर्स प्राईवेट लिमिटेड	G57004368
45	U92190GJ2014PTC078369	कीजल टेलीफील्म्स प्राईवेट लिमिटेड	G56987506
46	U29221GJ2015OPC083187	एरोकोन एन्जीनीयरींग (ओपीसी) प्राईवेट लिमिटेड	G56974488

47	U80301GJ2013PTC075129	डीस्टन्स एज्युकेशन एकेडमी प्राईवेट लिमिटेड	G56523384
48	U15201GJ1995PTC026932	ओनलाईन सॉफ्टवेर प्राईवेट लिमिटेड	G56413826
49	U65999GJ2016PTC094522	फोर डायमेन्शन्स सीक्युरिटीज (आईएफएससी) प्राईवेट लिमिटेड	G56229925
50	U25200GJ2010PTC059183	कास्म पोलिमर्स प्राईवेट लिमिटेड	G55929111
51	U74999GJ2016PTC091952	डीवाईन स्पा प्राईवेट लिमिटेड	G55673453
52	U74999GJ2016PTC091941	स्टेम सेल एक्सप्रेस प्राईवेट लिमिटेड	G55501621
53	U14290GJ2016PTC093865	युनाईटेड बेन्टोनाईट प्राईवेट लिमिटेड	G55500458
54	U74140GJ2013PTC075092	नीओमी प्रोजेक्ट्स मनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	G54894241
55	U74900GJ2016PTC091683	ट्रीकलीनीयम क्लीनिकल डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	G54760582
56	U52399GJ2015PTC083255	जे.सी. एलीमेक प्राईवेट लिमिटेड	G54746235
57	U52334GJ2013PTC076450	श्याम मोबाईल प्राईवेट लिमिटेड	G54644265
58	U72900GJ2007PTC051980	ब्लेच मेजीक बोक्ष सॉफ्ट टेक प्राईवेट लिमिटेड	G54643473
59	U17299GJ2016PTC092464	आस्था टेक्फेब प्राईवेट लिमिटेड	G54436209
60	U27203GJ2009PTC058201	जीएफएल एल्युमीनीयम एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड	G54355920
61	U70101GJ2012PTC073133	आन्या एण्ड जीनल डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	G54296710
62	U92100GJ2010PTC059825	जे.सी. एन्टरटेनमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	G54208491
63	U51101GJ2012PTC071465	तृष्णा सीरप प्राईवेट लिमिटेड	G54156211
64	U80903GJ2008PTC054355	बीरमीनघाम कोलेज प्राईवेट लिमिटेड	G52735172
65	U24298GJ2009PTC057042	उर्वकुंज सोल्ट इन्डीया प्राईवेट लिमिटेड	G51224830
66	U18109GJ2013PTC077690	अचलेश्वर क्लोथिंग प्राईवेट लिमिटेड	G51162279
67	U30007GJ2003PTC042532	श्री गणेश मीडिया मार्केटींग प्राईवेट लिमिटेड	G51126944
68	U14100GJ1998PTC033887	वल्लभ श्रीको मार्बल प्राईवेट लिमिटेड	G51109916
69	U26950GJ1999PLC036853	सुजलाम पाईप्स लिमिटेड	G51047702
70	U74999GJ1995PTC024697	गुरुकृपा विजन प्राईवेट लिमिटेड	G51031425
71	U36912GJ2007PTC049821	आरपीसी जेवेल्स प्राईवेट लिमिटेड	G49361454
72	U72900GJ2010PTC063104	बीज प्रोसेसिंग सोल्युशन प्राईवेट लिमिटेड	G47034863
73	U29100GJ2010PTC061853	पी डबल्यू सीलो सीस्टम इन्डीया प्राईवेट लिमिटेड	G46430443
74	U45201GJ2010PTC060814	नवनीधी इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	G45941994
75	U72200GJ2013PTC074671	आहा डील्स प्राईवेट लिमिटेड	G76556869
76	U17290GJ2014PTC078633	मात्रश्री फेशन प्राईवेट लिमिटेड	G76256114
77	U45201GJ2009PTC057761	आत्मीय एफोर्डेबल हाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड	G75654590
78	U65999GJ2017PTC095097	आईटीएलएस कोमोडीटीज (आईएफएससी) प्राईवेट लिमिटेड	G75557702
79	U45203GJ2013PTC077738	रीधी स्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड	G75507012
80	U01222GJ2012PTC068971	एआरके-लाईट एन्टरप्रेनीयर्स प्राईवेट लिमिटेड	G74912924
81	U80300GJ2013PTC077386	वेनीशा एज्युकेशन प्राईवेट लिमिटेड	G73513707

82	U65910GJ1995PTC027800	त्रिमुर्ती फीनस्टोक प्राईवेट लिमिटेड	G73508723
83	U70100GJ2013PTC073647	सत्यसुर्या प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	G72639578
84	U63040GJ1995PTC025907	करीबु ट्रावेल्स एण्ड कार्गो प्राईवेट लिमिटेड	G72061450
85	U17120GJ2009PTC056415	हानी टेक ओ-फेब प्राईवेट लिमिटेड	G71900393
86	U72900GJ2014PTC080596	प्लुटुस कोलसर्व प्राईवेट लिमिटेड	G69720530
87	U36991GJ2013PTC074348	ग्रीन हाईजीन कन्ज्युमर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	G69523215
88	U15510GJ2015PTC084452	थेसीआस फुड्स प्राईवेट लिमिटेड	G69492890
89	U74140GJ2010PTC061845	तिर्थ फायनान्सीयल एडवाइजरी प्राईवेट लिमिटेड	G69201523
90	U72900GJ2013PTC073598	कृष्णपोट अलगोरीधम्स प्राईवेट लिमिटेड	G69192656
91	U36990GJ2016PTC092614	सरोज वुडन फर्नीचर प्राईवेट लिमिटेड	G68704287
92	U51500GJ2005PTC047343	नील एन्जीनीयरिंग एण्ड मार्केटींग प्राईवेट लिमिटेड	G64539851
93	U40100GJ2013PTC077303	सनवोर्म एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड	G64474984
94	U45203GJ2014PTC080496	गोल्डनलाईफ बील्डस्क्वेर प्राईवेट लिमिटेड	G63423990
95	U23109GJ1985PTC008331	टीकी तार इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	G62600200
96	U15549GJ2016OPC094056	श्रीदेव कन्सलटन्सी (ओपीसी) प्राईवेट लिमिटेड	G60631488
97	U33112GJ1991PLC016614	एगल बायो-मेडीकल सीस्टम्स लिमिटेड	G60599834
98	U67120GJ2012PTC071973	एस्टर पोर्टफोलियो मेनेजमेन्ट सर्वीसीस प्राईवेट लिमिटेड	G60327871
99	U45203GJ2013PTC076647	समर्थ इन्फ्राप्रो प्राईवेट लिमिटेड	G59960252
100	U72900GJ2010PTC059765	बीझ इन्फोस्फट प्राईवेट लिमिटेड	G59610394
101	U80301GJ2012PTC072340	दालीया एज्युकेशनल सर्वीसीस प्राईवेट लिमिटेड	G58444274
102	U29196GJ2012PTC071892	जेनीसीस इन्स्ट्रुमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	G57379448
103	U93090GJ2016PTC094654	क्रिश्ना नियती एडवाइजरी प्राईवेट लिमिटेड	G57363095
104	U29130GJ2015PTC083487	जेएनएमजी एन्जीनीयरिंग इन्डीया प्राईवेट लिमिटेड	G57166480
105	U17120GJ2015PTC082115	आरकोन सीन्थेटीक्स प्राईवेट लिमिटेड	G57153462
106	U74940GJ2012PTC070779	वेलक्रो फोटोगीयर्स प्राईवेट लिमिटेड	G57086001
107	U74900GJ2014PTC079023	क्रिएटीव मेनकोन सर्वीसीस प्राईवेट लिमिटेड	G56961766
108	U67120GJ2014PTC080545	मनी हनी फोकल फायनान्सीयल सर्वीसीस प्राईवेट लिमिटेड	G56723513
109	U22211GJ2014PTC080824	नोवेल्टी स्कीआर्चीव्स प्राईवेट लिमिटेड	G56321656
110	U74140GJ2015PTC083910	केबीवी मेनेजमेन्ट सर्वीसीस प्राईवेट लिमिटेड	G55889810
111	U51109GJ2012PTC069323	जायक्युर एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	G55866818
112	U29197GJ2013PTC075265	जीम्स मशीनरीज प्राईवेट लिमिटेड	G55622187
113	U45203GJ2013PTC076404	इरीस रेगीम्स हबीतात प्राईवेट लिमिटेड	G55620926
114	U52100GJ2013PTC076190	डू चोईस इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	G55431357
115	U67120GJ2008PTC053203	अक्षर ब्रोकींग प्राईवेट लिमिटेड	G55302764

116	U45200GJ2013PTC074578	मधर इन्फ्राकोन प्राईवेट लिमिटेड	G55277958
117	U24230GJ2013PTC074482	मधर फोर्मालाईन्स प्राईवेट लिमिटेड	G55273395
118	U74140GJ2015PTC085151	कामकार्ट होमकेर प्राईवेट लिमिटेड	G55240493
119	U74999GJ2016PTC093176	तोरोफी नेटवर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	G55220719
120	U74140GJ2013PTC074393	लाउरीट कोर्पोरेट सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	G55188916
121	U74140GJ2013PTC074248	विराटतान्ता कोर्पोरेट सोल्युसन्स प्राईवेट लिमिटेड	G55188783
122	U74140GJ2010PTC060247	स्मीथ क्लीन्टन रीक्रुटमेन्ट कन्सलटन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	G55132997
123	U72200GJ2013PTC073903	प्रोलेट टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड	G55027189
124	U52311GJ2009PTC057274	केर मेडीटेक प्राईवेट लिमिटेड	G54956362
125	U45202GJ2007PTC050062	श्री संजीवनी लेन्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	G54555545
126	U60200GJ2012PTC071659	एसआरसी रोडमूवर्स प्राईवेट लिमिटेड	G54242276
127	U27310GJ2008PTC055182	रोलेक्ष टेक्नोकास्ट प्राईवेट लिमिटेड	G53853479
128	U74999GJ2016PTC093529	केन्डेला सोलार टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड	G53546479
129	U52512GJ2012PTC072267	सुर मेटल प्राईवेट लिमिटेड	G53317574
130	U80903GJ2010PTC060238	राईटस्ट्राईड एज्युकेशन कन्सलटन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	G53261186
131	U80211GJ2013PTC075533	पंचशील एज्युकेर प्राईवेट लिमिटेड	G53120101
132	U29199GJ1998PTC034898	भूमी एनवायरो टेक प्राईवेट लिमिटेड	G53025490
133	U74999GJ2012PTC072587	आदी सेमीकोन सोल्युसन्स प्राईवेट लिमिटेड	G52826021
134	U72300GJ2007PTC050947	एजुर नोलेज सर्वीसीस प्राईवेट लिमिटेड	G52823879
135	U52100GJ2015PTC084181	लायनट्रेक सीक्युरीटी सोल्युसन्स प्राईवेट लिमिटेड	G52773579
136	U72900GJ2012PTC072918	इन्टेलीटी वेबपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	G52750445
137	U65910GJ1986PLC009235	एसेन होल्डींग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड	G52696085
138	U17100GJ2017PTC096222	नानलीयु एन्टरप्राइज (इन्डीया) प्राईवेट लिमिटेड	G52501616
139	U67100GJ2009PTC055811	ओम फ्युचर्स कोमोडीटीज प्राईवेट लिमिटेड	G52358587
140	U74999GJ2016PTC092070	एचएम फुड्स प्राईवेट लिमिटेड	G52252301
141	U40106GJ2014PTC080441	मेशवा एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड	G52198264
142	U18101GJ1994PTC021003	कार्प फेशन प्राईवेट लिमिटेड	G52173762
143	U45200GJ2013PTC076844	प्रगति इन्फ्रास्पेस प्राईवेट लिमिटेड	G52097136
144	U26900GJ2014PTC078466	पायोनीर माइनकेम प्राईवेट लिमिटेड	G51936359
145	U29300GJ2015PTC083035	सील इलेक्ट्रॉनिक्स इक्युपमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	G51909000
146	U72200GJ2015PTC083456	टेकमेड लेब्स प्राईवेट लिमिटेड	G51848851
147	U24230GJ2013PTC075674	एजीबी लाईफ केर इन्डीया प्राईवेट लिमिटेड	G51675965
148	U45200GJ2006PLC049240	रुप नाकोडा डेवलपर्स लिमिटेड	G51552131
149	U28932GJ2012FTC070930	गेस्टेम्प ओटोमोटीव साणंद प्राईवेट लिमिटेड	G51471431
150	U45200GJ2011PTC067176	अमूल्य रीयल्टी प्राईवेट लिमिटेड	G50345446

151	U67190GJ2004PTC044516	संतराम मनी चेन्जर प्राईवेट लिमिटेड	G50195189
152	U45201GJ2008PTC052810	तरतम एन्टरप्राइज प्राईवेट लिमिटेड	G48408694
153	U72200GJ2013PTC077192	अंशी बेसकोड प्राईवेट लिमिटेड	G48367684
154	U51900GJ2012PTC071662	श्री संतोषी एग्रीकोम प्राईवेट लिमिटेड	G47607940
155	U40109GJ2012PTC071185	एचवीएम पावर प्राईवेट लिमिटेड	G47503321
156	U17120GJ2011PTC065779	महावीर एम्ब्रोडरी जरी प्राईवेट लिमिटेड	G47053970
157	U74140GJ1999PTC036331	सच मनी एक्चेन्ज प्राईवेट लिमिटेड	G42066852
158	U24200GJ2015PTC083767	सुरम्य केमीकल्स प्राईवेट लिमिटेड	G76522002
159	U51101GJ2012PTC070658	पी डी कोमोडीटीज इन्डीया प्राईवेट लिमिटेड	G76516558
160	U17110GJ2004PTC044950	वीएनएस फेशनस प्राईवेट लिमिटेड	G76133966
161	U52602DN2013PTC000419	ग्लोबल इन्डीया होम अप्लायन्स प्राईवेट लिमिटेड	G76049428
162	U74999GJ2016PTC092449	फोगर्ट प्राईवेट लिमिटेड	G75723387
163	U24129GJ1996PTC030629	सी डी आई प्राईवेट लिमिटेड	G75402982
164	U18109GJ2012PTC068768	पंची क्रीएशन्स प्राईवेट लिमिटेड	G75287243
165	U74140GJ2012PTC069477	पनव कन्सलटन्सी प्राईवेट लिमिटेड	G75200071
166	U51900GJ2014PTC078727	अजेक्ष इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड	G75145763
167	U15400GJ2015PTC084774	उमासिद्धी फुड्स एण्ड बेवरेजास प्राईवेट लिमिटेड	G75073007
168	U45209GJ1999PTC036571	बेकबोन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड	G74949264
169	U24305GJ2016PTC093425	एलोरवेद बायोसायन्सीस प्राईवेट लिमिटेड	G74800319
170	U70200GJ2014PTC079733	कनम इन्फ्रास्ट्रा प्राईवेट लिमिटेड	G74748740
171	U72200GJ2013PTC077694	रीयटेक आईटी सर्वीसीस प्राईवेट लिमिटेड	G74641697
172	U51909GJ2013PTC076191	जेठवा इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड	G74272477
173	U24231GJ1996PTC030547	देकावाडीया केमीकल्स प्राईवेट लिमिटेड	G74242686
174	U45200GJ2016PTC086234	फोर्का इन्गीटेक प्राईवेट लिमिटेड	G74090242
175	U52390GJ2013PTC076673	बोलटन ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	G74071341
176	U72900GJ2012PTC069009	एकजीयलीन्ट टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड	G73951089
177	U26999GJ2016PTC094075	अल्टीओरा सीरामीक प्राईवेट लिमिटेड	G73948325
178	U93000GJ2013PTC074228	होप इवेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	G73938995
179	U36912GJ2010PTC062904	एंजल रुबी प्राईवेट लिमिटेड	G73910168
180	U17120GJ2010PTC060598	जास्मीन स्पीनींग प्राईवेट लिमिटेड	G73701955
181	U17120GJ2010PTC060602	ओलीव फर्नीसींग्स एण्ड फेब्रीक्स प्राईवेट लिमिटेड	G73700049
182	U45201GJ2007PTC052425	लक्ष्मीराज इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड	G73699878
183	U29220GJ2011PTC066377	स्टर्लींग एन्जीटेक प्राईवेट लिमिटेड	G73697252
184	U70102GJ2010PTC060330	सत्यप्रकाश रीयल्टीस प्राईवेट लिमिटेड	G73650574
185	U67120GJ2013PTC075306	राजेन्द्र फीनसेक एडवाईजरी प्राईवेट लिमिटेड	G73541484

186	U40106GJ2015PTC083682	क्लासीक ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड	G73492571
187	U24304GJ2016PTC094453	दर्शनेम फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	G73483885
188	U29120GJ2010PTC060651	एक्वा ओईल सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड	G73449407
189	U51398GJ2009PTC058231	सोमनाथ एक्षीम प्राइवेट लिमिटेड	G73433039
190	U72300GJ2014PTC079240	युनीकोड आर.कोम प्राइवेट लिमिटेड	G73343899
191	U51900GJ2015PTC085434	रोयलराज एन्टरप्राइजीस प्राइवेट लिमिटेड	G73323578
192	U17120GJ2012PTC073077	आईकोर स्पीनींग प्राइवेट लिमिटेड	G72748460
193	U67190GJ2000PTC037495	चंदानी मनी एक्सेचेंज प्राइवेट लिमिटेड	G72588684
194	U45204GJ2011PTC068057	विवान इन्फ्रा-टेक (इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	G72583156
195	U74920GJ2013PTC077912	श्री हरसिद्धी सीक्युरिटी सर्वीसीस प्राइवेट लिमिटेड	G72523384
196	U21098GJ2016PTC086347	फाउन्डर्स पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	G72485808
197	U28112GJ2011PTC063726	वराद मेटाफ्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड	G72455710
198	U72900GJ2014PTC078420	अक्षर आईटी टेक प्राइवेट लिमिटेड	G72404122
199	U51909GJ2017PTC097205	रोसाली इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	G72376205
200	U45200GJ2013PTC075926	युनीक मेहसाना लाइफस्पेस प्राइवेट लिमिटेड	G72328891
201	U63040GJ2009PTC056469	सीम्प्ली ट्रावेल्स प्राइवेट लिमिटेड	G72296361
202	U51909GJ2010PTC060667	टीएमपी इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड	G71730832
203	U65910GJ1994PTC022980	वेक्टर फीनकेप प्राइवेट लिमिटेड	G71699193
204	U45201GJ2010PTC061151	ड्रोइट लाइफस्टाईल प्राइवेट लिमिटेड	G71595912
205	U80302GJ2017PTC095297	प्रोमेक्ट एज्युकेशन प्राइवेट लिमिटेड	G71314546
206	U17214GJ2014PTC078518	नीक्कु फेब प्राइवेट लिमिटेड	G71245047
207	U51494GJ2012PTC072293	महेश्वरी डायमण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड	G71030779
208	U01403GJ2013PTC077729	सौराष्ट्र एग्रीकेर प्राइवेट लिमिटेड	G70958707
209	U01225GJ2013PTC074262	हरीदर्शन एगो प्राइवेट लिमिटेड	G70941521
210	U01403GJ2013PTC074332	अजीतनाथ एगो प्राइवेट लिमिटेड	G70799333
211	U29192GJ2014PTC081144	स्मुथ डक्ट प्राइवेट लिमिटेड	G70523519
212	U74140GJ2015PTC085490	कार्यशील इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	G69976397
213	U51909GJ2016PTC094299	सीजन सीड्स प्राइवेट लिमिटेड	G69955300
214	U50400GJ2011PTC068303	ट्रीक्शा सर्वीसीस प्राइवेट लिमिटेड	G69749687
215	U72300GJ2015PTC081916	वायनेट आईटी कन्सलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	G69602167
216	U72900GJ2011PTC068265	ध्यान इन्फोमीडीया प्राइवेट लिमिटेड	G69440113
217	U14200GJ2013PTC073743	कल्याणी बेन्टोनाईट प्राइवेट लिमिटेड	G69341766
218	U24239GJ2009PTC055922	एक्टन लाइफसायन्सीस प्राइवेट लिमिटेड	G69010643
219	U74999GJ2016PTC092580	केयफाम्स प्राइवेट लिमिटेड	G68954494
220	U14200GJ2013PTC075956	समहारा माइनींग प्राइवेट लिमिटेड	G68787753

221	U92120GJ2013PTC075099	कल्पवृक्ष फील्म्स प्राईवेट लिमिटेड	G68730084
222	U15400GJ2014PTC079106	रकुशवा इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	G68184696
223	U55101GJ1985PTC008294	स्वान होटल्स प्राईवेट लिमिटेड	G65030272
224	U13209GJ1995PTC026227	नेशील माईन एण्ड मीनरल्स प्राईवेट लिमिटेड	G62921465
225	U24100GJ2015PTC083712	ग्रीनशील्ड कोटींग एण्ड कोरोसन प्रीवेन्शन प्राईवेट लिमिटेड	G61032710
226	U51900GJ2010PTC060996	एणएनएस ट्रेडलीक प्राईवेट लिमिटेड	G58155722
227	U52100GJ2007PTC052243	अबाड ट्रेडलीक प्राईवेट लिमिटेड	G57924045
228	U67120GJ2010PTC062525	रुशी स्मार्ट ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड	G57811127
229	U51909GJ2014PTC080578	फ्युजन फ्लुइड्स प्राईवेट लिमिटेड	G56986946
230	U72200GJ2013PTC077173	युनोलीसीस सर्वोसीस प्राईवेट लिमिटेड	G56103641
231	U51900GJ2014PTC078679	वेरडे एन्वायरनमेन्ट टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड	G56101504
232	U74999GJ2016PTC092063	मेजीक स्टेम सेल प्राईवेट लिमिटेड	G55500839
233	U45203GJ2013PTC077212	पूर्वा प्रोकोन प्राईवेट लिमिटेड	G55147607
234	U60231GJ1997PTC031902	ज्योटीन्द्र ओटोलीक प्राईवेट लिमिटेड	G54993159
235	U72900GJ2013PTC074643	लाईफयाईस बीजनेस सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड	G54478755
236	U45200GJ2010PTC063168	नेमीनाथ रीयल्टी प्राईवेट लिमिटेड	G54430939
237	U74120GJ2015PTC082747	नटराज रीसोर्सिस प्राईवेट लिमिटेड	G54088752
238	U26955GJ2012PTC068771	इनोवेटिव कोनक्रीट मिश्र प्राईवेट लिमिटेड	G54062583
239	U74999GJ2012PTC070173	पी एण्ड आर एक्षीबीशन्स प्राईवेट लिमिटेड	G53839726
240	U74999GJ2012PTC071393	फोक्युसेड फेसीलीटीस प्राईवेट लिमिटेड	G53097564
241	U24100GJ2013PTC073669	इन्वीन्सीबल क्रीएशन्स प्राईवेट लिमिटेड	G52624699
242	U72900GJ2013PTC075696	जीयोन इन्फोवेब सर्वोसीस प्राईवेट लिमिटेड	G52281508
243	U74900GJ2016PTC085842	ओक्षीरीच लाईफ नीड्स प्राईवेट लिमिटेड	G51339505
244	U24230GJ2011PTC065802	ओलकेम लेबसायन्स प्राईवेट लिमिटेड	G51269157
245	U74999GJ2014PTC080752	कुलफुल फेमिली एन्टरटेईनमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	G49733991
246	U65910GJ1980PTC003832	रोज एपल इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	G48255814
247	U72900GJ2014OPC081037	इमेलमोन्क्स सोल्युशन्स (ओपीसी) प्रा. लिमिटेड	G47012398

विजय खुबचंदानी
कंपनी रजिस्टार
गुजरात, दादर एवं नगर हवेली

एलएलपी अधिनियम 2018 और निम्नलिखित एलएलपी के विषय में

अहमदाबाद—380013, दिनांक 26 फरवरी 2018

सं. आरओसी/एलएलपी—24/पब्लि./2017—18/8712—लिमिटेड लायाबिलिटी पार्टनरशिप नियम, 2009 के नियम 37 के उपनियम 3 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित एल.एल.पी के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त एल.एल.पी. विघटित हो गई हैं।

क्र. सं.	एलएलपी कम्पनी के नाम	एलएलपीइन
1	एग्रो डील एलएलपी	एएजी-6107
2	नीलमणी ट्रेडिंग एलएलपी	एएडी-6873
3	श्रेयांश इन्फ्राबील्ड एलएलपी	एएई-3120
4	आइप्लान इवेन्ट्स सर्विसेस एलएलपी	एएजी-9637
5	वल्लभ इन्डस्ट्रीअल पार्क एलएलपी	एएजी-2940
6	पूर्वी डीस्ट्रीब्यूटर्स एलएलपी	एएबी-5550
7	सीजकोन इन्फ्रास्ट्रक्चर एलएलपी	एएफ-2894
8	टुके कार्स एलएलपी	एआई-1825
9	रीच वेल्यु स्टोन ट्रेडिंग एलएलपी	एएडी-6872
10	राधीया सोल्युशन एलएलपी	एएफ-8257
11	आशरा ट्रेडिक्सो एलएलपी	एएसी-2123
12	एरेट कन्स्युमर्स एलएलपी	एएबी-5807
13	स्टेम डीजाइन एण्ड डेवलपमेन्ट एलएलपी	एएडी-4401

वी. के. खूबचंदानी
कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 252 (कंपनी अधिनियम, 1956 के पत्राचार खंड 560 (6) के संबंध में
कंपनीयों का नाम प्रवर्तित करने के बारे में ।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 13 मार्च 2018

सं. आरओसी/गुज./252/2018/9500.—माननीय राष्ट्रीय कायदा कॉरपोरेट ट्रिब्यूनल, गुजरात के आदेश के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 252 (कंपनी अधिनियम, 1956 के पत्राचार खंड 560 (6) के तहत सूचना दी गई है कि निम्नलिखित कंपनियों को कंपनी रजिस्ट्रार, गुजरात के रजिस्ट्रार में प्रवर्तित करना है। जिस संबंध में उक्त कंपनियों का नाम इस कार्यालय कंपनी रजिस्ट्रार, गुजरात के रजिस्ट्रार में प्रवर्तित किया जाता है।

अ. क्र.	कंपनी का नाम	सीन नंबर	कंपनी की अपील संख्या	दिनांक	प्रवर्तित की दिनांक
1	सुर्यप्रकाश डेवलपर्स प्रा. लि.	U45201GJ2005PTC045790	53/252/NCLT/AHM/2017	20.12.2017	11.01.2018
2	रेक्स एनवॉयमेंट प्रा. लि.	U93000GJ2009PTC056852	37/252/NCLT/AHM/2017	15.01.2018	29.01.2018
3	कोरजेम फार्मास्युटिकल लि.	U24230GJ2011PTC065185	76/252/NCLT/AHM/2017	15.01.2018	31.01.2018
4	मेकैनिकल एण्ड हिट ट्रिट वर्क्स प्रा. लि.	U29224GJ1971PTC002008	36/252/NCLT/AHM/2017	15.01.2018	14.01.2018
5	शिवकृपा एन्वायरो सिस्टम प्रा. लि.	U74999GJ1995PTC024842	55/252/NCLT/AHM/2017	30.01.2018	21.02.2018
6	श्री बायोकेअर सोल्युशन प्रा. लि.	U29299GJ2011PTC0644 14	52/252/NCLT/AHM/2017	30.01.2018	27.02.2018
7	शोभाश्री स्पिनर्स प्रा. लि.	U17119GJ1971PTC002906	T.P.63/560(6)/NCLT/AHM/2017(NEW) C.P.NO.543/560(6)/NCLT/AHM/2016(OLD)	07.02.2018	27.02.2018
8	ए2वीपी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.	U51909GJ2001PTC040130	2/252/NCLT/AHM/2017	13.02.2018	28.02.2018
9	राजपुताना बायोटेक प्रा.	U29219GJ1996PTC030813	33/252/NCLT/AHM/2017	30.01.2018	28.02.2018

	लि.				
10	टरक्युस एक्सपोर्ट प्रा. लि.	U52393GJ2011PTC064186	48/252/NCLT/AHM/2017	13.02.2018	06.03.2018
11	कामरान कापाडीया लैण्ड डेवलपर्स प्रा. लि.	U45202GJ2001PTC039342	T.P.61/560(6)/NCLT/AH M/2017(NEW) C.P.NO.131/560(6)/NCL T/AHM/2016(OLD)	23.02.2018	06.03.2018

यु. पी. परमार
उप. कम्पनी रजिस्ट्रार,
गुजरात

फार्म सं. एसटीके-7

नाम काटने तथा विघटन की नोटिस

[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) तथा कम्पनीयों के नियम 2016 के नियम 9 (कम्पनीयों के रजिस्टर से कम्पनियों के नामों की बरखास्तगी) के अनुसरण में]

कंपनी अधिनियम 2013 की निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में।

मुंबई-400002, दिनांक 14 मार्च 2018

सं. आरओसी/मुंबई/248(2)/एसटीके 7/2645—इस कार्यालय के नोटिस संख्या आरओसी/धारा 248/एसटीके-2/2018 तथा दिनांक 21.11.2017 एवं 02.02.2018 को एसटीके 6 के फॉर्म में नोटिस जारी की गई के विषय में एतद्वारा नोटिस प्रकाशित की जाती है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 248 की उप-धारा (6) के अनुसरण में निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज दिनांक 08.03.2018 को कम्पनीयों के रजिस्टर से काट दिया जाता है तथा कथित कम्पनी विघटीत की जाती है।

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
1	श्री राम स्विचगिअर्स (महाराष्ट्र) प्राइवेट लिमिटेड	U31100MH1998PTC117189	G48626865
2	कन्डोर प्रोजेक्ट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45209MH2014PTC258819	G46789400
3	अलायन्स ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U51100MH1996PTC103448	G45348109
4	पुनीत फायबर्स प्राइवेट लिमिटेड	U17110MH1996PTC098062	G45348497
5	ऑटोकार्ट ऑनलाइन रिटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC238064	G44905685
6	इंडिया ऑटो स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC234611	G44905487
7	अनुराधा स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U92419MH2012PTC226055	G44943678
8	इकोहेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U85100MH2011PTC216847	G44941441
9	युएसएल ऑटो सर्विसेज लिमिटेड	U50103MH2004PLC149394	G44853810
10	शांति डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2013PTC246221	G44831451
11	हब ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड	U52390MH2011PTC220943	G44725943
12	लावण्या हेल्थ एंड वैलनेस प्राइवेट लिमिटेड	U93000MH2011PTC211815	G44752988
13	रिक्रिएट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	U40103MH2010PTC211665	G44754984
14	एम्ब्रोज़ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	U72100MH2000PTC124992	G44761989
15	संचार लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U63030MH2010PTC211309	G44753366
16	परसेप्ट मल्टीट्रेडे प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2013PTC245960	G44754869
17	बूकट्री डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2013PTC247191	G44755494
18	भानुमति ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2013PTC247108	G44754190

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
19	वि केअर मर्चेट प्राइवेट लिमिटेड	U52100MH2011PTC220460	G44722197
20	अवान थेराप्यूटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U73100MH2008PTC178339	G44796993
21	बोन टोन एंटरटेनमेंट एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2011PTC218603	G44676849
22	तुली ज़ सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2011PTC221642	G44663953
23	ट्रांस-इंडिया ट्रांसफूडिऑस फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	U99999MH1982PLC026835	G44661007
24	नुओर केमिकल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	U51101MH2016PTC274810	G44552792
25	डिज़ाइन कनेक्ट वेब वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड	U72300MH2012PTC235451	G44546380
26	सोलर प्रोडक्ट्स (इं) प्राइवेट लिमिटेड	U40106MH2006PTC164909	G44553667
27	स्पोर्ट्स जिनी प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2013PTC240893	G44570711
28	ट्राइटोन इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74920MH2008PTC186195	G44586550
29	छेड़ा प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड	U22212MH2011PTC213730	G44607901
30	जिएस रिअल्टिज प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH2005PTC154975	G44621266
31	अगम्मा एज्युटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U80902MH2002PTC137024	G44601128
32	कैलिओ कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2016PTC282037	G44521540
33	ब्रांड मसाला डिज़ाइनर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2012PTC237192	G44478832
34	दापोली बीच प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	U45400MH2013PTC240224	G44447589
35	दिनहर्ष हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U55101MH2006PTC164927	G44502235
36	जिनमेक मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U29253MH2009PTC195594	G44402600
37	कैप्टस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	U45400MH2009PTC196472	G44389872
38	श्रीकृपा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH1993PTC071917	G44349678
39	फेरिको हेल्थकेअर प्राइवेट लिमिटेड	U24110MH1987PTC042146	G44343432
40	सिचर टेक प्राइवेट लिमिटेड	U29268MH2010PTC210025	G44382448
41	चार्टर्ड टैक्स कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH2011PTC215817	G44405702
42	सनी एसिटिलीन प्राइवेट लिमिटेड	U40200MH1997PTC109504	G44349587
43	साई पुरुजिथे सोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U52100MH2011PTC213701	G44402501
44	देउस रियल एस्टेट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH2013PTC240989	G44247310
45	एडिफिक रिअल्टी प्राइवेट लिमिटेड	U45202MH2008PTC188860	G44223055
46	क्रिकऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2013PTC247262	G44280675
47	श्री श्याम मेटल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	U27200MH1982PTC027322	G44294684
48	आरबिजी आईटी सोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U72300MH2013PTC240743	G44134054
49	मेघालय सिल्क मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	U17120MH2009PTC196520	G44203099
50	रिअसुअर चित फण्ड प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2011PTC216033	G44199248
51	टिवायपी ड्राफ्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74990MH2009PTC190607	G44147999
52	एपीजे ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2005PTC156514	G44131332

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
53	वीके स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U92412MH2013PTC246088	G44175073
54	कृष अलका थर्म इंजिनीअर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74210MH2008PTC185665	G44216208
55	ऑस्कर मर्चेट प्राइवेट लिमिटेड	U52500MH2011PTC220788	G44077501
56	सस्मित एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2004PTC148656	G44080711
57	चेरियट कॉमिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U22212MH2010PTC207583	G44091080
58	निभा चेम क्लीनिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74910MH1989PTC054795	G44087724
59	मोटवानी गिफ्ट प्राइवेट लिमिटेड	U36998MH1986PTC039468	G44093797
60	समर्थ डिजिसायन्स प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2010PTC202699	G43988625
61	बायस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2015PTC270724	G43963800
62	विहा मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2011PTC221984	G44012771
63	भिलाई मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड	U13200MH2010PTC200048	G44041465
64	कोगेन्ट रिसर्च एंड अनालिटिक लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	U73100MH2014PTC254028	G44004901
65	शारदा भटिआ रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड	U70109MH2012PTC226887	G44016285
66	श्री हरिहर शुगर प्राइवेट लिमिटेड	U15122MH2012PTC231479	G43981729
67	इजि लिंक्स डाटासोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U72300MH2008PTC189035	G43851492
68	सादिक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	U40101MH2010PTC203803	G43851351
69	वूडलेस बिज़नेस सोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)	U72300MH2015OPC264740	G43932805
70	जोया हैबिटेड प्राइवेट लिमिटेड	U36109MH2009PTC196325	G43904309
71	छाया माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड	U14220MH2013PTC244866	G43892611
72	जाखपुर जगदम्बा (कोराडी) इफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	U45400MH2013PTC240982	G43929991
73	आर्सेलर सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U26940MH2009PTC189347	G43904390
74	ताज फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड	U92100MH2004PTC149607	G43888668
75	फोरेटेल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड	U45201MH2006PTC164891	G43918796
76	सनिका प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH2010PTC208106	G43886696
77	अमोनकर कैपिटल एंड वेल्थ एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड	U67190MH2010PTC198849	G43871656
78	केआरडी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	U70109MH2009PTC198071	G43773456
79	कोकण कार्नेर फार्म प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2012PTC225814	G43792001
80	अल्मार कंटेनर लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH1999PTC120690	G43840305
81	स्टार धोबीज़ प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2014PTC260484	G43835271
82	स्पीडवेल बिज़नेस केयर हाउस प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2012PTC227112	G43683937
83	रिअसुअर कुरिएस प्राइवेट लिमिटेड	U67190MH2012PTC233609	G43744473
84	गाइड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH1996PTC101251	G43734714
85	प्लस कमोडिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2009PTC193633	G43747302
86	उत्कर्ष मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2015PTC267909	G43672781

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
87	पिगमेंट्स लेक्स एंड केमिकल्स मॅएफजी. कं. लिमिटेड	U24100MH1948PLC006793	G43706381
88	बुज़ेन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC225963	G43720960
89	कस्टमटीक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2012PTC225917	G43639772
90	रेड ब्रिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2011PTC217998	G43589001
91	लोमस टेक्नीकट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	U29268MH2007PTC171550	G43625714
92	हिन्द टर्मिनल्स (मुद्रा) प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2007PTC168712	G43611656
93	मनीष कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1980PTC022074	G43598366
94	७क्लोवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	U45209MH2012PTC232270	G43649060
95	मधूनाना कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74990MH2010PTC198656	G43588730
96	क्सप्रेसशन्स इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U92140MH2010PTC207426	G43578095
97	आरबिटल लोजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2010PTC202331	G43538503
98	श्राजस मरीन लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U61200MH2015PTC265355	G43522226
99	सीलैंड लाइन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U61200MH2009PTC198233	G43520311
100	इलीट राइड प्राइवेट लिमिटेड	U63090MH2010PTC211592	G43558246
101	टिसी कैपिटल एडवाइजरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	U74990MH2014PTC260407	G43532480
102	देवकृपा फूड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	U15541MH2013PTC241800	G43526805
103	अरोमे कोल्ड चैन प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2015PTC268489	G43538735
104	सामंत ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	U63090MH1995PTC092765	G43542760
105	आरटिमिस वर्कफोर्स सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74910MH2008PTC186379	G43538289
106	सि जे इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	U25209MH1998PTC116707	G43451590
107	जिनेक्सट कंट्रोल्ल्स प्राइवेट लिमिटेड	U51109MH2007PTC166828	G43468925
108	सुमा ऑटो -टेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	U99999MH1997PTC106527	G43484567
109	आकुकेअर साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2010PTC206789	G43479880
110	जल्लोष मर्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2010PTC205031	G43450063
111	इसीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U74910MH2009PTC189929	G43506823
112	अथांश कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2010PTC200375	G43502897
113	पसिफिक पीरामल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51420MH1995PTC095687	G43493204
114	तिरुपति सिनफैब प्राइवेट लिमिटेड	U17127MH1997PTC107969	G43489566
115	फ्रिटर्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	U72300MH2016PTC271762	G43467380
116	वाय. एम. मेडीसीस प्राइवेट लिमिटेड	U33111MH2012PTC228456	G43458496
117	लेज़र विज़न ऑय हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2015PTC262245	G43481340
118	कुबटेक प्राइवेट लिमिटेड	U33112MH2010PTC205813	G43466127
119	डेएसके डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड	U22219MH2007PTC176404	G43375526
120	सतरंगी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2010PTC206693	G43349182

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
121	जाग्रति एक्का प्राइवेट लिमिटेड	U15543MH2008PTC178436	G43363589
122	जेम डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड	U36911MH1988PTC047191	G43341577
123	माझसन माइनर पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2007PTC168677	G43248483
124	सत्र डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201MH2006PTC163491	G43292473
125	कृष्णा सागर एग्रीकल्चर एंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2007PTC175661	G43230671
126	एम्ब्रोसिए मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	U92110MH1998PTC116658	G43285733
127	ए बी एंड यु कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	U74300MH1997PTC107160	G43284900
128	इन्क्युबे ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51109MH2010PTC205329	G43304856
129	स्पर्श एक्सेसरीज प्राइवेट लिमिटेड	U74990MH2011PTC219461	G43229608
130	ग्रेविटी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51505MH2009PTC195382	G43242254
131	स्विफ्ट वाइन्स लिमिटेड	U15500MH1999PLC118367	G43293026
132	सूत्र ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड	U52100MH2013PTC245312	G43318484
133	क्रॉस-लिक ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51109MH2010PTC205020	G43304799
134	इन्टर ग्लोबल ऐड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2014PTC260133	G43165083
135	स्वान टूर्स एंड सफारी प्राइवेट लिमिटेड	U63000MH2013PTC248811	G43180744
136	हरिश्चंद्र एस घाग हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड	U55101MH2015PTC263863	G43193283
137	कीनन ऑफशोर प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2014PTC254469	G43151927
138	सैफरन सोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U24240MH1999PTC123324	G43188721
139	हेलियोस नेचुरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड	U11100MH2007PTC169420	G43213842
140	कोलंबस पीपल सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2013PTC251492	G43167196
141	मार्क डेंटल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC234234	G43180579
142	आनन्दसागर मर्चेन्ट एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2012PTC235189	G43214246
143	टोयोपोवेर ऑटोमोटिव्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	U34300MH2003PTC142677	G43224708
144	विंगमैन एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH2013PTC242512	G43036730
145	अरिस्सा आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2009PTC194153	G43034370
146	प्रथमेश मुल्टी-ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2006PTC163861	G43033406
147	भुमिराजब्रिज प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH2015PTC271148	G43064120
148	गुरमन प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	U22130MH2010PTC200443	G43105253
149	सिएनआर बिज़नेस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC229157	G43066612
150	क्रिएटिव डेंटल डिजायनर्स प्राइवेट लिमिटेड	U85190MH1994PTC081617	G43125533
151	भुमिराज कमल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2016PTC271634	G43062124
152	भुमिराज रमणीक प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2015PTC271240	G43063502
153	ट्रैवेलोन्स सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	U63030MH2010PTC199040	G43100114
154	एच के नोट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड	U21098MH2003PTC141834	G43049733

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
155	स्कसन मरीन ड्रेजिंग एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74990MH2009PTC191028	G42987503
156	रियल टेक्नो डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U29199MH2006PTC164680	G43011576
157	सहने रॉटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH1995PTC095612	G42996454
158	भुमिराज गोविन्द प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2016PTC271613	G43008242
159	इडास टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	U72200MH2012PTC227079	G43013549
160	डिएमआय कोक प्राइवेट लिमिटेड	U23203MH2012PTC233772	G42987131
161	भुमिराज जुगल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2015PTC271344	G43009364
162	पॅराडाइन मरीन अकादमी प्राइवेट लिमिटेड	U80904MH2014PTC257078	G42973354
163	स्वीकार प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	U70109MH2010PTC205777	G43010222
164	इ शेयर कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड	U67190MH2005PTC156876	G42983890
165	बेकर -स्ट्रीट फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U15313MH2013PTC243224	G42978494
166	पॅराडाइन शिप मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2013PTC243192	G42976050
167	संजरी चेम प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2012PTC231672	G42990572
168	इंडेकोर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2012PTC230922	G42986091
169	भुमिराज चंद्र प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2016PTC271660	G42999201
170	नोबल टेक्नो क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U29253MH2011PTC223238	G43006683
171	एसीटीए कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2011PTC223352	G42840009
172	न 16 टेक्नो कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U93000MH2010PTC201100	G42881169
173	रंगप्रभु फाइनेंसियल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	U74990MH2011PTC213193	G42927335
174	जीजाइ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	U45400MH2011PTC216962	G42923243
175	एग्रो इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	U01403MH2010PTC208348	G42848572
176	नीवो एग्रो एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2015PTC269691	G42878876
177	मेलट्रेक इंफोसेर्विसेस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	U52392MH2003PTC140298	G42888602
178	बोविस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1995PTC092070	G42843516
179	स्पार्कलिंग नोवा प्राइवेट लिमिटेड	U52100MH2013PTC242556	G42905539
180	बियॉन्ड इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U93090MH2009PTC190874	G42883306
181	इलीट गैस इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U29200MH2008PTC182715	G42852079
182	सोलिरिस इन्वेस्टमेंट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH2005PTC153427	G42781690
183	टेनेट इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U72100MH2004PTC148313	G42750901
184	अब्सोलुटली डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2012PTC230600	G42744292
185	इनोवेटिव पावर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2013PTC243706	G42785154
186	नोमीआ स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74130MH2006PTC158782	G42770354
187	इशानिका इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U51109MH2012PTC226457	G42757559
188	ग्लोबेटेक सिस्टम्स इंटीग्रेटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U72501MH2013PTC250010	G42773218

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
189	श्री सद्गुरु कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	U45400MH2008PTC184319	G42734368
190	क्राउन वेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U65923MH2015PTC270634	G42771253
191	मस्का डील एकाम प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2014PTC258943	G42736355
192	एल टोरो टेक्नोलॉजी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2013PTC242251	G42808519
193	टोपर कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH2010PTC206491	G42809871
194	वोजस हेल्थकेअर प्राइवेट लिमिटेड	U51397MH2010PTC209328	G42816116
195	पीपर ग्रीन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	U29190MH2008PTC183934	G42683276
196	प्रसाल' स नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड	U29200MH2007PTC174285	G42633602
197	विमज-न -फंसेज़ प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2011PTC213933	G42654301
198	सिप्रिन्स इन्वेस्ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1996PTC098146	G42616102
199	सह्याद्रि कुरियर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74990MH2009PTC189283	G42615518
200	सिसरो रियल्टी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400MH2008PTC179522	G42623736
201	इंफीन एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U67100MH2014PTC256892	G42708933
202	साई रचना डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड	U51228MH2003PTC141605	G42617100
203	स्पृथी मेडिकल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2016PTC287850	G42618389
204	ऑप्टिकल मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U52390MH2009PTC194160	G42614925
205	बॉलीवुड सर्कस प्राइवेट लिमिटेड	U93000MH2016PTC274434	G42663476
206	चेरी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U32109MH1994PTC083273	G42683169
207	इ - गोल्डन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	U29253MH2010PTC205771	G42709253
208	आकृति सिटी मेगा प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH2010PTC210230	G42590828
209	साइंस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड	U80904MH2012PTC228771	G42509885
210	अक्षा इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2003PTC141986	G42566265
211	भर्ती चेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	U24233MH2014PTC257067	G42546457
212	किमया एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2009PTC195545	G42552257
213	बिगसिटी डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201MH2006PTC165081	G42590539
214	स्टोन मैटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2012PTC235081	G42505529
215	कृशाय एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH2010PTC203941	G42583419
216	विधेश्वरी पावर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U40105MH2010PTC199045	G42591321
217	जैकब्स नुकलेअर इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2011FTC216288	G42550855
218	विश्वास पावर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U40105MH2010PTC198883	G42591560
219	बिकेपी टेलीकॉम एंड आईटी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U64200MH2005PTC153382	G42578179
220	दोषी ऑनलाइन ट्रेवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U63030MH2011PTC219900	G42516526
221	इक्वानम एडव्हायज़र्स प्राइवेट लिमिटेड	U67190MH2006PTC161873	G42584284
222	जॉय इरेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45202MH2008PTC186868	G42590893

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
223	गोल्डबर्ग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH1946PTC005120	G42436337
224	नवदीप एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	U01403MH2004PTC147240	G42442756
225	जाजल स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड	U27100MH2005PTC154707	G42481689
226	कामदगिरि ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51491MH1992PTC069432	G42462168
227	मॉडरेट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1993PTC073794	G42461186
228	सनलाइट टेक्नोकैट्स प्राइवेट लिमिटेड	U31109MH2012PTC236200	G42422782
229	बेनेट लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U63010MH2000PTC123911	G42421438
230	अवेवी बायोफार्मासुटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2014FTC256854	G42417535
231	रूई इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2015PTC271244	G42321083
232	शिल्पी एस्टेट डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH1987PTC044071	G42372904
233	कोनबीम स्कैन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74110MH2009PTC192929	G42362293
234	हर्वल एक्सट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U01100MH1996PTC098173	G42368886
235	स्टेलर स्कैंडेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U74110MH2009PTC192868	G42362376
236	एनडीजीबी डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2008PTC186577	G42314237
237	कविता बहल प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2015PTC264702	G42365874
238	शिल्पी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH1987PTC044069	G42373332
239	एक्सपान्डिंग होराइजन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड	U80900MH2013PTC243241	G42341578
240	श्याम एग्रीकल्चर एंड डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH1996PTC098151	G42373761
241	स्पेक्ट्रा ट्रेनिंग एंड अकादमी प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC235749	G42341883
242	नित्यानंद ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1976PTC018817	G42344663
243	परसरामपुरीया गार्डन फ्रेश कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड	U74900MH1994PLC081667	G42371294
244	झेन एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड	U51496MH2004PTC145406	G42387290
245	सांज फार्मा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	U29297MH1996PTC101603	G42347450
246	क्रिएटिव एंड माइटी रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400MH2010PTC209385	G42377713
247	गोल फैशन क्लॉथ मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	U51109MH2008PTC188506	G42391961
248	जी एस डायमंड एंड जेवेलरी टेस्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2015PTC262445	G42392001
249	परसरामपुरीया प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	U70101MH1985PTC037015	G42369595
250	परसरामपुरीया पल्प एंड पेपर लिमिटेड	U21010MH1994PLC081666	G42370007
251	प्रॉफिट ग्रो ट्रेडिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1989PTC052212	G42393009
252	पिपिएल बायवेस लिमिटेड	U63090MH1995PLC094902	G42371658
253	इंडस ह्यूमन कैपिटल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U80904MH2011PTC217596	G42317347
254	पिपिएल रिन्यूएबल इंजीनियर्स लिमिटेड	U28130MH1996PLC099504	G42372482
255	क्वालिटी एवांजलिस्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2015PTC270000	G42211722
256	वर्म्स फाइनेंस एडव्हायज़र्स प्राइवेट लिमिटेड	U65923MH2010PTC200383	G42215707

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
257	परिक्रमा डिझाइन्स प्राइवेट लिमिटेड	U18204MH2013PTC244724	G42182360
258	आशुतोष पेनल्स प्राइवेट लिमिटेड	U36109MH2007PTC175505	G42182709
259	स्टैण्डर्ड फायबरचेम प्राइवेट लिमिटेड	U17120MH1983PTC029717	G42192971
260	अभय ड्रग्स लिमिटेड	U24239MH2006PLC166418	G42224501
261	हीलर हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड	U55100MH2006PTC158856	G42289140
262	व्हीजुअलमाइंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	U92100MH2011PTC218728	G42299917
263	एस एंड एस थ्रिल राइड्स प्राइवेट लिमिटेड	U92490MH2010PTC199975	G42290239
264	अंजनी फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	U24239MH2006PLC166420	G42224857
265	जल एच मेहता ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1961PTC012034	G42248039
266	ए एंड जी कार केयर प्राइवेट लिमिटेड	U50400MH2014PTC258389	G42256917
267	बिएसई स्किल्स लिमिटेड	U80904MH2014PLC255068	G42243337
268	सेवनसीज इंफोटेक लिमिटेड	U30000MH1996PLC097027	G42278606
269	डब्ल्यू.इ.इ रीसाइक्लिंग सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U37100MH2010PTC210443	G42237164
270	माकन अपैरल प्राइवेट लिमिटेड	U18101MH1996PTC099455	G42292557
271	लैंडमार्क पार्किंग सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U63090MH2009PTC194270	G42145052
272	इमर्जिंग इंडिया रियल्टी इंदीवर प्राइवेट लिमिटेड	U70200MH2013PTC247259	G42123802
273	ओएमजी सूर्य पिक्टुरेस प्राइवेट लिमिटेड	U92412MH2010PTC211526	G42095489
274	मेडस्ट आयल एंड गैस प्राइवेट लिमिटेड	U11100MH2013PTC247067	G42138529
275	स्लेप फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	U15139MH2013PTC250815	G42129775
276	हेअल्थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U01403MH2015PTC261667	G42127498
277	विकट्री एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1988PTC049934	G42156760
278	सिद्धार्थ ग्रान्डुर प्राइवेट लिमिटेड	U55101MH2011PTC223181	G42146704
279	सि रावे इंजिनिअर्स एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400MH2010PTC210882	G42131474
280	क्रिसेंट डायग्नोस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	U85195MH2011PTC218080	G42167932
281	इंडिया इन्वेस्टमेंट एडव्हायज़र्स प्राइवेट लिमिटेड	U65923MH2012PTC229802	G42132738
282	योगाधिपा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	U70101MH2012PTC233433	G42127415
283	थेडआ रिकॉप प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2013PTC240155	G42122234
284	अमरावती हार्ट डायग्नोस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	U85110MH2001PTC132383	G42131862
285	इमर्जिंग इंडिया रिटेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U70100MH2013PTC247400	G42125492
286	एज्युएज कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड	U80301MH2009PTC197510	G42115485
287	मोबीपिक्सेल सॉफ्टवेर्स प्राइवेट लिमिटेड	U72300MH2010PTC209929	G42155069
288	द्विगुरु डिजिटल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC236045	G42084731
289	वरदराज प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2012PTC231423	G42127902
290	मिरगे एक्सपीरियंस आरतिक्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U51109MH2009PTC194201	G42089375

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
291	लिफेल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH1990PTC054983	G42159038
292	इंडू इंटरनेशनल डेरी प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2013PTC239659	G42075408
293	प्रभादेवी रॉटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2012PTC229940	G42167809
294	एम्बर ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड	U74994MH2014PTC253884	G41998733
295	खदमत इंटीग्रेटेड सोल्यूशन्स डायनामिक प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2016PTC271974	G42038893
296	अल -हुडा एजुकेशनल फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड	U80904MH2010PTC200052	G41984295
297	मर्केटाइल ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1986PTC042013	G42027839
298	पूजा इंफ्रा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	U45400MH2011PTC214483	G41981218
299	ओन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH2008PTC188316	G42043695
300	अटल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2011PTC218587	G41949231
301	मेरी गोल्ड बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2008PTC182106	G42042697
302	कुटवी ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U52390MH2010PTC206634	G42014365
303	शावक एनवायरनमेंट लिमिटेड	U29219MH2006PLC163400	G42038984
304	दुटर दुडे एजुकेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	U80903MH2008PTC177978	G41860727
305	सुपरजोने डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2009PTC196329	G41837279
306	मीट शेयर्स एंड स्टॉक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74992MH2006PTC162961	G41837725
307	पीरामल आर्चिटेक्ट्स एंड इंजिनिअर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2011PTC217965	G41929449
308	माम्सकी इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U45202MH2010PTC208392	G41880956
309	फ़िज़ाह एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड	U52190MH2009PTC195619	G41929217
310	माता बमलेश्वरी टूरिज्म डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U63090MH2013PTC243661	G41898958
311	विठाई चित फण्ड प्राइवेट लिमिटेड	U67190MH2011PTC215012	G41917014
312	ट्रिस्ट फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	U24239MH2008PTC179073	G41807447
313	क्वासिक फाइनेंसियल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	U67190MH2007PTC173650	G41738816
314	करिज्मा गोठां प्राइवेट लिमिटेड	U45201MH2012PTC230971	G41769910
315	आर वि एन रॉटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70101MH2012PTC231358	G41789967
316	सवाकिन इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2005PTC157337	G41815671
317	अन्स लेक्स लेगम पपरिवाते लिमिटेड	U93000MH2012PTC236051	G41738238
318	लोवापाल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U24230MH1995PTC092384	G41753542
319	रायबहादुर एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2015PTC265673	G41770538
320	ईस्टर्न जियोफिजिकल सीओ प्राइवेट लिमिटेड	U11200MH1987PTC042295	G41789355
321	मूँजोंए डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2009PTC196491	G41821729
322	गारलैंड मर्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड	U51109MH2009PTC193857	G41821190
323	माधुरी पोप एंड दिने होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	U55204MH2011PTC220289	G41725276
324	अट इंफ्रा एंड रियल्टी लिमिटेड	U45400MH2013PLC248233	G41654450

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
325	एटीजी बाजार लिमिटेड	U74999MH2013PLC242587	G41649120
326	कृष पब्लिसिटी प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2010PTC210062	G41678947
327	फॉरवर्ड मोशन प्राइवेट लिमिटेड	U92412MH2011PTC214568	G41669474
328	वीनस सोलर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	U92114MH1996PTC095974	G41679234
329	सि एंड यु एस्टेट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2006PTC159906	G41710344
330	ब्लू बेयर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2005PTC154290	G41536038
331	मां रोसा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	U55101MH2012FTC238283	G41564741
332	सिल्वेलिने लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड	U45202MH2011PTC214249	G41584368
333	पास कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U25206MH1996PTC099018	G41524935
334	सुग्रीव रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2010PTC205141	G41615352
335	परफेक्ट फोर्म्स प्राइवेट लिमिटेड	U17291MH2012PTC234913	G41557299
336	उमय रेलटीएस प्राइवेट लिमिटेड	U70109MH2011PTC216265	G41617770
337	नो मांस लैंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	U93030MH2012PTC231882	G41626532
338	त्वरार रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	U45400MH2008PTC180836	G41618554
339	गिनी रेलटीएस प्राइवेट लिमिटेड	U45202MH2007PTC177141	G41614488
340	इलोडीया रेलटीएस प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2009PTC195652	G41613779
341	भुमिरज अनूप प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2015PTC270999	G41581729
342	कैरवी रेलटीएस प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2011PTC216230	G41615675
343	मेडिस्पेस फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24230MH1991PTC059904	G41562778
344	फरहान प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	U45400MH2011PTC216354	G41614413
345	इंगोट्स ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2013PTC241264	G41548405
346	वर्तिका इन्फ्रामेंट्स सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U29253MH2013PTC249383	G41522772
347	जीना रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	U70109MH2011PTC216222	G41614009
348	कार्लिस्ले प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2011PTC216164	G41613761
349	फंटरिप ट्रेवल्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2015OPC269039	G41612037
350	कयाधु रेलटीएस प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2009PTC195504	G41616129
351	अबले बिज़नेस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2012PTC237549	G41563719
352	रॉयलट एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2013PTC243194	G41582966
353	पेर्सिफास वायरलेस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U72300MH2010PTC206738	G41537663
354	रिलाएबल बायो कोल् प्राइवेट लिमिटेड	U10102MH2011PTC220446	G41554650
355	समेंटिडिओउस कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2011PTC212495	G41584715
356	उन्मेष रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2011PTC216371	G41617762
357	सुजीत रेलटीएस प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2011PTC216291	G41618125
358	उल्हास डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400MH2011PTC216342	G41624164

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
359	रोसलिए प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	U70109MH2011PTC216171	G41616335
360	ताहिर रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2011PTC216035	G41625286
361	रलीगा डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2008PTC188138	G41615410
362	यासिर रेलटीएस प्राइवेट लिमिटेड	U70101MH2011PTC216133	G41624719
363	अस्त्र लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U63010MH2002PTC138449	G41627456
364	उर्जिता डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400MH2011PTC216242	G41624552
365	निकोल रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	U70109MH2011PTC216184	G41624990
366	जुवेन रेलटीएस प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2010PTC205136	G41624560
367	पारुल फुट वियर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U19202MH1968PTC013937	G41426602
368	ल 'प्री प्रोफेशनल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	U74994MH2012PTC232188	G41486283
369	वीसा ग्रीनटेक प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2015PTC267490	G41492083
370	जपज एनर्जिज प्राइवेट लिमिटेड	U40300MH2014PTC258284	G41408253
371	एक इलेक्ट्रिकल्स एंड सुप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड	U40101MH2010PTC203215	G41483785
372	चैस कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2007PTC172547	G41437849
373	दोल पावर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	U31103MH2015PTC264490	G41403437
374	बोटेस्वर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	U45400MH2011PLC212352	G41435710
375	परदेयग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्राइवेट लि.	U74900MH2011PTC224249	G41416637
376	इंगगमेश इंजिनिअर्स प्राइवेट लिमिटेड	U29253MH2013PTC247924	G41482704
377	कन्सेसुअल बेंचमार्किंग प्राइवेट लिमिटेड	U93000MH2010PTC207011	G41403924
378	इंटरवरप बिल्डिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	U26930MH2009PTC191915	G41279951
379	इंटरफलेक्स नेट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	U18109MH2010PTC209110	G41280132
380	एम्फसीस एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74300MH1987PTC044273	G41283490
381	स्कॉर्पिओ फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड	U92112MH1990PTC054993	G41294919
382	स्पिरे एनवीरोटेच प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2015PTC269495	G41314329
383	नॉस -सेंस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2012PTC234894	G41320912
384	मांस हेल्थ रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	U85100MH2010PTC208917	G41322785
385	ओस्तवाल फूड जोन प्राइवेट लिमिटेड	U15549MH2014PTC251575	G41332362
386	वसनी पोलिश पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U24200MH1992PTC067419	G41374539
387	छब्रिआ इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH2007PTC173621	G41386186
388	श्रीस्टार डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	U52590MH2013PTC239315	G41355181
389	स्ट्रीमलाइन इंफ्रा-ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2010PTC204081	G41355744
390	एस्टीम एग्रो एंड फूड प्राइवेट लिमिटेड	U01400MH2006PTC161408	G41322991
391	श्री साईबाबा फार्म प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U15500MH2016PTC271901	G41377599
392	ए.एस.यु फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	U51220MH2010PTC203987	G41315334

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
393	फ्रीनिक्स इनरटेक प्राइवेट लिमिटेड	U74990MH2010PTC210419	G41203191
394	मिनरल्स माइनिंग एंड लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U14200MH2008PTC184924	G41190067
395	काप्रि वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2010PTC210026	G41236829
396	रवग ट्रेडिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U67190MH2005PTC153360	G41204702
397	आनंद वास्तु सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2010PTC205246	G41254194
398	श्री जय आंबे ऑटोमोबाइल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2010PTC210912	G41164419
399	बुज्जमी टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2011PTC221124	G41272329
400	ज दमेलो वेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2014PTC258512	G41264383
401	विराज मेगमोवेर्स प्राइवेट लिमिटेड	U63090MH2013PTC249735	G41088196
402	ग्रीन स्टोन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U52399MH2012PTC230227	G41123506
403	डायमंड प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड	U36912MH2008PTC180632	G41075086
404	लक्ज़री एचटस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2009PTC192267	G41146440
405	ब्रेन मार्क डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2011PTC217988	G41096108
406	सबा कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74990MH2011PTC211922	G41097031
407	अह्न डेस्टिनेशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U93090MH2012PTC233461	G41125188
408	ब्राइट बुड्स प्राइवेट लिमिटेड	U51431MH2008PTC180249	G41152844
409	वीनस एंटेस ऑटोमेशंस प्राइवेट लिमिटेड	U28931MH2013PTC244502	G41116609
410	क्रिस्टलीमे फैब्रिक केयर प्राइवेट लिमिटेड	U93030MH2012PTC236626	G41133331
411	सांकलप इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U51101MH2012PTC229362	G41082009
412	हिल क्रेस्ट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70200MH2014PTC256655	G41099557
413	सेश्रद्धा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	U29253MH2010PTC203236	G41100066
414	सोलस्कप पिक्चरेस प्राइवेट लिमिटेड	U22190MH2011PTC224735	G41114687
415	मिडवेस्ट ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1997PTC111205	G41092495
416	पैरामाउंट डायमंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U36912MH2008PTC180758	G41075441
417	नव विशंस बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड	U72100MH2000PTC129231	G41159906
418	बिंग गाए एक्सप्रेस कनेक्शंस लिमिटेड	U63040MH1995PLC092207	G41136359
419	एप्सम कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC234715	G41083486
420	डायमेशन 4 वेब सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U72200MH2007PTC175045	G41110537
421	लीला इनोवेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2013PTC241675	G41056763
422	लीला कोंस्टाटेस प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2010PTC204600	G41056722
423	आर्टिसन देसिरद सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2009PTC193442	G41061300
424	लीला रॉक प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2010PTC204606	G41056821
425	लीला टेक्नो पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2013PTC241831	G41057084
426	मेगा टेक ेनेरकन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2010PTC202660	G41054560

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
427	मिक्रोसिडे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2013PTC250207	G41058033
428	विनियोग अग्रोफूड प्राइवेट लिमिटेड	U01403MH2010PTC207291	G41026634
429	सी गेट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2015PTC268134	G41018581
430	फोर्टिटु सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2016PTC274098	G40991416
431	विनियोग इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400MH2010PTC206278	G41027970
432	क्वालिटी इन्फार्मेटिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2005PTC156024	G41024605
433	वडिआ ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U74300MH1991PTC061238	G40987422
434	गुरुकुल एक्टिंग अकादमी प्राइवेट लिमिटेड	U92140MH2009PTC192757	G41034851
435	वस्तराम एक्सिम एंड कम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH2004PTC150278	G41016650
436	अबले मेरीटाइम प्राइवेट लिमिटेड	U63032MH2005PTC151903	G40998346
437	विनियोग फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड	U36109MH2013PTC239440	G41027269
438	यूनाइटेड इंडस्ट्रियल फास्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड	U28991MH1971PTC015494	G40993990
439	भौम इंफ्रास्ट्रक्चर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2014OPC257425	G41048406
440	कनाडे कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	U45202MH2011PTC214596	G41039066
441	नानावटी ब्लो -मोल्डेड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U28992MH1971PTC015104	G40960619
442	जिओ इंस्टिट्यूट ऑफ लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U80904MH2013PTC243054	G40898322
443	एक्प्लोस ब्रिकेट्स प्राइवेट लिमिटेड	U37100MH2013PTC250948	G40893109
444	रुद्रष्ट सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2011PTC222537	G40951287
445	एअरस्पा टूल्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	U29100MH2011PTC225008	G40960049
446	के एफ एक्सप्रेस व्यू लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2011PTC220183	G40927543
447	ग्लैम कास्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड	U24246MH1991PTC063098	G40927972
448	आर्कट्रेन्डस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	U31900MH2004PTC149351	G40955833
449	रुद्रष्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2011PTC222423	G40966228
450	मार्क डीलर्स लिमिटेड	U51109MH2008PLC180221	G40823460
451	डरो कप प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2013PTC246836	G40787145
452	डरो पाली प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2013PTC246832	G40786576
453	ही -टेक इन्शुरन्स एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड	U66010MH2011PTC217656	G40779175
454	गायत्री मंत्र मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	U92412MH2011PTC224099	G40881609
455	एसेट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	U15400MH2010PTC207430	G40805186
456	नेवरा आईटी इन्वोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड	U72300MH2013PTC249973	G40877128
457	किसान भर्ती एग्री मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड	U01407MH2008PLC185673	G40861940
458	मरमेड रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड	U45201MH2007PTC169167	G40821506
459	स्प्रिंगबोर्ड एडव्हायज़र्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2011PTC222473	G40791535
460	कॉन्स्टेलशन मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U63090MH2013PTC244965	G40887077

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
461	एमजीएम रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड	U51100MH2006PTC160447	G40854010
462	लीओन सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U52100MH2007PTC171901	G40806515
463	क्रिकइंफो डाटा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2001PTC131322	G40782344
464	ओलेओचेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U24119MH2001PTC131724	G40847477
465	ट्रैडेमच कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH2006PTC165354	G40781098
466	संपूर्ण बम्बू एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U01403MH2012PTC233684	G40835415
467	पिजिएल ट्रेवल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	U63000MH2014FTC252579	G40806176
468	ट्रस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U65923MH2011PTC213979	G40793622
469	नाज़ आयरन प्राइवेट लिमिटेड	U27100MH2009PTC197334	G40843476
470	फितरुए टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	U65999MH2011PTC212278	G40782112
471	नवेद होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1985PTC038063	G40858425
472	नेस्टजेन फास्टफूड एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड	U15400MH2009PTC191148	G40794901
473	मृगया वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2009PTC197103	G40800294
474	ट्रवीरा कैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U17120MH1998PTC114838	G40872061
475	आइरे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2011PTC221865	G40795171
476	नोअसार्क टेक्नोलॉजी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2010PTC206604	G40797755
477	राघव बिल्डमत प्राइवेट लिमिटेड	U45203MH2008PTC178136	G40796435
478	१देसै ट्रेंडिडस प्राइवेट लिमिटेड	U26960MH2013PTC245529	G40855959
479	खदमत इंटीग्रेटेड सोल्यूशन्स मुंबई प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2016PTC271608	G40736100
480	खदमत इंटीग्रेटेड सोल्यूशन्स हैदराबाद प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2016PTC271816	G40721888
481	अम्बीपुअर इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	U41000MH2011PTC219718	G40737827
482	फीटो फार्मा एक्टिवेस प्राइवेट लिमिटेड	U24100MH2013PTC244312	G40740854
483	अरै मार्केट प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2015PTC266838	G40728834
484	लोटस कार्गो ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	U60200MH2013PTC241946	G40741068
485	देवांश फिनवेस्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2011PTC217481	G40732430
486	कुलस्वामिनी हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	U01100MH2005PTC154870	G40744674
487	स्टडीज़ों कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U93090MH2009PTC193416	G40731630
488	रक्सन लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2016PTC271893	G40728156
489	खदमत इंटीग्रेटेड सोल्यूशन्स कोच्ची प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2016PTC271815	G40729303
490	कोठरी गेम्स प्राइवेट लिमिटेड	U52393MH1999PTC121627	G40745754
491	ओमेगा कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74210MH2005PTC154920	G40757312
492	इन्ज़ मीडिया जनरेशन नेक्स्ट प्राइवेट लिमिटेड	U22130MH2011PTC220293	G40746992
493	नोर्रिस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1993PTC070612	G40731788
494	ट्रिओस शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2011PTC223806	G40743213

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
495	ग्रीनरीज प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	U45400MH2008PTC181842	G40759599
496	खोलते कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH2006PTC161120	G40742728
497	सिंक्रोटेच सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH1988PTC045945	G40733354
498	अपराजिता आईटी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2008PTC180724	G40759359
499	लिडवेल बुल्क मोवेर्स प्राइवेट लिमिटेड	U29299MH1993PTC074057	G40733131
500	सनरेज कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड	U25200MH2009PTC197133	G40734774
501	बिग स्माइल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	U15122MH2010PTC206827	G40772709
502	डायनावाल कन्वेयिंग एंड एलेवेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U29100MH1984PTC033318	G40732133
503	फुट लूझ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U19200MH2008PTC181708	G40765786
504	रे-शम कम्पेटेन्सी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U93030MH2013PTC241925	G53077970
505	कॉन्फायन्स इन्शुरन्स ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2015PTC268601	G48381875
506	टी एंड वाय कार रेंटल प्राइवेट लिमिटेड	U63090MH2014PTC257756	G56625254
507	क्रोम इन्फार्मेशन मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2015PTC262315	G53143871
508	बिरला ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2016PTC289104	G56649791
509	सिटिलाइट ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1991PTC064241	G53169165
510	पूलड फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U52190MH1998PTC115674	G42984328
511	सिवइन होराइजन प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2011PTC218369	G46900775
512	व्योमन आयल एंड गैस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2011PTC212524	G53177176
513	नोवोस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	U01403MH2013PTC247853	G47869623
514	क्लानेर्गी कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U64200MH2009PTC197138	G56675390
515	जंबो ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	U60232MH2009PTC198068	G56238025
516	क्लानेर्गी इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2009PTC193533	G56675986
517	क्लानेर्गी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	U74990MH2009PTC194645	G56676380
518	केप काप्री इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U22219MH1988PTC047546	G53206207
519	फार्माको फ्रेश फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	U15122MH2012PTC235633	G53234654
520	युनिरोव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2013FTC248571	G43025618
521	टिएक्सए मार्केटिंग सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U93000MH2013PTC241598	G46932323
522	इन्फोर्मेट्रीक्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2013PTC240700	G46940037
523	बोयनकी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2016PTC274612	G53265765
524	ओलम्पस कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड	U51100MH2005PTC155363	G56011612
525	राइडर्स बग मोटरस्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U50102MH2013PTC251007	G46947040
526	अनिक डेअरी प्राइवेट लिमिटेड	U15411MH2014PTC260100	G56759616
527	एसबी ग्रीन फ्यूल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U24100MH2011PTC218208	G53164745

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
528	एडी एशिया एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2014PTC258600	G46930384
529	क्लाउड हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड	U45202MH1991PLC059707	G52862349
530	चिली मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2014PTC258647	G46930921
531	निकभि गोल्ड ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड	U36912MH2013PTC240031	G52715083
532	विशिंग-वेल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2011PTC218130	G46709101
533	स्केल्स कैपिटल एडव्हाइसर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH2010PTC207040	G53313060
534	एसबी ग्रीन एनर्जी एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	U40300MH2012PTC236889	G52643798
535	निकेश आउटलुक प्राइवेट लिमिटेड	U70101MH2012PTC234858	G53319935
536	लोविशका गोल्ड ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड	U36911MH2011PTC217358	G53320628
537	विलियम मिल्स एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2011FTC220685	G56799208
538	इनफिनिट ग्लोबल सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74140MH2012PTC238090	G46966529
539	सत-संस्कार रॉटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70101MH2011PTC218875	G46927315
540	ज्योति कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1994PTC076705	G40761470
541	प्रथम बायो-मास प्राइवेट लिमिटेड	U74990MH2009PTC189864	G46981023
542	स्पीका डिझाइनज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U18109MH2005PTC158333	G40768269
543	बॉक्स एंड बर्क्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U72300MH2016PTC272495	G43187244
544	तिलक हायरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U60230MH1980PTC022827	G46988788
545	ओकुज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	U72300MH2012PTC226642	G46990206
546	उद्गम रिसोर्स मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2011PTC220901	G53414793
547	चक्र मर्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड	U93030MH2011PTC223440	G46996922
548	पुण्य एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड	U93030MH2011PTC223781	G46998571
549	रोहित झाम्ब रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड	U45201MH2013PTC243051	G56886054
550	एन्गागीओन सॉफ्टवेक प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2011PTC213043	G43234574
551	कवि माल्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2003PTC140055	G47007075
552	दीपक दोषी इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1981PTC024933	G47010079
553	एयर ए सोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH1996PTC102980	G43266170
554	आशा ट्रांस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	U24239MH2010PTC202876	G46729950
555	नोवा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड	U45201MH2006PTC165058	G47031786
556	फुरणस्टुडिओ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U52100MH2011PTC214741	G53486726
557	बीबीस इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U45203MH2013PTC250618	G43295922
558	कोटेश्वर बिल्डर्स एंड डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400MH2010PTC206293	G43316835
559	बॉम्बे बोल्टिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	U17120MH1984PTC034798	G56965023
560	ग्रीनलीफे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2015PTC267043	G47044698

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
561	मेदसूत्र हैल्थकारे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	U52190MH2016PTC283998	G53426417
562	बजट ब्यूटी प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2013PTC244769	G48770952
563	पूरणबंसी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	U67120MH1990PTC057325	G47057203
564	सिनक्रेन मेडिकल कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2011PTC215750	G46573366
565	प्रेस्टीज राइटिंग इंस्ट्रुमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U36991MH1999PTC122339	G47064381
566	नीले ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2012PTC232864	G53543906
567	प्रियंक टूकॉम प्राइवेट लिमिटेड	U51909MH2012PTC233478	G53544037
568	आयपीएम सेफ्टी सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2014FTC251624	G53546552
569	प्रेस्टीज राइटिंग टिप्स प्राइवेट लिमिटेड	U36991MH1996PTC103971	G47068481
570	यु एस हॉर्टिकल्चर एंड एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U01407MH2009PTC189578	G47077490
571	आयन पॉवरकॉम प्राइवेट लिमिटेड	U72300MH2012PTC229373	G46356150
572	तत्त्व बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड	U24233MH2015PTC271307	G46622064
573	सरतो बीस्पोके टेलरिंग प्राइवेट लिमिटेड	U18204MH2012PTC233843	G48775613
574	कलरकॉम गारमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U18101MH2005PTC157307	G48732341
575	ग्लोबस हैल्थकेअर लिमिटेड	U24239MH2006PLC162743	G53601738
576	उदुम्बरा माइनिंग ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड	U14290MH2014PTC252225	G56869498
577	श्री बालाजी जिनकालॉयस प्राइवेट लिमिटेड	U51420MH2005PTC152448	G48439798
578	प्ले आयटी इंटरैक्टिव ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2015PTC261393	G47099627
579	इंडियन फ्लूइड सीलिंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U14295MH2008PTC178130	G48441935
580	हाविक लीजिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U65920MH1996PTC096516	G48446033
581	पॉकेट ऐसेस एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2014PTC254312	G56964950
582	स्टील मोट इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	U45201MH2014PTC255157	G57101719
583	योग क्षेम कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड	U51101MH2013PTC240216	G53656674
584	सेब्रेस स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	U28112MH2013PTC242434	G57118317
585	एनआरडब्लु सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2015PTC261889	G53669206
586	युएस पावर प्राइवेट लिमिटेड	U40103MH2009PTC189364	G47125927
587	अष्टविनायक रिअल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70200MH2007PTC167285	G46692265
588	सैन्सुई रोसलिन एरोमा कास्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड	U24297MH2013PTC246915	G53231932
589	डॉक्टर्स होस्पिटलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड	U55101MH2009PTC193786	G48456313
590	ज़ेरोन कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2010PTC203875	G41373259
591	माया ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U51398MH2008PTC181618	G53711131
592	औरोरा कंस प्राइवेट लिमिटेड	U74300MH2008PTC189257	G53714218
593	खतीब इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2014PTC259007	G48420079

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
594	तुलसिआन कृषि लिमिटेड	U01110MH1996PLC101734	G43559525
595	प्रो-वेल्ड ट्रेनिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2015PTC260892	G53715173
596	सि बी रिन्यूएबल एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड	U40100MH2004PTC149107	G47151675
597	श्री दत्ता रिन्यूएबल एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड	U40100MH2005PTC158213	G47151980
598	श्री सप्तश्रुंगा पावर प्राइवेट लिमिटेड	U40100MH2005PTC154654	G47152517
599	रितुस बायोटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	U24233MH2014PTC253526	G48796577
600	अरिस्टोन सोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2008PTC179296	G47177084
601	यांग नार्थ कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2011PTC220045	G47178462
602	लीक प्रूफ इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U65990MH1993PTC071417	G47180336
603	गोल्डन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24239MH2010PTC201318	G48469860
604	सफल कंस्ट्रक्शन एंड डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400MH2014PTC258072	G41513391
605	सेफ हैंड्स इलेक्ट्रोड्स प्राइवेट लिमिटेड	U29253MH2013PTC240424	G41517715
606	स्वान इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड	U72900MH2000PLC125149	G53311841
607	झेनटेक टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74210MH1998PTC117446	G53800553
608	सुरेश छबरिआ इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U63090MH1997PTC111423	G53799219
609	अग्रवाल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड	U74200MH2010PTC209568	G47209903
610	झिरोमाइल लोजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45209MH2008PTC188100	G47211826
611	मेंटरस्टोन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2015PTC264421	G53762027
612	रेड ओक मॉल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2014PTC257774	G47197686
613	लोटस लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	U25209MH1994PTC081786	G46902375
614	सन्मुख हैल्थकेअर प्राइवेट लिमिटेड	U93000MH2012PTC228705	G48493415
615	फाउंटेन कैफेस प्राइवेट लिमिटेड	U55209MH2014PTC255116	G48498471
616	इंडिया इनफोआइडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2016PTC273018	G46766127
617	युएस स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U92412MH2009PTC189869	G47126487
618	केजन कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड	U29242MH2014PTC257096	G57290421
619	दिष्टि इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U24110MH2008PTC181282	G47245451
620	वालडेन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24239MH2008PTC181362	G47247028
621	स्मार्टगिज़मो ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड	U22300MH2006PTC163127	G47250287
622	समुदाय इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2011PTC215413	G48513303
623	मेट्रो ऑरेंज बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45209MH2013PTC249369	G53392601
624	स्टार मल्टीटिपस प्राइवेट लिमिटेड	U24110MH1996PTC104719	G47260690
625	वि-ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U72300MH2011PTC223354	G46802088
626	मनमोहक एडिफिक प्राइवेट लिमिटेड	U45400MH2013PTC239218	G47267091

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
627	गोविन्द हिल्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U52599MH2007PTC168349	G53910030
628	डिओडोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2014PTC252503	G47153747
629	सुप्रीमो एक्सीमट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	U51109MH2010PTC208420	G43668631
630	करंदीकर टुइशनस प्राइवेट लिमिटेड	U80220MH1995PTC085002	G41815911
631	रेनबो इरीगेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC236711	G47291620
632	डिजिटल स्कूल ऑफ़ इ-लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2013PTC242161	G43693035
633	कोन्सीनिटी साइबर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U72900MH2008PTC188142	G41851932
634	जीवन ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड	U40101MH2009PTC195185	G48537997
635	बॉम्बे वेयरहाउसिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH1974PTC017569	G48540397
636	तिरुपति फिल्म एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	U92100MH1974PTC017685	G41878364
637	माइलेज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2013PTC250844	G53953840
638	रेसुरगिअक इंडस्ट्रीज लिमिटेड	U36100MH2011PLC214549	G41916172
639	रेसुरगिअर फेर्रो अलॉयज लिमिटेड	U27310MH2011PLC214191	G41919846
640	क्लैरिटस रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2014PTC253929	G47319074
641	नायरसन्स मेडिकल सर्विसेज लिमिटेड	U85110MH1994PLC081529	G47327044
642	क्रोसस्वे रिअल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45202MH2008PTC186220	G43738483
643	कंप्यूटर बेस्ड सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U30009MH1996PTC096514	G41954744
644	बिस्क्राफ्ट प्रोफेशनल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2014PTC260003	G41958372
645	रोअर हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड	U55101MH2015PTC262830	G53915781
646	एल ऑलीव्हर एचआर सोलुशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2014PTC259239	G57511016
647	वास्तुविजन रिअलटोर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2008PTC187847	G41984840
648	मान्य फाईन्सर्व प्राइवेट लिमिटेड	U67190MH2010PTC198874	G48559595
649	आरका अंग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2016PTC273306	G47291554
650	बी 2 बी ब्राइट अण्ड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U63090MH2009PTC192346	G43761980
651	ब्ल्यू डॉल्फीन कारवॉष प्राइवेट लिमिटेड	U50200MH2014PTC254230	G42012526
652	स्तवन एक्झीम प्राइवेट लिमिटेड	U51390MH2008PTC181254	G42018358
653	सलेम मंगनेसाईट प्राइवेट लिमिटेड	U13100MH1940PTC003201	G42028233
654	सफ़राईज कन्सलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U93030MH2012PTC234135	G42037424
655	एक्स्टान एनर्जी अण्ड माईन्स प्राइवेट लिमिटेड	U29268MH2011PTC214011	G41378514
656	सेल सिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2006PTC159124	G42045468
657	ऑगस्ट्राट बिज़नेस कन्सलटींग प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2015PTC261591	G53730156
658	रैनबैक्सी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	U45201MH2007PTC170517	G41831140
659	वर्तली इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200MH2009PTC195853	G41831363

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
660	स्क्रीबया मेडिया प्राईवेट लिमिटेड	U22122MH2012PTC234460	G42058727
661	व्हच्यफ्रसो सॉफ्टवेयर टेक्नॉलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2015PTC267566	G41995051
662	सिआरयु फ्रो सॅन्ड मॅन्युफॅक्चरर्स प्राईवेट लिमिटेड	U26990MH2017PTC295423	G57428575
663	एनव्हीजे इन्व्हेस्टमेंट सर्व्हीसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74140MH2010PTC204888	G47364526
664	प्रिंटइसल मिडीया वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	U22222MH2013PTC246431	G53388237
665	क्रिस कॉन इंजिनिअर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45200MH1998PTC112991	G43333988
666	युनो सोर्स इंजिनिअरिंग सोलशन प्राईवेट लिमिटेड	U45200MH2002PTC137236	G57608713
667	लंबकर्ण डेव्हलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	U70100MH2012PTC237054	G42126847
668	सिध्दीदाता प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	U70102MH2012PTC233328	G42130732
669	उमापुत्र प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	U70102MH2012PTC231326	G42131581
670	मयुराज फुडस् प्राईवेट लिमिटेड	U05004MH2012PTC238045	G42121038
671	सनबॉर्न टेक्नॉलॉजी रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड	U99999MH1997PTC110748	G47154984
672	इमर्जिंग मार्केट्स कॅपिटल अंडव्हायझर प्राईवेट लिमिटेड	U65923MH2012PTC229653	G42133686
673	स्कायलैब थ्रेडींग प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2015PTC270160	G54117627
674	व्हल्व्युअर कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	U45201MH2013PTC246080	G42148981
675	ड्रिमकॅचर मुव्हीज प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2009PTC198140	G47382783
676	जिपीसिडी रियाल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45400MH2007PTC175002	G42155200
677	इन्टीग्रेटेड नॉलेज अॅण्ड इन्फरमेशन मॅनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड	U74100MH2005PTC154917	G48578140
678	वेमोत टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड	U72900MH2008PLC177996	G42164087
679	थॉट व्हेन्चर्स कन्सलटन्स अॅण्ड बिज़नेस सोलशन प्राईवेट लि	U74120MH2014PTC253018	G42089284
680	जेबी प्रॉपकोन प्राईवेट लिमिटेड	U45200MH2011PTC218635	G42183434
681	सेन्सो फ्रॅग्रन्सेस प्राईवेट लिमिटेड	U24244MH2009PTC189737	G47391073
682	नालंदा पॅकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड	U74950MH1995PTC087039	G47398466
683	वन-नार्इन बिज़व्हेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड	U64204MH2015PTC262326	G47404942
684	आयडीयालॉजीक सर्व्हीसेस प्राईवेट लिमिटेड	U72300MH2011PTC216569	G42244798
685	युनिट्रॉप फर्मस प्राईवेट लिमिटेड	U01120MH2017PTC289630	G54182837
686	इन्टलेस्को सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2013PTC245952	G54190905
687	लमार मार्केटींग अॅण्ड सर्व्हीसेस प्राईवेट लिमिटेड	U52100MH2012PTC227104	G47416151
688	लेग अप एज्युकेशन सोलशन प्राईवेट लिमिटेड	U80904MH2016PTC273683	G54191234
689	महेश्वरी सोषल सर्व्हीसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2014PTC255759	G47419742
690	सलेनोविद फार्मासिटीकल्स प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2012PTC236958	G42298836
691	भलाष 360 डिग्री वल्डएज्युव्हिजन प्राईवेट लिमिटेड	U80903MH2015PTC269789	G41923038
692	टेक्नेट्रॉनिक अॅटोमेशन प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2013PTC245269	G42235861

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
693	डीएसटी डेव्हलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45200MH2007PTC176662	G54212816
694	मेडीटर्स लिआयसन्स अँड कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	U45201MH2009PTC192167	G42321745
695	तायको पॉलीटेक प्राईवेट लिमिटेड	U25209MH2016PTC274491	G47431598
696	स्वीच नेटवर्कस वेब होस्टिंग प्राईवेट लिमिटेड	U72300MH2011PTC213176	G48537237
697	वाईन्डवेल सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड	U67120MH1995PTC084608	G54230685
698	गोल्डनलाईफ कन्जुमर अँड हेल्थकेअर प्रॉडक्ट्स प्राईवेट लि	U36102MH2010PTC207417	G47437355
699	मॉव टक्नॉलॉजीज अँड सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U72300MH2013PTC240407	G53616124
700	जॉनीलिवर इनवायवो मेडीया अँड इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड	U92142MH2008PTC180321	G47216346
701	मिरालक्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2012PTC234914	G42403543
702	वेव्हज म्युझिकल्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	U32303MH2000PTC129072	G41929076
703	प्रो9 इन्फॉसर्वीसेस प्राईवेट लिमिटेड	U72900MH2015PTC266115	G54256524
704	लॉफ आउट लाउड गेम्स प्राईवेट लिमिटेड	U92400MH2012PTC226590	G54171947
705	ओशियन मिडीयाफिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2014PTC254789	G54261862
706	लवरस सिस्टीम्स अँड सर्वीसेस (आषिया) प्राईवेट लिमिटेड	U72300MH2012PTC237439	G43832591
707	ट्रेन्ड लॅण्ड डेव्हलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	U99999MH1995PTC084879	G47461694
708	नमप्रे इलेक्ट्रॉनिक्स अँड सेक्युरिटी सोलशन प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2011PTC221026	G57867269
709	लिलॅक रियालिटी प्राईवेट लिमिटेड	U45200MH2008PTC182620	G43975721
710	विदर्भ काम्प्युटर डिलर्स लिमिटेड	U72300MH2010PLC202962	G41984105
711	वेनेरे लियल्ली प्राईवेट लिमिटेड	U45200MH2008PTC185025	G57900821
712	जयहिन्द अँग्रो ऑईल्स प्राईवेट लिमिटेड	U15142MH1993PTC074305	G48626642
713	अॅडवॉन्सड रिज़निंग टेक्नॉलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U74140MH1999PTC118410	G47482047
714	एलेव्हन स्टार्स इस्टेट व्हेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड	U70200MH2015PTC261204	G54257746
715	दिया मर्कन्टाईल प्राईवेट लिमिटेड	U51109MH2009PTC193875	G44008696
716	स्टील अँड टयुब एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	U27106MH1982PLC027084	G54336656
717	अॅसेटस् बील्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड	U45200MH2014PTC256105	G57971418
718	व्याप योगा प्राईवेट लिमिटेड	U92412MH2013PTC245416	G47501085
719	एम.एस.स्टील्स सिओनी प्राईवेट लिमिटेड	U27310MH2012PTC237103	G47502083
720	विषय इनव्हेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड	U67120MH1995PTC087803	G54370135
721	बुध्दाया लाईफस्टाईल प्राईवेट लिमिटेड	U51909MH2004PTC145793	G47504139
722	ब्लीस फुडप्लाज़ा प्राईवेट लिमिटेड	U55101MH2013PTC244621	G54371166
723	कॅसिनो डिज़ाइन कंपनी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	U92200MH2008PTC182507	G48644223
724	इन्डोजर्मन कम्पेटन्स अॅकॅडमी प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2015PTC269215	G44041598
725	ऑक्युलस हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड	U85110MH2007PTC170613	G47391230

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
726	नॉस्ट्रम केमिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	U24233MH2011PTC215161	G44046910
727	टीम मैनेजमेंट लिगल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U93030MH2011PTC221143	G47391719
728	राव्य इंटीमेटवेयर प्राइवेट लिमिटेड	U18109MH2003PTC143027	G58043522
729	उन्नती इन्फोकॉन प्राइवेट लिमिटेड	U45202MH2008PTC183923	G58044876
730	इन्नोव्हेटीव्ह ड्रिम्स मल्टीसर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U52100MH2009PTC196391	G48651343
731	एलियस कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	U93030MH2013PTC244764	G47523428
732	दि रेडवान्ड एन्टरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2015PTC269076	G44061380
733	पॅसिफीका हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड	U55100MH2004PTC149279	G47528153
734	कन्सल्टन्सी सर्विसेस टू स्टॉप ब्राइडस अँड प्रेव्हेन्ट करप्शन लि.	U74110MH2010PLC203329	G44068237
735	क्रिष्णा पॉपकॉन प्राइवेट लिमिटेड	U74930MH2011PTC219807	G44068641
736	प्रसम एन्टरप्रायजेस प्राइवेट लिमिटेड	U72400MH1999PTC121806	G58131962
737	डिक्सवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2016PTC288453	G41949249
738	अक्सिस सर्विसेस रिसिडेन्सेस प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2014PTC251771	G54042825
739	महानिगम गॅस फलेम सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2015PTC260998	G47454327
740	क्रेडेयर अँडव्हायझरी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2015PTC261612	G58201724
741	वारी कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड	U51109MH2010PTC203667	G47549076
742	आरीस्टा एन्टरप्रायजेस प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2010PTC200045	G42707034
743	सामनी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	U72501MH2013PTC250439	G54334230
744	हस्तीमल मानिकचंद रियल प्राइवेट लिमिटेड	U52100MH2015PTC270481	G54432018
745	पिनट बटर जेली ऑनलाईन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2015PTC266896	G47551981
746	ग्लोबल वर्कस्टेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2012PTC231478	G47552526
747	टेक्सेट्रा ऑनलाईन सोलुशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2015PTC267300	G47553060
748	सुपरमैक्स ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1991PTC064243	G48665046
749	अक्वीला कन्स्ट्रक्शनस प्राइवेट लिमिटेड	U45201MH2006PTC163461	G44104727
750	अल्टीमा रिअलटल्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2006PTC161603	G44104230
751	परिक्रमा डेव्हलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70101MH2006PTC161618	G44105062
752	नॅपल्स कन्स्ट्रक्शनस प्राइवेट लिमिटेड	U45201MH2006PTC163462	G44105682
753	इक्झोरा कन्स्ट्रक्शनस प्राइवेट लिमिटेड	U45201MH2006PTC163270	G44105831
754	सानवी पिक्चर्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड	U93000MH2014OPC258122	G47546940
755	गोट्रीप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U63000MH2009PTC197297	G44024578
756	स्पेल सॉफ्टवेयर इथीक्स अँड टेक्नोलॉजी (इं) प्राइवेट लिमिटेड	U72909MH2014PTC252121	G58325556
757	मानस नेचर क्युअर प्राइवेट लिमिटेड	U93090MH2009PTC193451	G58328022
758	फोर मार्कम स्ट्रैटेजिज प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2008PTC187602	G54333042

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
759	रुद्राज रियल्टी प्राईवेट लिमिटेड	U70102MH2008PTC177730	G42919688
760	वूडस्टॉक फार्मस प्राईवेट लिमिटेड	U01100MH2005PTC156290	G54444781
761	वायोना रियलटर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45201MH2006PTC163463	G44117976
762	आझरा स्टील प्राईवेट लिमिटेड	U27100MH2008PTC185900	G42923508
763	उरान फार्मस प्राईवेट लिमिटेड	U01100MH2005PTC156070	G54443619
764	अम्बीषन स्टॉक ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	U74992MH2006PTC163392	G42942532
765	हेल्थॉलिक हॉस्पिटल्स प्राईवेट लिमिटेड	U85194MH2011PTC218143	G54449756
766	तालेसरा टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड	U17100MH1989PTC051687	G47578927
767	जयभवानी रियलटर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45200MH2004PTC147491	G47584016
768	अरुज एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U51900MH1990PTC059457	G58422783
769	इन्डलजन्स फुड प्राईवेट लिमिटेड	U15400MH2007PTC171642	G47591441
770	स्पर्ष फिल्मस (ओपीसी) प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2016OPC281429	G58435686
771	अपेक्स एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2011PTC221840	G47599477
772	वनराजा रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U55204MH2014PTC258795	G47598024
773	अडव्हान्स एफआरपी बील्डमॅट प्राईवेट लिमिटेड	U93000MH2011PTC214613	G43625946
774	इन्टेग्रा डिजिटल सिस्टीम प्राईवेट लिमिटेड	U72100MH1988PTC048966	G48263263
775	मेड टुर्स इंडिया 4 हेल्थ प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2016PTC282116	G47616370
776	केईलिन्क प्लेसमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2012PTC226169	G44213353
777	एलअॅण्डटी ट्रस्टी कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	U74990MH2009PTC193936	G54464425
778	एम आर पारीख अॅण्ड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	U24130MH1945PTC004646	G47618012
779	फिलवेल गारमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	U18101MH2003PTC141686	G47618814
780	नवीमुंबई याच क्लब प्राईवेट लिमिटेड	U74990MH2008PTC188532	G47620067
781	ग्रिफीन इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	U45203MH2008PTC184166	G47621149
782	इडीस फार्मा प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC238369	G58478744
783	ओझी वेब टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U72300MH2015PTC260735	G48698823
784	अरिहंत बुक इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	U36991MH2003PTC048406	G48694632
785	क्रिष्णा कोल्ड चैन अॅण्ड लॉजिस्टिक प्राईवेट लिमिटेड	U99999MH1987PTC044750	G44260636
786	स्कोप सेक्युरिटीज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U67120MH1992PTC066115	G44258036
787	प्रारंभ सहजिवनाचा मॅट्रीमोनियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2013PTC241254	G44274496
788	वेलर मर्क्यन्टाईल प्राईवेट लिमिटेड	U51909MH2010PTC209235	G48713721
789	टेक्नोपॉन्स प्राईवेट लिमिटेड	U80301MH2010PTC207604	G47646773
790	पॅक्ट पब्लिशिंग सर्विसेस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	U22300MH2016PTC282731	G44290427
791	थिंक ग्रिन प्रॉडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U26960MH2013PTC245926	G48714745

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
792	बेलुर फार्मस प्राईवेट लिमिटेड	U01403MH2013PTC249936	G47591706
793	युनियन अंडव्हायझरी सर्व्हीसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2013PTC250891	G44300168
794	क्वाडरन्ट आउटसोर्सिंग सोलशन प्राईवेट लिमिटेड	U72900MH2007PTC175648	G44301364
795	एसएस मराईन ऑफ़शोर सर्व्हीसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2014PTC256991	G48716898
796	मोहनिश मर्कान्टाईल प्राईवेट लिमिटेड	U51109MH2012PTC228405	G48719793
797	ट्रयुसेप इंजिनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	U99999MH1992PTC068304	G44324689
798	निर्मित षिट रि-रोलर्स प्राईवेट लिमिटेड	U27200MH1987PTC066865	G48714950
799	निलय रियल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	U70102MH2011PTC220437	G48722706
800	शार्दूल प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	U51101MH2011PTC220392	G48723506
801	इन्फोटेक कम्युनिकेशन एन्टरटेनमेंट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	U92100MH1988PTC047355	G47242102
802	ट्रिलॉजीस्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U61200MH2007PTC173558	G48737191
803	युनि ट्रीटेक (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	U29253MH2013PTC251230	G44387173
804	ब्ल्यू मार्टीनी रिअलटर्स प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2012PTC228414	G47691209
805	जकारी पोर्ट मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड	U63040MH1997PTC110264	G48736185
806	आन्डेन एक्झीम प्राईवेट लिमिटेड	U52100MH2013PTC239707	G47694708
807	ऑटोमार्क ओव्हरसिज प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2015PTC264610	G44406171
808	अंडम्स रियल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	U70102MH2008PTC177248	G47708615
809	झीरे ट्रेडींग प्राईवेट लिमिटेड	U51909MH2013PTC240822	G58621145
810	देवाशिष फॅबटेक्स प्राईवेट लिमिटेड	U17291MH2013PTC240796	G47710108
811	त्रीधारा कॉटस्पीन प्राईवेट लिमिटेड	U17291MH2013PTC240797	G47710041
812	कल्पवृक्ष इनफ्रॉकॉन प्राईवेट लिमिटेड	U45200MH2011PTC216491	G43985647
813	इक्युज सिल्स प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2013PTC251101	G47712674
814	प्रनिक फॅसिलिटीज मैनेजमेंट सर्व्हीसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74140MH2008PTC181896	G48746713
815	अलियान्स लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	U63090MH2000PTC123550	G47711544
816	आदित्रयन एनर्जी इन्डस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड	U51420MH2008PTC179578	G58639113
817	मक्यफ़री नॅचरल रिसोर्सस प्राईवेट लिमिटेड	U52599MH2011PTC221455	G44436707
818	केआरवायएफएस इंजिनिअरिंग प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC231003	G47716865
819	एनबी अण्ड डी व्हेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC226023	G44442143
820	हेल्थवेदा इनोव्हेषन्स प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC235708	G47219803
821	रेड ऑक्टोबर कम्युनिकेषन्स प्राईवेट लिमिटेड	U74300MH2004PTC144123	G44453819
822	गोल्ड लुक प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	U45200MH1988PTC046268	G47721139
823	सप्टश्रृंगी प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	U70109MH2009PTC190134	G46930160
824	मानस कृषि टेक प्राईवेट लिमिटेड	U01403MH2008PTC179571	G58699430

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
825	पिल्लार अल्युमिनियमस अण्ड कॉर्पस लिमिटेड	U27203MH1988PLC049557	G44487262
826	सुपरफाईन मर्कन्टाईल कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	U51909MH2005PTC151561	G44491991
827	वैद ट्रेड लिंग प्राईवेट लिमिटेड	U51909MH2006PTC159691	G54274634
828	आड्रीया ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2015PTC267887	G48908198
829	ग्लोवान्टेज शेअर्ड सर्व्हीसेस प्राईवेट लिमिटेड	U55209MH2008PTC187070	G44537173
830	एस्कॉ ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	U70102MH2015PTC266934	G48908768
831	इंटेलेचिप इट सोलशन प्राईवेट लिमिटेड	U74140MH2015PTC268828	G48908917
832	रिव्हरबैंक ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2015PTC267921	G48909295
833	स्पीदुप कन्सलटन्सी प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2013PTC241276	G48909592
834	प्रिकर्व आयटी प्राईवेट लिमिटेड	U72900MH2012PTC228444	G58620931
835	टर्बोग्रिन ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2015PTC267906	G48911150
836	आनंद कमसर्व प्राईवेट लिमिटेड	U51101MH2013PTC245781	G58828567
837	फिनबीज कन्सलटन्स प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2010PTC203247	G47560685
838	व्याक्लुड टेक्नॉलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2015PTC268892	G48910459
839	हार्क प्रॉडक्टस प्राईवेट लिमिटेड (ओपीसी)	U74120MH2015OPC271099	G47780754
840	टेकॉप्स फायबर्स प्राईवेट लिमिटेड	U25203MH2013PTC247211	G48915912
841	टेकॉप्स इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड	U45400MH2011PTC221188	G48917595
842	नॉवेल्टी फर्निसिंगज प्राईवेट लिमिटेड	U74990MH2009PTC191488	G47790126
843	टेकॉप्स इन्फ्रावेन्चर प्राईवेट लिमिटेड	U70102MH2014PTC253644	G48918908
844	रंजीत बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45200MH1989PTC053579	G44593879
845	नॉवेल्टी लाईनेन प्राईवेट लिमिटेड	U74990MH2009PTC191490	G47789326
846	रुषिराज कार्गो करिअर्स प्राईवेट लिमिटेड	U63000MH2015PTC266054	G47789748
847	साईकल्पना कार्पोरेट अंडव्हायझर्स प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2015PTC263253	G54547989
848	पुनावाला कन्सलटन्टस प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC227136	G47783162
849	कॉज मिडीया प्राईवेट लिमिटेड	U22210MH2014PTC257422	G54552179
850	यु एस बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड	U74990MH2009PTC189357	G47803218
851	आरएस2 क्रिएशन प्राईवेट लिमिटेड	U52393MH2007PTC175595	G47804919
852	सुयष फलो टेक्नॉलॉजी प्राईवेट लिमिटेड	U51101MH2011PTC217463	G47341656
853	रायनेस्टोन चैन क्रिएशन प्राईवेट लिमिटेड	U36911MH2007PTC175596	G47807664
854	ओसिरीज अंडव्हायझरी प्राईवेट लिमिटेड	U74140MH2009PTC197280	G44604411
855	सेफऑईल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U51101MH2012PTC230655	G44650885
856	केएसएम रिस्क मैनेजमेंट सर्व्हीसेस प्राईवेट लिमिटेड	U67200MH2002PTC135175	G44654739
857	अंजनी व्देलर्स प्राईवेट लिमिटेड	U70102MH2011PTC223633	G44652774

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
858	पर्सपेक्टिव टेक्नॉलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U72400MH2013PTC247804	G58948951
859	अस्तर वॉल्यूज प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2011PTC212220	G47821988
860	कोकन भुषण अॅग्रीगेट प्राईवेट लिमिटेड	U01403MH2010PTC198267	G47822895
861	गौरमेट वाईन्डस रिटेल कन्सेप्टस प्राईवेट लिमिटेड	U52100MH2012PTC235553	G44687069
862	फिल्मस अॅण्ड रियल्स प्रॉडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC237704	G47829759
863	झेबा अॅण्ड फरकान डिजायनर्स प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2012PTC231081	G47829775
864	इन्डक्स लाईफकेअर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	U72900MH2014FTC257342	G44714244
865	ग्रॅन्डीअर बिपिओ प्राईवेट लिमिटेड	U72300MH2013PTC243232	G44723724
866	ब्लैककेप डिजीटल स्टूडिओज प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2014PTC259866	G54402540
867	सि इगल शिपिंग अॅण्ड लॉजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	U63090MH2012PTC234732	G54473921
868	कॅपटेन्स अॅडव्हायझर्स प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2013PTC245682	G44733848
869	युएसपी प्लेसमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC236879	G47846175
870	यु एस लॅण्ड डेव्हलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45202MH2009PTC189849	G47853957
871	देवरालीया फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड	U65923MH1993PTC071493	G48949705
872	एक्सीस फॅब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड	U17299MH2006PTC163255	G59067306
873	पॅकमैन लॉजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	U63000MH2010PTC201388	G44752582
874	फोर्ट नॉक्स सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U72200MH2008PTC187642	G44754638
875	दरिना ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	U52100MH2013PTC242861	G44754604
876	डिझर्व ग्रॅन्डीयर प्राईवेट लिमिटेड	U45400MH2015PTC269983	G47500806
877	डिझर्व रेसिडेन्सी प्राईवेट लिमिटेड	U45400MH2015PTC270062	G47501598
878	बिल्डबीज डेव्हलपर प्राईवेट लिमिटेड	U70102MH2014PTC254781	G54586912
879	इकॉन्मीक्स व्हेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2013PTC251039	G54587811
880	निवान अॅग्रिकॉम प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2013PTC250575	G54591946
881	ऑनकॉडक्स लॅब्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U85100MH2010PTC201287	G47881255
882	क्रीक्सन हेल्थकेअर प्राईवेट लिमिटेड	U85100MH2011PTC221166	G47879416
883	रिनोवर टेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U29238MH2014PTC252152	G54077557
884	क्वामिन आउटसोर्सिंग ओपीसी प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2014OPC257638	G47889514
885	जित रेखा प्लास्टीक्स प्राईवेट लिमिटेड	U25200MH1987PTC044760	G47890116
886	रेडिओहेडस अॅडव्हरटायजींग अॅण्ड पब्लिसिटी सोलशन प्रा लि	U74900MH2013PTC240833	G47889928
887	निरंजन ट्रेलर्स प्राईवेट लिमिटेड	U34300MH2016PTC273541	G44811412
888	निर्जला मार्कन्टाईल प्राईवेट लिमिटेड	U51109MH2010PTC205459	G48967533
889	कॅलकुलस्टो प्रोग्रामिंग प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2016PTC273770	G54609714
890	आलीफ प्लास्टीक्स प्राईवेट लिमिटेड	U25209MH1995PTC086441	G48968572

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
891	ऑक्सेन्युज टेक्नॉलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U72900MH2006PTC163412	G47909817
892	मोराज कन्स्ट्रक्शनस प्राईवेट लिमिटेड	U45200MH1994PTC080611	G47916648
893	आनंद गोल्फ प्राईवेट लिमिटेड	U92412MH2013PTC245780	G59249458
894	आनंद हेल्थफर्स्ट प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2013PTC245772	G59250225
895	स्परिट फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2007PTC166775	G47777552
896	सर्ज प्रॉडक्शन फॉसिलिटीज प्राईवेट लिमिटेड	U92100MH2008PTC179444	G47778378
897	अविराम टेक्नोकॉटस प्राईवेट लिमिटेड	U72300MH2013PTC244309	G54370283
898	क्रिषन्स फॉन्स ज्वेलरी प्राईवेट लिमिटेड	U67120MH1996PTC096271	G48990394
899	दि बाथ हॅन्नाओहर प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2013PTC247946	G47954458
900	अटलान्टा मेडिको प्राईवेट लिमिटेड	U24231MH2006PTC161362	G47956305
901	चारिस्मा इन्फ्रा प्रोजेक्टस (इं) प्राईवेट लिमिटेड	U45400MH2009PTC197318	G44946010
902	रेशनल विजन सॉफ्टवेयर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U72900MH2001PTC133005	G44898096
903	फ्यूचरकॉम सोलशन प्राईवेट लिमिटेड	U72300MH2010PTC209724	G44955045
904	टायटीएल अक्वायर स्पीनिंग अण्ड फॉर्वर्डिंग प्राईवेट लिमिटेड	U63000MH2011PTC213257	G44592269
905	प्रज्ञा सेक्युरिटी अण्ड फॉसिलिटी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2015PTC264172	G48999015
906	फिस्कल डेव्लपमेंट कन्सलटन्सी प्राईवेट लिमिटेड	U74140MH2010PTC210565	G44752848
907	क्लीनिलिक्स हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड	U73100MH2011PTC225276	G44966042
908	इन्स डेव्लपर्स प्राईवेट लिमिटेड	U70100MH2010PTC202284	G48999825
909	कॅनमोरे एक्सपोर्टस प्राईवेट लिमिटेड	U51900MH1993PTC075348	G47974548
910	श्री सुमती इक्वीटी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U65910MH1991PTC062969	G47976170
911	एलो मन्की स्टुडिओज प्राईवेट लिमिटेड	U92120MH2007PTC172435	G44985331
912	सेवितवाम सिस्टीम्स अण्ड सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड	U52100MH2013PTC239934	G44986503
913	सिल्वर लाईन रियलकॉन प्राईवेट लिमिटेड	U45400MH2013PTC243951	G54650023
914	व्हाइटवुड कॉन्ट्रैक्ट्स अण्ड डेव्लपर्स प्राईवेट लिमिटेड	U99999MH1996PTC101070	G44883809
915	कॉर्डियल अंडव्हायझरी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2009PTC197925	G44995298
916	ऑस्टेयर अंडव्हायझरी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74140MH2009PTC197231	G44968220
917	रिलायबल रोप मॅन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	U31300MH1985PTC036564	G58488057
918	गोवेल दालमिया इंडिया कमोडीटीज प्राईवेट लिमिटेड	U51909MH2011PTC220334	G44947588
919	मेट्रो टीव्ही प्राईवेट लिमिटेड	U74990MH2010PTC210623	G54688122
920	फलेक्सी स्टैफिंग सोलशन प्राईवेट लिमिटेड	U74910MH2006PTC161303	G49017114
921	श्री गजानन फायनान्स अण्ड इन्व्हेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2012PTC230567	G47995923
922	सोर्सकोड इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U72900MH2001PTC132068	G48004063
923	ठएचडीडी डिज़ाइन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2012FTC238217	G47806724

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
924	ब्लेडिंग शिप मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC238487	G49027774
925	ओमेओ पेपर प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2013PTC250060	G48013957
926	आदिती एसेन्सेस प्राईवेट लिमिटेड	U24235MH2001PTC132102	G45052503
927	उफोरिया व्हेन्चर्स (ओपीएस) प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2016OPC288418	G45064102
928	टेलेमिडीया सिस्टीम्स प्राईवेट लिमिटेड	U31908MH2008PTC181126	G48026207
929	शाष्वती कॅपिटल मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड	U67190MH2014PTC255996	G45071743
930	रियालीटी रेंडर साफ्टवेअर्स प्राईवेट लिमिटेड	U72300MH2012PTC231128	G48026470
931	शुभम एन्टरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2011PTC222810	G49037328
932	जी एच खत्री अॅण्ड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	U45200MH1991PTC064290	G47948872
933	ए3 प्रॉडक्ट्स अॅण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2014PTC251661	G44547214
934	सुर्या इन्फ्रा प्रॉडक्ट्स लिमिटेड	U20296MH2011PLC216319	G45099074
935	वेनस असाईग अॅण्ड मेटल्स ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	U51398MH2004PTC148132	G48041636
936	हेल्वेटइंडिया इम्पोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2013PTC241760	G44673473
937	आवगम कन्सल्टिंग सोलशन प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2010PTC203980	G49044993
938	शातादुर्गा प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	U22219MH1986PTC038976	G45113669
939	फॅटमामा फिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड	U92100MH2010PTC201335	G45122421
940	तुली पॉवर प्राईवेट लिमिटेड	U40103MH2009PTC195531	G45122843
941	त्रीविक्रमा सोलशन प्राईवेट लिमिटेड	U72900MH2007PTC176672	G48051171
942	अर्शा फायनान्सीयल कन्सलटन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U74140MH2008PTC183762	G48053730
943	विद्यासागर ऑनलाईन प्राईवेट लिमिटेड	U72900MH2000PTC126080	G45129806
944	मनन एचआर प्राईवेट लिमिटेड	U93030MH2012PTC227443	G45131471
945	अॅव्हेन्सीज कार्पसर्व्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2012PTC237446	G54727367
946	क्वीकसॉफ्ट टेक्नॉलॉजिज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	U72900MH2002PTC136061	G45168689
947	आर झेड मालपाणी इन्फ्रा डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड	U45202MH2010PTC210196	G45173002
948	मेल.कॉम मिडीया सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U72900MH2008PTC178442	G44979805
949	एजीस ग्लोबल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2016FTC274021	G48079222
950	विस्टा न्यूट्राहेल्थ प्राईवेट लिमिटेड	U85191MH2011PTC215312	G48077309
951	इन्टीमसी एकझीम प्राईवेट लिमिटेड	U52599MH2012PTC235062	G45181914
952	स्पेंसिबो इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड	U52392MH2012PTC233861	G45182490
953	आर्कड एक्झीम प्राईवेट लिमिटेड	U52100MH2012PTC232931	G45180445
954	ग्लोमिओ ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	U52100MH2012PTC233028	G45181302
955	अॅन्ब्रो फुड्स प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH1994PTC081577	G44929180
956	दिपज्योती प्लास्टीक्स प्राईवेट लिमिटेड	U25200MH1990PTC058922	G45185022

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
957	न्यूट्रीषन फूडस् प्राईवेट लिमिटेड	U55209MH2007PTC174916	G44737807
958	डेस्टीनेशन अंदमान प्राईवेट लिमिटेड	U63090MH2012PTC230013	G48085252
959	रुद्राक्ष हिलींग थेरेपी प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2011PTC215775	G59474858
960	रेक्स आर जीआयएस फार्मा प्राईवेट लिमिटेड	U85300MH2016PTC274170	G48085062
961	केएसएम इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड	U51909MH2005PTC152753	G48089577
962	ट्रिलीयन डॉलर वेल्थ मैनेजमेंट सर्व्हीसेस प्राईवेट लिमिटेड	U65990MH2009PTC190264	G45192101
963	चौरीया मुवर्स अॅण्ड पॅकर्स प्राईवेट लिमिटेड	U63090MH2010PTC208726	G45185634
964	साईनाथ इन्सेक्ट्रीसाईडस प्राईवेट लिमिटेड	U31100MH1990PTC059121	G44847200
965	इमेज डिलिटल सर्व्हीसेस प्राईवेट लिमिटेड	U72900MH2008PTC181231	G45214640
966	बिमटेक इन्नोवेटीव्ह इन्फ्रास्ट्रक्चर्स सोलशन प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2011PTC217645	G45219680
967	फौज इंजिनिअरिंग प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2012PTC228726	G45222585
968	इन्टेग्रेटेड कोहेसिव सर्व्हीसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2009PTC197874	G45228053
969	सुमकित इन्पोर्ट अॅण्ड एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	U51101MH2012PTC235973	G48003016
970	पंझरा डेअरी अॅण्ड अॅग्रो प्रोडुसर्स कंपनी लिमिटेड	U01403MH2010PTC211177	G45237179
971	कॅस्टल पिक पिक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड	U92140MH2002PTC136953	G45240231
972	विकल्प इसपॉर्ट प्राईवेट लिमिटेड	U51101MH2011PTC218466	G45240967
973	आउम गुड फ्रेंड्स एन्टरप्राइज प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2013PTC240802	G45245974
974	डिजीलाईफ इमेजिंग सोलशन प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2012PTC233305	G45249018
975	टिमफन्ड प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2016PTC280977	G54752837
976	मॅक्झीमस इक्वीपमेंट सर्व्हीसेस प्राईवेट लिमिटेड	U51500MH2004PTC144289	G45259678
977	इपेरो प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2016PTC280440	G54753769
978	एन अॅण्ड टी कन्सल्टन्सी सर्व्हीस प्राईवेट लिमिटेड	U67120MH2001PTC130680	G49071186
979	फोर्थ डायमेन्शन्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड	U72900MH2008PTC182655	G48087878
980	रोबोसॉफ्ट सिस्टीम्स प्राईवेट लिमिटेड	U72300MH2013PTC241396	G59524298
981	कॅस्टल हेल्थकेअर प्राईवेट लिमिटेड	U85100MH2010PTC198517	G57861999
982	एक्सजीओ सोलशन प्रोव्हायडर्स प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2009PTC192007	G45329000
983	ओनली सोलुटन्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U74910MH2005PTC156550	G45330602
984	शालीनी विनायक रियल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	U70102MH2008PTC181466	G45331329
985	प्रोसायरकल आउटडोर मिडीया प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2013PTC241197	G48155402
986	स्वेत कांचन अॅग्रो प्राईवेट लिमिटेड	U01211MH2001PTC131897	G45247152
987	फार्माटेक इंजिनिअरिंग कंपनी (एमएफजी) प्राईवेट लिमिटेड	U29253MH2013PTC250437	G45356433
988	जामिया सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड	U72900MH2009PTC195831	G45276466
989	सायनरजेटीक्स इनसाईट्स प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2016PTC273936	G45276722

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
990	शैलीज एक्सपोर्ट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	U51900MH1991PTC064609	G48169650
991	नाडकर्णी ट्रैवल्स प्राईवेट लिमिटेड	U63040MH2003PTC139211	G49092000
992	लाकोन्टेसा ज्वेल्स प्राईवेट लिमिटेड	U51398MH2011PTC220983	G49093230
993	उप्रिसिंग रिअल टोर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45400MH2013PTC243142	G54779673
994	ओरिएन्ट बिल्ड वन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45400MH2011PTC221071	G49094568
995	क्लीयर इन्टैन्स आयटी सोलशन प्राईवेट लिमिटेड	U72900MH2008PTC188104	G48175467
996	राजेश स्पायसेस प्राईवेट लिमिटेड	U15495MH1985PTC038012	G48123269
997	अप्पु इंजिनिअरिंग अँड मैनेजमेंट सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U65920MH1998PTC116925	G45397593
998	अराईज कन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड	U72200MH2008PTC182197	G45411303
999	सिंगल विन्डो एंनेजमेंट सोलशन प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2008PTC182340	G45410479
1000	अम्रपाली अप्लायन्सेस प्राईवेट लिमिटेड	U25200MH1997PTC109597	G45417169
1001	युनिक फ्रॅग्रन्स प्राईवेट लिमिटेड	U24300MH1986PTC041538	G45418803
1002	क्वालीटी सिस्टीम ग्रुप (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	U51900MH1992PTC068530	G45415163
1003	स्टार आषिया इंजिनिअरिंग अँड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC235529	G45421088
1004	कोटक कन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड	U74140MH2002PTC137989	G45423985
1005	सेलेबीट टेक्नॉलॉजी प्राईवेट लिमिटेड	U30007MH2001PTC134224	G45423944
1006	360 डिग्रीज वेअरहाउसिंग अँड लॉजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	U63000MH2013PTC239525	G45425386
1007	कुलकर्णी रिसोर्ट्स अँड हॉटेल्स प्राईवेट लिमिटेड	U55204MH2010PTC207248	G45427556
1008	एसजीआय एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड	U40300MH2013PTC249799	G45427945
1009	रोबोफॅन टेक्नालॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U72900MH2016PTC284202	G59491076
1010	मार्वल हॉलीडेज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U93030MH2013PTC243320	G45438900
1011	अपोलो एक्सप्लोकेम प्राईवेट लिमिटेड	U24100MH2009PTC190377	G48206411
1012	क्रिसोल फायनान्सीएल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74990MH2009PTC195455	G49109986
1013	जैन हॉस्पिटल्स प्राईवेट लिमिटेड	U85110MH1990PTC057889	G45193877
1014	रियल शिप मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड	U93090MH2009PTC193125	G48207377
1015	प्रिन्स कॉन्ट्रैक्टर प्राईवेट लिमिटेड	U45202MH2010PTC204128	G49111164
1016	सेल टेक थेराप्युटीक्स प्राईवेट लिमिटेड	U33111MH2012PTC238524	G49113574
1017	इनेन एनव्हायरमेंट अँड एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड	U90000MH2010PTC208591	G45487337
1018	कलर शेड प्राईवेट लिमिटेड	U22100MH1961PTC012230	G54821335
1019	किलजित इन्व्हेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	U67120MH1991PTC063407	G48235428
1020	शाष्वती प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	U70109MH2010PTC203277	G45524956
1021	ओरा टेक कन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड	U72300MH2012PTC236004	G45293586
1022	पोलाड स्टील अँड पावर प्राईवेट लिमिटेड	U27101MH2009PTC195100	G45528247

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
1023	राहोफीट हेल्थ सोलशन प्राईवेट लिमिटेड	U85100MH2015PTC265324	G54836432
1024	डेन चैनल 3 केबल नेटवर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	U80300MH1999PTC120659	G45538378
1025	कॅपिटल वन वेल्थ मैनेजर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2015PTC268547	G54837380
1026	मुम्बा फॅसिलीटी अॅण्ड रियालीटी प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2013PTC240065	G49108970
1027	प्रेसिअस ऑईल प्रॉडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U15140MH1987PTC043672	G45539780
1028	सत्युरु डेव्हलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45200MH1988PTC047158	G48265243
1029	श्री जगन्नाथ मेटालर्जीकल कोल अॅण्ड कोक प्राईवेट लिमिटेड	U13100MH2005PTC152079	G48269963
1030	सोरेन्टो विजन्ज प्राईवेट लिमिटेड	U45400MH2012PTC231324	G48270714
1031	बॉयालाजीक्स लाईफ सायन्सेस प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2013PTC244804	G45085776
1032	इंद्रधनु मर्कन्टाइल प्राईवेट लिमिटेड	U51109MH2010PTC204881	G49142409
1033	पॉईस मर्कन्टाइल प्राईवेट लिमिटेड	U51109MH2010PTC205460	G49142938
1034	रेडिअस शिपींग एजन्सी प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2017PTC292031	G49142623
1035	उध्दार ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	U51109MH2010PTC204920	G49143092
1036	ट्रायडेंट लॉजिस्टिक्स अॅण्ड ट्रान्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	U60200MH2013PTC250606	G48288674
1037	प्रिविया रिअलटोर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45400MH2013PTC239297	G59751784
1038	फुडइन्डेक्स कॉसिन प्राईवेट लिमिटेड	U55204MH2013PTC240368	G49148489
1039	इरा अनालेटीक प्राईवेट लिमिटेड	U41000MH2015PTC269934	G48290795
1040	नॉर्थ अॅरो टेक्नॉलॉजी प्राईवेट लिमिटेड	U73100MH2011PTC218652	G48290589
1041	क्लीनिकल मेडिसिन इन्फोमॅटीक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2007PTC169131	G59761478
1042	सिएक्सआय डिझाइन प्राईवेट लिमिटेड	U72200MH2007PTC172991	G48297519
1043	उर्जिता मर्कन्टाइल प्राईवेट लिमिटेड	U51909MH2011PTC217081	G49158256
1044	डेवकॉम अॅबटेक प्राईवेट लिमिटेड	U24297MH2010PTC202136	G45587763
1045	कॅप्रे-बेन्ड जॉइन्ट प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2014PTC259856	G45588662
1046	ग्रिन अॅपल कन्सल्टिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U93000MH2010PTC207743	G59787788
1047	रिफार्म हेल्थकेअर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U33110MH2012PTC235132	G54888102
1048	रूट विंगज मेटालिक्स प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2015PTC260893	G48780225
1049	कार्पोरेट ऑप्षन्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2011PTC222723	G48358295
1050	प्रोग्रेशिव्ह लेबॉर्टरीज प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2012PTC237434	G45000049
1051	शौर्य पॉवर प्राईवेट लिमिटेड	U40101MH2010PTC201084	G54899521
1052	संजीवनी आर्क प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2010PTC208472	G45616794
1053	पिएसवायओपी मीडिया कंपनी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	U92412MH2012PTC233753	G48366405
1054	क्रोन अॅडव्हायझरी सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U72200MH2008PTC187938	G45618022
1055	कुपर्स अॅण्ड लिब्रॅन्ड प्राईवेट लिमिटेड	U67190MH1990PTC055285	G49194889

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
1056	झेअस एन्टरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2011PTC224156	G48373674
1057	इस्को ट्रेडींग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U51101MH2014PTC254201	G48377089
1058	क्लाउडनाईन कन्स्ट्रक्शनस प्राईवेट लिमिटेड	U45200MH1995PTC088424	G45014206
1059	स्नार वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2013PTC244836	G49197544
1060	चिदम्बरा एअरलाईन्स प्राईवेट लिमिटेड	U62100MH2011PTC215389	G45626082
1061	पायओरस्नी अॅग्रो प्राईवेट लिमिटेड	U01403MH2008PTC185056	G45626876
1062	वेलोंसिटी बिजीनेस फॅसिलिटेशन सर्व्हीसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2015PTC268261	G49207855
1063	सार्थ फार्मा इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2012PTC229469	G59833830
1064	टायल सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	U17200MH1981PTC025403	G49178098
1065	कलाकृती अॅप्परेल्स प्राईवेट लिमिटेड	U18101MH2002PTC137674	G45657103
1066	यषमान एन्टरप्राइज प्राईवेट लिमिटेड	U17291MH2012PTC231992	G45585536
1067	रामक्रीष्णा एन्टरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2012PTC232834	G45216678
1068	ऑक्सीन कॅपिटल मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2014PTC254775	G45664943
1069	अॅम्बीएन्ट एचव्हीएसी प्राईवेट लिमिटेड	U29253MH2014PTC251850	G59861286
1070	अनंत बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड	U24100MH1994PLC082574	G45638616
1071	बीपीआर अंडवायझरी प्राईवेट लिमिटेड	U74140MH2010PTC203763	G59871921
1072	प्लॅटिनम इन्डस्ट्रीयल सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U51496MH2007PTC171417	G49233810
1073	निशीमोरा लेजर कन्सेप्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U55101MH1995PTC091847	G49184930
1074	कॉम्प्युटवेल सिस्टीम्स प्राईवेट लिमिटेड	U30007MH1982PTC026155	G49184575
1075	आदिश्वर फॅब्रीक्स प्राईवेट लिमिटेड	U17120MH1987PTC042565	G54535257
1076	पिएसएस प्रॉपर्टी सर्व्हीसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2016PTC273462	G49254139
1077	युएसएस शिपिंग अॅण्ड एजन्सी प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2016PTC281954	G45682580
1078	देवला सॉल्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U72100MH2000PTC125638	G49266802
1079	मायक्रोरूट पिओसी टेक्नॉलॉजी प्राईवेट लिमिटेड	U72200MH2009PTC195996	G45688314
1080	पारा युटोपिया प्राईवेट लिमिटेड पिओसी	U74140MH2015OPC266470	G49247315
1081	आदी इथीक प्राईवेट लिमिटेड	U74210MH2005PTC154328	G45703873
1082	मिडलैण्ड मूवर्स प्राईवेट लिमिटेड	U60300MH1990PTC058365	G49293202
1083	आरेन ऑर्गेनिक प्राईवेट लिमिटेड	U51900MH1985PTC036467	G45709342
1084	पालाटुआ फार्मस प्राईवेट लिमिटेड	U01403MH2007PTC176654	G55021588
1085	वरप्लेसा फार्मस प्राईवेट लिमिटेड	U01403MH2007PTC176656	G55022586
1086	युएसएस क्लीअरिंग अॅण्ड फॉर्वार्डिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2016PTC283158	G45723459
1087	इटस् डेट इव्हेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2015PTC262023	G49342538
1088	विजय किरण सोलर पॉवर प्राईवेट लिमिटेड	U40106MH2011PTC217740	G55047542

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
1089	इंडियन रेकॉर्डिंग अँड रिप्रॉडक्शन राइट्स कंपनी लिमिटेड	U74900MH2007PLC171315	G49345192
1090	ऑन2ऑल टेक्नॉलाजीज प्राईवेट लिमिटेड	U93090MH2016PTC272207	G45737962
1091	शुकूया कन्सर्ज इंडिया सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2014PTC252445	G49357189
1092	शितलता इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	U70101MH1988PTC047235	G49355431
1093	रिवोविजन कन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC237460	G55059935
1094	ऑपडॉट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2015PTC269297	G55083133
1095	सरसु इंजिनिअरिंग प्राईवेट लिमिटेड	U74210MH1994PTC081171	G60088465
1096	अल्फा रिटर्न अंडवायझर्स प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2012PTC232506	G54499082
1097	सोनी स्टूडिओज प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2010PTC202060	G54597059
1098	हेराम्ब डायमंड टूल्स प्राईवेट लिमिटेड	U29292MH2013PTC239645	G49350887
1099	नान्सी ट्रान्सलेशन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2016PTC287190	G49402811
1100	अपराजिता फार्मिंग प्राईवेट लिमिटेड	U01400MH2012PTC236592	G49419872
1101	आसिम फार्मिंग प्राईवेट लिमिटेड	U01403MH2012PTC236740	G49421316
1102	विशद होल्डींग्स प्राईवेट लिमिटेड	U65990MH1991PTC063565	G45781713
1103	जेकेग्राम रियालिटी लिमिटेड	U70102MH2010PLC202294	G49441801
1104	बिशन फार्मिंग प्राईवेट लिमिटेड	U01403MH2012PTC236595	G49447253
1105	पटेल टूल्स अँड ट्रैवल्स प्राईवेट लिमिटेड	U63040MH2005PTC157423	G45790490
1106	तालकाबाउट फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2015PTC265008	G54587340
1107	कम्प्युफाय टेक्नॉलॉजिज प्राईवेट लिमिटेड	U72200MH2016PTC273476	G49463136
1108	ऑरेंज सिटी टाउनशिप इरेक्टर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U45400MH2013PTC240931	G49200298
1109	ड्रीमज थर्माफार्मर प्राईवेट लिमिटेड	U25209MH2011PTC224262	G45801362
1110	दाना मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड	U34101MH2008PTC188660	G45805157
1111	स्कायवर्थ रियल्टी प्राईवेट लिमिटेड	U45400MH2015PTC265645	G55082606
1112	आरएमएस प्रिमायसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2016PTC272789	G49482904
1113	जम्बो गैल्हानायझर्स प्राईवेट लिमिटेड	U27320MH2008PTC183598	G45681251
1114	बीव्हीयु मिडीया प्राईवेट लिमिटेड	U93090MH2009PTC197139	G49487499
1115	पिकोलो फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड	U22222MH2013PTC243509	G59950220
1116	अरुंधती फार्मिंग प्राईवेट लिमिटेड	U01403MH2012PTC236697	G49497365
1117	ब्रिजेश फार्मिंग प्राईवेट लिमिटेड	U01403MH2012PTC236722	G49498512
1118	एसएमव्ही ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	U51909MH2012PTC236364	G45817525
1119	आरएसएफ कन्स्ट्रक्शनस प्राईवेट लिमिटेड	U45201MH2013PTC241522	G45808219
1120	ब्रम्हा अंग्रो फुड प्रोसेसर्स लिमिटेड	U01110MH1994PLC078094	G55204705
1121	लिजेंड इनव्हेस्टर सर्विसेस अँड डाटाबेस प्राईवेट लिमिटेड	U65990MH1995PTC095200	G49517931

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
1122	मक्यफ्रअर लाईफसायन्सेस प्राईवेट लिमिटेड	U85100MH2010PTC202070	G49517899
1123	गूरोम एज्युकेशनल अण्ड करिअर सर्विसेस इंडिया प्राईवेट लि	U80301MH2008PTC184096	G60251832
1124	ग्रेट मराठा मैनपॉवर सोलशन प्राईवेट लिमिटेड	U74910MH2009PTC189600	G49523210
1125	मुन इन्फ्रा कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	U45202MH2010PTC210630	G49524713
1126	डिवाइन इनवेस्टमेंट अंडवायझर्स प्राईवेट लिमिटेड	U67120MH2007PTC167665	G49515240
1127	प्राईम सोलपॉवर प्राईवेट लिमिटेड	U40106MH2015PTC263216	G45744273
1128	कमलेश अलॉयस प्राईवेट लिमिटेड	U51900MH2000PTC125505	G45406295
1129	पिक्झॉन ट्रेडिंग अण्ड मार्केन्टाईल प्राईवेट लिमिटेड	U51101MH2011PTC215852	G45840816
1130	कम्पोनर सोलशन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U35900MH2016PTC274304	G45820370
1131	टेम्प्लेस्ट फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड	U92110MH1991PTC063416	G45847068
1132	साई धाम हॉस्पिटैलीटी प्राईवेट लिमिटेड	U55101MH2011PTC212328	G45851870
1133	साई कृपा मल्टीव्हेन्चर ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	U51101MH2016PTC272222	G49558042
1134	लॅण्डर्ट एचएमटीडी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U28920MH2000PTC128352	G54995931
1135	ग्रीन झोन अंटो टेक्नॉलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U50500MH2004PTC144406	G55257232
1136	रुकले लिजन्डस प्रॉडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC236016	G45853165
1137	एएनसी इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	U72900MH2017PTC293118	G55258578
1138	साहू आय केअर प्राईवेट लिमिटेड	U85190MH2012PTC226974	G45588944
1139	ग्रॅवित इंजिनिअरिंग वर्क्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	U74210MH2003PTC141889	G49566615
1140	वाटसन फिटनेस प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2010PTC207877	G49577422
1141	एआरआय फिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड	U93000MH2011PTC212877	G55281067
1142	प्रता हाइज मैन्युफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2013PTC240705	G49588700
1143	आसीफ अण्ड साजिद सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2014PTC258401	G49619349
1144	अँकेक्स लॉजिस्टिक लिमिटेड	U74999MH2011PLC218842	G49625718
1145	टॉपवर्थ एअरवेज प्राईवेट लिमिटेड	U62200MH2010PTC199116	G49639446
1146	टॉपवर्थ पेट्रोलियम प्राईवेट लिमिटेड	U11200MH2009PTC190088	G49640055
1147	झोन इरेक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	U70102MH2013PTC241166	G49668155
1148	फलोरा अँव्हेन्यु रेसिडेंसी प्राईवेट लिमिटेड	U93030MH2011PTC221024	G45911328
1149	वाफलेऑन्सव्हील्स फास्टफूडस् प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2016PTC285650	G55375562
1150	कृपासॉफ्ट सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U72200MH2006PTC158893	G49615651
1151	सिडब्ल्यूटी डिस्ट्रीपार्क वन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	U63020MH2007PTC176894	G45920568
1152	अमोनरा फॅब्रिकन प्राईवेट लिमिटेड	U28113MH2010PTC198701	G49682826
1153	चितले कन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड	U74140MH2010PTC208085	G49687460
1154	ओमान एजन्सीज प्राईवेट लिमिटेड	U63090MH2010PTC198703	G45925302

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
1155	एमपॉवर प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	U45400MH2013PTC246008	G55411706
1156	प्रोग्रेड इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2013PTC246734	G55425672
1157	पोटेन्सीयल मॅन्युफॅक्चरिंग अॅण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2011PTC216169	G55252274
1158	विजन मॅनपॉवर कन्सल्टन्सी प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2009PTC195748	G45948718
1159	लेक्सकॉन ग्लोबल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2013PTC249493	G60594983
1160	धरसन्स शेअरपॉपी प्राईवेट लिमिटेड	U67120MH1995PTC084762	G49697311
1161	दक्ष इन्फ्रास्ट्रक्चर अॅण्ड डेव्हलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड	U45200MH2007PTC174910	G45966256
1162	जलाराम फुड अॅण्ड बीवरेजेस प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC238256	G45970456
1163	केविम फुड्स प्राईवेट लिमिटेड	U55101MH2013PTC246567	G55536858
1164	टॉपवर्थ मेटल्स अॅण्ड एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड	U14200MH2008PTC182964	G49725070
1165	वेव्हज करिअर फोरम प्राईवेट लिमिटेड	U74990MH2009PTC189431	G60652179
1166	लकी डायमन्ड्स इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	U36911MH2012PTC235624	G49673379
1167	कापडीया डिस्ट्रीब्युशन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2011PTC223072	G45994423
1168	उब्रीज डिझाईन्स प्राईवेट लिमिटेड	U74990MH2010PTC207045	G49749567
1169	प्रत्युष स्पीनर्स अॅण्ड विवर्स प्राईवेट लिमिटेड	U17210MH2010PTC200671	G45973252
1170	क्वान्टम रि-डेव्हलपमेंट अॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्रा लि	U45205MH2014PTC258484	G49740889
1171	सि अॅण्ड ए रिअल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	U70100MH1999PTC118097	G45862349
1172	कनाधा बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45202MH2011PTC216355	G45859543
1173	व्हीज़ॉन इंडिया एन्टरप्रेनिअर प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2011PTC221499	G45519923
1174	एमकेएस मेगा फुड पार्क प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2016PTC286596	G60337649
1175	एमकेएस इस्टैब्लिशमेंट प्राईवेट लिमिटेड	U25199MH2014PTC254256	G60337367
1176	पेलार डेस्क्रींग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U36990MH2016PTC280909	G49773302
1177	अमल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	U70102MH2013PTC247866	G49700230
1178	पेट्रोटेक एन्टरप्रायजेस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	U29219MH2006PTC163767	G60724069
1179	बास्कीन रॉबीन्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U15205MH1995PTC089410	G60732260
1180	कम्फोर्ट फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	U55101MH2012PTC236683	G60367091
1181	साई सचिदानंद टेक्नॉलॉजी प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC238717	G49809890
1182	स्पायरलस्टोन रिअल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	U70100MH2011PTC220194	G46028213
1183	विजयनाना अॅग्रो टेक्नॉलॉजिस्ट प्राईवेट लिमिटेड	U01403MH2013PTC247267	G49819667
1184	अल्ट्रोव्हा रिअल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	U70102MH2011PTC218449	G46041562
1185	मॅक्सपेअर डिस्ट्रीब्युशन प्राईवेट लिमिटेड	U92490MH2006PTC163771	G46042057
1186	विब्रान्त ग्लोबल हाउसिंग फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड	U65990MH2014PTC256555	G55668933
1187	बॉम्बे व्हायपर प्राईवेट लिमिटेड	U51909MH2005PTC156602	G46034633

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
1188	क्लीक टेक्नॉलॉजीज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U74210MH2000PTC128173	G60779402
1189	अमोअर रिटेल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U52100MH2013PTC246721	G55687206
1190	स्पाइन्डलेलॉजिक स्टोरेज सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U72900MH2010PTC203237	G46052619
1191	फोएनिक्स मल्टीवेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2015PTC260922	G45998747
1192	सुमन डेव्हलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45201MH2004PTC145220	G46039244
1193	नवनित इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2014PTC256405	G55709471
1194	कम्प्लीट स्टील इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2016PTC271853	G49540297
1195	चिदम्बरा स्टील अँड पावर लिमिटेड	U27101MH2004PLC148952	G46087219
1196	अक्का अँडव्हायझर्स प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2010PTC205402	G55749980
1197	फिरोबोटिक्स टेक्नॉलॉजिज प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC226557	G46053617
1198	सुखवनी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45200MH1992PTC068104	G46104766
1199	अभिथ्री ग्लोबल एडव्हेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2013PTC243912	G46107652
1200	शिया क्रिएशन प्राईवेट लिमिटेड	U74990MH2009PTC195145	G55787170
1201	कोशेर अँडव्हायझरी प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2016PTC273365	G46040648
1202	दिप्ती इन्फ्रा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	U70102MH2015PTC264513	G55796049
1203	मैकनरिन्क वल्डवाईड एन्टरटेनमेंट नेटवर्कस प्राईवेट लिमिटेड	U92190MH2016PTC288115	G60662533
1204	स्टोअरकेसा लिविंग प्राईवेट लिमिटेड	U52330MH2010PTC200236	G46116802
1205	सहकार कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	U45200MH1998PTC113686	G60947744
1206	मेहरा रिअल टोर्स प्राईवेट लिमिटेड	U70102MH2009PTC197616	G49976822
1207	एक्सपोनेन्सीया कॅपिटल अँडव्हायझर्स प्राईवेट लिमिटेड	U93090MH2010PTC208865	G55805840
1208	एआयई सर्व्हीसेस प्राईवेट लिमिटेड	U72200MH2016PTC281588	G54736624
1209	मेकलिया अँड मेकलाल फायनान्सीयल कन्सलटन्ट्स प्रा लि	U74120MH1982PTC026061	G49923626
1210	अँडवायम ट्रेडिंग कार्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH1999PTC120672	G60976966
1211	इलिजीटी एन्टरप्रायजेस प्राईवेट लिमिटेड	U15549MH2017PTC289808	G55827547
1212	ऑपुलन्स बेडडींग अँड लायनन प्राईवेट लिमिटेड	U17121MH2008PTC200614	G49994023
1213	आरएस एम्पायर बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड	U70109MH2014PTC259818	G49584204
1214	भक्ती प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	U70100MH1995PTC089025	G46135869
1215	वालफार्म फुड्स प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2014PTC255034	G46096368
1216	अनुज टेक्सलिंक्स प्राईवेट लिमिटेड	U17220MH2005PTC155216	G46060638
1217	क्वालिटी वाइज एनहान्सड रिसर्च वउ टेक्नॉलॉजी लैब्स प्रा लि	U74990MH2010PTC208384	G46077723
1218	जनरिक इन्फो सोलशन प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC226258	G46162244
1219	इएमएस पावर प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2013PTC242452	G50046895
1220	आउट 4 स्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U92412MH2009PTC195616	G46171682

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
1221	गायडींग स्टार ग्लोबल एज्युकेशन सोलुशन्स इंडिया प्राण लिमिटेड	U74140MH2011PTC220872	G46171401
1222	एरियाक्लीस टेक्नॉलॉजिज प्राईवेट लिमिटेड	U72300MH2012PTC236066	G55682488
1223	ऑनविलक इन्फॉर्मेशन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2014PTC257575	G46153839
1224	क्रेसेन्डो सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड	U65999MH2010PTC208628	G55919351
1225	एडीएम एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड	U40108MH2010PTC202320	G50089051
1226	एडीएम इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	U72300MH2010PTC208286	G50091578
1227	एडीएम नॅचरल रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड	U14290MH2010PTC208494	G50095918
1228	सेलो सेल्स ऑण्ड मार्केटींग प्राईवेट लिमिटेड	U93090MH2009PTC191367	G50096338
1229	हरने बीच प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	U45400MH2013PTC240191	G46199667
1230	श्रीनामन्ह मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	U67110MH2006PTC161233	G46200655
1231	प्लॅनेट मॅक्लीमा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2004PTC146570	G46207296
1232	शंतनु शेवरी ऑण्ड असोसिएट्स पब्लीकेशनस प्राईवेट लिमिटेड	U22110MH1990PTC056253	G46209912
1233	शंतनु शेवरी फोटोग्राफी ऑण्ड डिज़ाईन प्राईवेट लिमिटेड	U44953MH1987PTC044953	G46210316
1234	अगस्त बायोकेम प्राईवेट लिमिटेड	U24233MH2010PTC204481	G46211728
1235	माय फेअर डिल्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2015PTC266144	G50114537
1236	उर्जा लुब्रीकेम प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2011PTC214100	G46223079
1237	वन स्टॉप आटो सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U63090MH2010PTC204463	G46230207
1238	बाबाजी शिवराम ग्लोबल सप्लाय बेस प्राईवेट लिमिटेड	U63090MH2016PTC280952	G56019110
1239	मनी फोर्ट फायनान्सीयल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U67190MH2012PTC235822	G46132148
1240	चित्रलेखा प्रिन्टर्स ऑण्ड पब्लीशर्स प्राईवेट लिमिटेड	U99999MH1986PTC039534	G46260790
1241	नुलाईफ मेडीप्लस प्राईवेट लिमिटेड	U25199MH2002PTC134875	G46262002
1242	पवन नेटवर्क इंडिया इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2015PTC266753	G46267811
1243	युएक्स ट्रेंडल्य प्राईवेट लिमिटेड	U74990MH2009PTC194043	G46268975
1244	ट्रान्सेन्ड क्लिअरिंग ऑण्ड फार्वर्डिंग प्राईवेट लिमिटेड	U63090MH2012PTC228502	G46282380
1245	आयएसआय वेल्ड इक्वीपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	U29253MH2014PTC254663	G50123504
1246	दि जर्मींग बॉक्स कंप्युसर्म्स प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2013PTC247736	G50218635
1247	लाचुरे इन्फ्रा डेव्हलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45400MH2014PTC254797	G46291605
1248	एस्कीमो फुड्स प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC225695	G50239003
1249	सुप्रिम फ़्युएलटेक प्राईवेट लिमिटेड	U23200MH2011PTC224731	G46292561
1250	रामसन पावर टेक्नॉलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2012PTC227318	G46300307
1251	डिफायनिंग स्पेसेस रिप्ल्टी कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2010PTC203826	G46301867
1252	गुड अर्थ रेमेडिज लिमिटेड	U24239MH2006PLC163289	G46304762
1253	केनमार्क इन्टरनॅशनल प्राईवेट लिमिटेड	U51101MH2013PTC241226	G61324646

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
1254	मार्गन लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2012PTC236360	G50261569
1255	मिन्ट कॅपिटल मार्केट्स प्राईवेट लिमिटेड	U67190MH2007PTC175760	G50282490
1256	वियासु हॉटेल्स प्राईवेट लिमिटेड	U55100MH2001PTC132825	G46162632
1257	आरएफयु म्युज़िक फाउन्डेशन प्राईवेट लिमिटेड	U92140MH2009PTC197101	G50273424
1258	साई – आसिष लॉजिस्टिक्स अँड मॅनेजमेंट सोलुशन्स प्राण लिण	U74120MH2013PTC241318	G56159395
1259	लिविंग एज इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	U45400MH2013PTC245949	G55193304
1260	टेकसामुराई ऑनलाइन प्राईवेट लिमिटेड	U72300MH2015PTC267488	G50310945
1261	ड्रिम इन्फ्रा अँड प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U45400MH2011PTC213246	G46353157
1262	टेक्नोनेट टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड	U72900MH2000PLC124944	G46354825
1263	तनिश्क पानी प्राईवेट लिमिटेड	U15137MH2014PTC253548	G46357257
1264	अभ्यु कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U74140MH2007PTC175276	G56192016
1265	इक्वीलीटी असेट सोलुशन्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U71210MH2013PTC249931	G50350818
1266	बैसिलस ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2011PTC213776	G46236147
1267	आयडीयल आर्ट प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2007PTC167875	G50033455
1268	अर्थ मॅट्रीक्स सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड	U65999MH2009PTC194011	G50357391
1269	अलमोन्ड वेलनेस टेक प्राईवेट लिमिटेड	U72200MH2014PTC252533	G46388328
1270	फिट इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2007PTC171302	G46384483
1271	जस्ट फॉर यु सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2014PTC257615	G46398111
1272	मिनोनिम वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड	U52100MH2014PTC259517	G50414531
1273	स्टन्ड टेक्नॉलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U51909MH2015PTC266925	G50422393
1274	अल्काउथर एज्युकेशन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U80903MH2008PTC183603	G50218627
1275	इदाफा इनव्हेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड	U65990MH1996PTC096822	G50218692
1276	एस्काय कन्सल्टन्सी अँड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U93090MH2008PTC182597	G50424555
1277	प्रशाम रिअल स्टोर्स प्राईवेट लिमिटेड	U70100MH2005PTC152541	G46428363
1278	व्ही.एस.अग्रवाल अँग्रो प्राईवेट लिमिटेड	U01110MH2014PTC254784	G50388578
1279	शेहरउर्जाय इन्नोवेषन्स प्राईवेट लिमिटेड	U52399MH2013PTC245830	G46432902
1280	न्युएज मार्केटींग सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U51909MH2012PTC233370	G46427134
1281	ओपन डोअर फिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड	U92100MH2006PTC161202	G46433124
1282	थंन्जाउर मर्कैन्टाईल प्राईवेट लिमिटेड	U27310MH2013PTC240462	G45936853
1283	इनव्हेस्ट / मॅगस फायनान्सीयल प्राईवेट लिमिटेड	U65990MH2009PTC194225	G56337058
1284	वेस्टगार्ड सेक्युरिटी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U28995MH2016PTC284440	G55102248
1285	विल्ला सॉरेन्टो डेव्हलपर्स अँड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45200MH2004PTC146240	G50436971
1286	मागरिटा स्टॉक ब्रोकींग प्राईवेट लिमिटेड	U67120MH2000PTC125324	G46444980

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
1287	वल्डएअर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U63040MH1996PTC101051	G50455518
1288	फिल्म्स 2 फेस्टीवल्स प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC230346	G50458181
1289	जस्टलिगल कार्पोरेट अँडव्हायझर प्राईवेट लिमिटेड	U74140MH2009PTC189399	G50476225
1290	जेनविन प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U70102MH2010PTC207391	G50498302
1291	क्रिमसन वोरटेक्स प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2008PTC177527	G46477576
1292	वेबसोल सॉफ्टवेअर प्राईवेट लिमिटेड	U72200MH2008PTC184698	G50507185
1293	फारोज अँडवायझर्स प्राईवेट लिमिटेड	U67120MH1994PTC082197	G46444758
1294	क्लिनफलो इंजिनिअरिंग प्राईवेट लिमिटेड	U27209MH2016PTC279972	G56458847
1295	डोरस बिजीनेस प्रोमोशन प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2016PTC283438	G50518851
1296	इंडियन स्कुल फुटबॉल लिग प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2014PTC257557	G46492120
1297	रितु प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	U70102MH2009PTC190857	G46444865
1298	इन्स्ट्रुमेन्टल सॉफ्टवेअर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U72900MH2007PTC176312	G56469042
1299	स्टप्पु ऑनलाईन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2016PTC271817	G50525815
1300	ओबेलिस्क टेल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74300MH2008PTC177987	G46497749
1301	एम्लॉयर्स क्लब प्राईवेट लिमिटेड	U72300MH2013PTC248732	G46498382
1302	कोहिनुर ग्राफीक्स प्राईवेट लिमिटेड	U22222MH2014PTC252389	G46256632
1303	वाअरलाईन ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	U51900MH1991PTC064242	G50538198
1304	रेनमैन ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	U51900MH1991PTC064244	G50537158
1305	व्हीएचएन डायमन्ड्स प्राईवेट लिमिटेड	U36911MH2010PTC203954	G46506150
1306	आयफर्स अँडवायझर्स प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2014PTC253878	G50541895
1307	करिअर डिफायनर्स प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2014PTC251634	G50473370
1308	स्पेसिअलीटी डिस्प्लेज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U25200MH2002PTC134716	G46162509
1309	सेवन इन्फोकॉम प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2013PTC243815	G50582816
1310	लाउड बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड	U70101MH2013PTC251356	G50589423
1311	जेव्हीएसके रियल्टी अँड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45201MH2014PTC259306	G50597335
1312	फयुचर मावेरिक वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2015PTC264795	G46461828
1313	अनंतो ऑलिटीक्स प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2013PTC239487	G46484325
1314	चौधरी फ्रेंक्चर्स अँड सर्जिकल हॉस्पिटल (कम्पटी) प्राईवेट लि	U74999MH2014PTC257633	G50658574
1315	मिकंत्रा एन्टरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड	U92419MH2011PTC213604	G50661057
1316	कायरव पेट्रोकेमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	U24297MH2013PTC244814	G50661511
1317	किमिक रियल्टी प्राईवेट लिमिटेड	U45400MH2010PTC205316	G50670645
1318	सिध्द-सिध्देष्वर रियल्टी प्राईवेट लिमिटेड	U45200MH2002PTC137465	G50672427
1319	यष मँग मषिन वर्क्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U50102MH2007PTC168031	G46576054

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
1320	अरुन्दीना फुडस्टफ प्राईवेट लिमिटेड	U55101MH1997PTC109755	G46581575
1321	ग्रिष्म हेल्थकेअर प्राईवेट लिमिटेड	U33111MH2015PTC267196	G50574904
1322	एक्सटेकनिक सोलशन प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2015PTC270691	G46588836
1323	थर्माषिल इंजिनिअर्स प्राईवेट लिमिटेड	U28920MH1997PTC107727	G50694546
1324	सुमन रिक्रूटमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74910MH2009PTC192855	G46591517
1325	केसिआयएल नॅनोक्सपर्ट टेक्नॉलॉजिज प्राईवेट लिमिटेड	U24231MH2014PTC259961	G50718428
1326	सर्वोदय व्हील्स प्राईवेट लिमिटेड	U50300MH2007PTC176696	G46553012
1327	आथेना हॉरिजन बिल्डर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U45400MH2013PTC248376	G46586665
1328	सुमन एचआर कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U74140MH2007PTC169132	G46601050
1329	आर5 ऑनलाईन प्राईवेट लिमिटेड	U93090MH2006PTC166068	G46593877
1330	पर्पल इमेज एक्झीम प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC236213	G50727692
1331	अस्प्रीया ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	U51101MH2014PTC258919	G50733195
1332	अथीवा प्रॉडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U52300MH2015PTC262702	G50733815
1333	इक्वानिमिटी ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	U52600MH2015PTC262129	G50734359
1334	जे अॅण्ड आर क्लॉसेट प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2013PTC240017	G50734672
1335	जेव्हीएस फार्मा प्राईवेट लिमिटेड	U93000MH2013PTC248221	G50734946
1336	रुमी ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	U52100MH2013PTC250609	G50735927
1337	ओम्नीवर्स एन्टरटेन्मेन्ट मिडीया प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2014PTC259709	G50734995
1338	रेस्टोरन्ट्स अॅण्ड बार्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U55101MH2009PTC192199	G46617957
1339	आरती डेअरी अॅण्ड फ्रोजन डेवर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U15203MH2016PTC280727	G46617213
1340	अॅप्रीकोट रिटेल प्राईवेट लिमिटेड	U52100MH2014PTC257445	G46196077
1341	श्री राधे प्रॉपर्टीज डेव्हलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2012PTC226463	G46357372
1342	जीएसओएल रे प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC237183	G46630174
1343	डीएमएनवाय इन्फोरटेक प्राईवेट लिमिटेड	U72900MH2009PTC191260	G46636346
1344	इन्डटेक फायनान्स अॅण्ड होल्डींग्स प्राईवेट लिमिटेड	U87120MH1996PTC104066	G46646733
1345	दिप स्टार टाईल्स प्राईवेट लिमिटेड	U28994MH1996PTC101319	G46654760
1346	अपार्यस गुडस करिअर प्राईवेट लिमिटेड	U63090MH2012PTC235032	G46430708
1347	तलीम स्कॉलर्स प्राईवेट लिमिटेड	U80901MH2012PTC237159	G46672283
1348	बीबीएम इन्फ्रा इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	U70102MH2009PTC192143	G46092888
1349	एसएसबी रियालिटी प्राईवेट लिमिटेड	U70109MH2010PTC199397	G46092227
1350	अर्पन कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U74140MH1980PTC022262	G46692695
1351	माल्वीलॉन फॅब्रीक्स प्राईवेट लिमिटेड	U17120MH2005PTC150801	G46698510
1352	श्री बालाजी पावर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U40101MH2006PTC165868	G50782697

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
1353	इन्सर्क एक्झाम अरेना अकॅडमी प्राईवेट लिमिटेड	U80301MH2011PTC215843	G46574232
1354	ब्रेन्झ इटस कन्सेप्टस प्राईवेट लिमिटेड	U72200MH2011PTC218744	G46588968
1355	अथर्व टेक्नोसॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड	U72900MH2013PTC248108	G46726477
1356	फन्टास्टीक इन्वेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2013PTC241266	G46732475
1357	सिवुडस रिअल्टी प्राईवेट लिमिटेड	U70109MH2016PTC285064	G46735619
1358	सिवुडस रिटेल प्राईवेट लिमिटेड	U70103MH2016PTC285466	G46736021
1359	फनाटीक्स स्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U92412MH2012PTC226072	G50552728
1360	युक्ती सेल्स अॅण्ड मार्केटींग प्राईवेट लिमिटेड	U51900MH1999PTC122570	G46745188
1361	श्री समर्थ रोलिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	U28112MH2013PTC247661	G46750865
1362	ऑक्लॉन हाईटस एज्युकेशन अॅण्ड रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड	U80301MH2010PTC208371	G46759155
1363	अमल व्हाल्डस प्राईवेट लिमिटेड	U29253MH2012PTC232835	G50810811
1364	समंतर मार्केन्ट्राईल प्राईवेट लिमिटेड	U51909MH2010PTC205053	G50822550
1365	कुबेरी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	U15122MH2014PTC258192	G46803557
1366	कॉषन मार्केन्ट्राईल प्राईवेट लिमिटेड	U51909MH2010PTC209611	G50825991
1367	विकुल इन्फ्रास्टक्चर प्राईवेट लिमिटेड	U70102MH2011PTC215469	G50833318
1368	श्राष मारकॅनट्राईल प्राईवेट लिमिटेड	U51101MH2010PTC209232	G50833938
1369	टेम्प्रेट मॅरकॅनट्राईल प्राईवेट लिमिटेड	U51909MH2010PTC209182	G50832914
1370	एमआयसिआर प्रिन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U22100MH1998PTC113277	G46828745
1371	रिशुल अॅग्रो प्लान्टेणन्स प्राईवेट लिमिटेड	U99999MH1997PTC106805	G46861571
1372	कॅनरा कॅप क्रेडीट अॅण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड	U65990MH1996PTC099820	G46766481
1373	डिजीवरटेक्स सॉफ्टवेयर सर्व्हीसेस प्राईवेट लिमिटेड	U72200MH2013PTC240556	G46861803
1374	अयोकी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U51900MH1997PTC106880	G46873196
1375	आस्ता बायोमास अॅग्रो प्रॉडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U37100MH2012PTC229471	G50713742
1376	शिव कृपा पेट्रोकेमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2014PTC256792	G50763036
1377	कपिल लिक्वोर अॅण्ड स्पिरिट्स प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2015PTC261189	G50918499
1378	यषोदा डिझाइन सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2013PTC248304	G50917566
1379	एनरसेव्ह बिल्डींग कुलींग सिस्टीम्स प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2013PTC241262	G50933399
1380	हसित प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	U70200MH2011PTC212236	G50937028
1381	बीग 5 इन्वेंट्स अॅण्ड एन्टरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड	U93000MH2014PTC256118	G50829357
1382	रेअरकॉप्ट मिडीया प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2013PTC249649	G50791144
1383	टॅलेन्ट ट्रेक्क प्राईवेट लिमिटेड	U74910MH2016PTC281215	G50975663
1384	सनकिस्ट ट्रेडिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	U51900MH1984PTC034375	G50985399
1385	ठक्कर्स रिसोर्ट्स अॅण्ड डेव्हलपर्स प्राईवेट लिमिटेड सि/एन	U29110MH1983PTC029706	G50985795

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
1386	मानवराज फिल्मस प्रॉडक्शन प्राईवेट लिमिटेड	U93000MH2013PTC240508	G51010288
1387	इसेल्फा मोरसेटेरिया प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2015FTC260699	G51039931
1388	आयडीयानोज रिअल (ओपीसी) प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2016OPC284428	G51028421
1389	ऑरेन्ज किओस्क सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC234420	G51063824
1390	गिरनार इरेक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	U45200MH1993PTC074744	G51066587
1391	संतोल कमर्सियल्स प्राईवेट लिमिटेड	U51909MH2006PTC163182	G51089514
1392	टानोरिन अग्रो प्राईवेट लिमिटेड	U01119MH2006PTC162904	G51090108
1393	रोबोसॉफ्ट इट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U72200MH2007PTC176752	G50595693
1394	नोव्हाटेक्नो ऑटोमेषन्स प्राईवेट लिमिटेड	U31400MH2008PTC181655	G51109882
1395	नोवस इंजिनिअरिंग प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2011PTC225429	G51118917
1396	जी आर टैन्क्स अण्ड वेसल्स प्राईवेट लिमिटेड	U34203MH2008PTC188375	G51122133
1397	व्हीकल फॅशन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	U52300MH2014PTC252740	G51174738
1398	टॉपवर्थ टॉलवेज (हजारीबाग) प्राईवेट लिमिटेड	U45201MH2012PTC230590	G51193969
1399	सिध्दी कंटरर्स अण्ड अलाईड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U55204MH2004PTC149398	G51212132
1400	फलके इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेड	U67120MH1984PLC033858	G50963974
1401	रूपेश सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड	U67120MH2002PTC134618	G51228252
1402	अक्टीवज्ञोन लर्निंग सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U80301MH2008PTC187736	G51224335
1403	श्री कलीका बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड	U45200MH2004PTC127681	G51345999
1404	पुर्वा मरकॅनटाईल प्राईवेट लिमिटेड	U51101MH2007PTC169975	G51387967
1405	स्वीट ड्रिम सर्विसेस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	U01403MH2015PTC267856	G51403707
1406	फन्टस मेटकॉन इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड	U45400MH2011PTC222921	G51408037
1407	रुचिरा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड	U45200MH2007PTC170052	G51427201
1408	रुचिरा मल्टीट्रेड प्राईवेट लिमिटेड	U51900MH2007PTC169999	G51427730
1409	प्रोसार्थॉन डिजीटल प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2012PTC227769	G51271427
1410	वर्षा इन्व्हेस्टमेंट्स कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	U67120MH1980PTC023183	G51360956
1411	क्लासीक रिट्रेट अण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U55100MH2004PTC146685	G51432417
1412	यषोभुमि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड	U45209MH2007PTC172527	G51432979
1413	जे पी सॅमकॉन रियल्टी प्राईवेट लिमिटेड	U45200MH2010PTC204651	G51408359
1414	पलक रियल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	U70100MH2008PTC186389	G51499473
1415	पॉवरमैन सेप्टी लिंक प्राईवेट लिमिटेड	U15490MH1997PTC110040	G51464048
1416	श्री भैरवनाथ गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U17120MH2010PTC210285	G51444024
1417	अटलान्टा टूरिज्म व्हेन्चर्स लिमिटेड	U45202MH2008PLC180941	G51567923
1418	अटलान्टा हॉटेल्स प्राईवेट लिमिटेड	U45200MH2007PTC169228	G51566545

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
1419	नॉर्थइस्ट टॉलवेज प्राइवेट लिमिटेड	U45400MH2014PTC257334	G51568723
1420	टेम्पल फलोअर हॉस्पीटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड	U93030MH2010PTC210564	G51612125
1421	डी सी ओमरीगार अँड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH1943PTC004066	G51646099
1422	अटेम फायनान्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH1986PTC040492	G51646891
1423	आगीले मिडीयाटेक प्राइवेट लिमिटेड	U92200MH2007PTC173572	G51672566
1424	स्त्रीगबोर्ड फायनान्सीयल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2011PTC219917	G51709640
1425	इशानहर्ष ट्रेडिंगज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U52100MH2012PTC234849	G51268001
1426	सरस्वती इन्टेरिअर्स प्राइवेट लिमिटेड	U36912MH2015PTC270621	G51743581
1427	बाल दि सलोन प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2007PTC170372	G51768299
1428	सिवांश सिन्को प्राइवेट लिमिटेड	U17291MH2013PTC240925	G51780690
1429	शक्ती फलोअर-टेक प्राइवेट लिमिटेड	U15500MH2016PTC273046	G51797330
1430	न्युएज थर्मापेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	U25199MH2012PTC235506	G51797827
1431	बन्सीवाला अँगो प्राइवेट लिमिटेड	U15100MH1999PTC119830	G51803229
1432	हटी फुडस प्राइवेट लिमिटेड	U15400MH2011PTC217750	G51811313
1433	फन स्टॉप शॉप प्राइवेट लिमिटेड	U74990MH2010PTC203607	G51850162
1434	पन्डोराजबॉक्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2017PTC295366	G51855765
1435	इग्रेनएनर्जी टेक्नॉलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	U31401MH2013PTC239652	G51872703
1436	स्मार्ट स्ट्रैटेजिस्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2008PTC183463	G51876159
1437	पैन अलियान्स मार्केटींग प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2012PTC235190	G51878486
1438	मल्हार सॉफ्टवेयर सोलुशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U72200MH1999PTC118043	G51884260
1439	वासा इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC236666	G51847531
1440	हतराक इंजिनिअरिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51900MH2014PTC255688	G51897411
1441	युटेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	U15137MH2016PTC282378	G51902161
1442	आय-कैन कनेक्ट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC228696	G51933851
1443	मॉर्टर वेस्टर्न रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102MH2013PTC249077	G51960565
1444	अविस्कारी मिडीया अँड इट क्रियेयन्स लिमिटेड	U74120MH2013PLC244109	G51458198
1445	नोवा कन्टेनर्स लिमिटेड	U28992MH1998PLC115026	G51998060
1446	विंगो फार्मासिटीकल प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2016PTC273855	G52006350
1447	देव्यानी एम्ब्रॉयडरीज प्राइवेट लिमिटेड	U74994MH2005PTC158410	G51458800
1448	पल्मर सिपिंग अँड इंजिनिअरिंग प्राइवेट लिमिटेड	U35110MH2003PTC140337	G52091196
1449	युनिवर्सल न्युट्रिटीकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U15122MH2013PTC242855	G52096906
1450	कश्वी मल्ट्रीड प्राइवेट लिमिटेड	U74999MH2013PTC242461	G52101078
1451	मनन कार्प प्राइवेट लिमिटेड	U74900MH2013PTC245141	G52101219

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
1452	इझी हेल्थ टेक प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2016PTC286648	G52140373
1453	ग्रेट अल्पीकेषन डिज़ाईन प्राईवेट लिमिटेड	U72900MH2016PTC285402	G52145463
1454	विटल लिक्स अँड सर्क्रीसेस प्राईवेट लिमिटेड	U51900MH1991PTC060668	G52165982
1455	इनफिनिटी एडहब प्राईवेट लिमिटेड	U80903MH2011PTC215228	G52211091
1456	अमित आयुर्वेदिक अँड कॉस्मेटिक प्रॉडक्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	U24230MH1995PTC095197	G52236999
1457	ध्याना कॅपीटल अँडवायज़र्स प्राईवेट लिमिटेड	U74140MH2011PTC216669	G52259025
1458	राजश्री रोडलाईन्स प्राईवेट लिमिटेड	U63090MH2003PTC139719	G51969632
1459	गजानन कोटा अँड मार्बल प्राईवेट लिमिटेड	U99999MH1995PTC084482	G52270279
1460	इंडिया ओवरसिज अँडवायज़र्स प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2013PTC245220	G52313392
1461	श्री महापती अँग्रो प्राईवेट लिमिटेड	U01111MH2008PTC182477	G52359965
1462	जीएसआय जिम्स सर्क्रीसेस इंटरनॅशनल प्राईवेट लिमिटेड	U36910MH2005PTC152316	G52387057
1463	टिम फाईव कम्युनिकेयन्स प्राईवेट लिमिटेड	U92110MH1994PTC080324	G52337185
1464	फॉर्च्युन युनिव्हर्सल स्पेसेस प्राईवेट लिमिटेड	U45400MH2013PTC245976	G52044955
1465	स्टोनसेट बल्टकॉन अँड इफ्रा प्राईवेट लिमिटेड	U45209MH2013PTC245045	G52044625
1466	एक्सइज अँसेट सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U65191MH2014PTC257855	G52379989
1467	एसएलपीएल इन्फ्राकॉन प्राईवेट लिमिटेड	U45400MH2013PTC244582	G52045556
1468	आरआरआरएस रिकवरी रिसायक्लींग रिफायनिंग सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U37100MH2015PTC270623	G52436854
1469	गजानन ब्रिकेटींग प्राईवेट लिमिटेड	U45400MH2012PTC237634	G52439577
1470	एसपी अर्मदा ऑफ़शोर प्राईवेट लिमिटेड	U11100MH2013PTC251503	G52450376
1471	प्रॉप स्टॉप इंडिया रियलटर्स प्राईवेट लिमिटेड	U70100MH2014PTC258078	G52123346
1472	इन्फ्रा पावर कन्सलटींग प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2012PTC236797	G52491883
1473	आशुतोष अँटोमोबाईल प्राईवेट लिमिटेड	U50200MH2014PTC254867	G52389210
1474	व्हाइट फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	U55204MH2014PTC256717	G52522869
1475	विन्डोषॉप ऑनलाईन सर्क्रीसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2015PTC270368	G52531639
1476	प्रजय इन्व्हेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	U67120MH1987PTC042143	G52549623
1477	धैर्य ट्रैकॉम प्राईवेट लिमिटेड	U51909MH2012PTC233656	G52561974
1478	कन्फ़ीएबल ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	U51101MH2012PTC232252	G52562519
1479	सेन्सीबल ट्रैकॉम प्राईवेट लिमिटेड	U51101MH2012PTC233766	G52562352
1480	ट्रेक सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	U51101MH2012PTC232347	G52561990
1481	ट्रिन्केट मार्केन्टाईल प्राईवेट लिमिटेड	U51101MH2012PTC232345	G52562543
1482	विन्मय मार्केन्टाईल प्राईवेट लिमिटेड	U51101MH2012PTC233537	G52562576
1483	एच एम मेहता अँड सन्स प्राईवेट लिमिटेड	U17120MH1949PTC007412	G52454253

क्र. सं.	नाम	सि आय एन	एस आर एन
1484	नताशा इनव्हेस्ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड	U67120MH1996PTC104069	G52665031
1485	जोगेश्वरी हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड	U85100MH2015PTC262199	G52683182
1486	सोलर एनर्जी कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U40300MH2013PTC248770	G52683661
1487	अनिस पोल्ट्री फार्मस प्राईवेट लिमिटेड	U01222MH1997PTC106163	G52717600
1488	मैक्सस्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल आउटसोर्सिंग मैनेजमेंट सर्विसेस प्रिवा	U74120MH2011PTC220252	G52755113
1489	धरणगांव अग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राईवेट लिमिटेड	U01120MH2012PTC230780	G52761525
1490	वेल्वेटकेस टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U72900MH2014PTC256955	G52769080
1491	जेएचएनएसडी प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U45203MH2014PTC252370	G52886504
1492	इन्डोलॉक प्रिन्ट्स अण्ड कोटींग्स प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2016PTC273116	G52891256
1493	एस जी ए फार्मा प्राईवेट लिमिटेड	U51109MH2013PTC242911	G52811049
1494	हॉरिज़न रिट्रेट प्राईवेट लिमिटेड	U55204MH2012PTC228046	G52516838
1495	राजमुद्रा डेव्हलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45201MH2014PTC252043	G52974169
1496	सिपॉवर चार्टरिंग प्राईवेट लिमिटेड	U61100MH2007PTC170799	G52975166
1497	शुभम मैनपॉवर कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U74900MH2014PTC253055	G52980760
1498	व्ही-टेक सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	U72900MH2010PTC208045	G52981966
1499	आर एम अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2009PTC194660	G52967783
1500	दिनेश राठी अक्वा प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2015PTC262240	G52981891
1501	प्रोटेक कन्सल्टन्सी अण्ड इंजिनिअरिंग सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U74120MH2013PTC251301	G52878287
1502	दि एक्सपेरिएन्टल ट्रैवेल कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	U74999MH2013PTC248418	G53086070
1503	कास पॅकेजिंग सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U63090MH2016PTC274210	G53101622
1504	क्युलिनरी स्पेशालिस्ट प्राईवेट लिमिटेड	U15122MH2016PTC274532	G53104923

विनोद शर्मा
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION)
DELHI SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT

New Delhi, the 15th March 2018

No. DP/Pers. I/2018/1055/03/07/2018.—The President is pleased to appoint Shri Pankaj Kumar Srivastava, IPS (MP:1992) as Joint Director in Central Bureau of Investigation, DSPE on Central deputation with effect from forenoon of 19.02.2018 initially for a tenure of five years or until further orders, whichever is earlier.

D. P. SINGH
Admn. Officer (Pers.)

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
[OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA]

Thiruvananthapuram, the 6th March 2018

No. 02/2018.—

Sl. No.	Name	Designation	Date Of Retirement
1.	Jainamma Mathew	Accounts Officer Main Office, Thiruvananthapuram	280.22018.

K K JAYAKUMAR
Accounts Officer/OE(E&C)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
(OFFICE OF REGISTRAR OF COMPANIES)

FORM No. STK-6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off of or removal of names of following companies under section 248 (2) of the Companies Act, 2013, of in respect of the following Companies

Ahmedabad-380013, the 21st February 2018

No. RoC/Guj/248/2018/8683.—

- Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received application from the following companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name(s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application within such period for obtaining the status of dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company have obtained the status of dormant company, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.
- Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the following companies from the Register of Companies.
- Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his/her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

Sr. No.	Company Name	CIN/LLPIN/FCRN	SRN
1	VIOLET COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	U22121GJ2013PTC073973	G73241812
2	BANAS IMPEX PRIVATE LIMITED	U51909GJ2014PTC078486	G73173767
3	SONIA INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED	U45309GJ2016PTC091840	G73091597
4	INARKA RENEWABLES PRIVATE LIMITED	U74999GJ2015PTC084066	G72882723
5	ZEPTO TERMINALS PRIVATE LIMITED	U27209GJ2014PTC079572	G72749427

Sr. No.	Company Name	CIN/LLPIN/FCRN	SRN
6	NUPUR INDUSTRIAL BOILERS PRIVATE LIMITED	U29120GJ2014PTC081380	G72738909
7	SATYASARTHI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70109GJ2013PTC073646	G72640402
8	AUREUS CONSULTING PRIVATE LIMITED	U74140GJ2014PTC080329	G72441082
9	GLOBAL ABRASIVE SUPPLIES PRIVATE LIMITED	U52190GJ2015PTC083527	G72401011
10	DTEX MULTIPROJECT DIAMOND PRIVATE LIMITED	U36101GJ2012PTC071994	G72301062
11	CHALO PARDESH VISA SERVICES PRIVATE LIMITED	U74900GJ2016PTC085843	G72299282
12	STALLION INTELLECTUAL PRIVATE LIMITED	U72300GJ2014PTC079426	G72233737
13	CITY GOLD ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45201GJ2008PTC053575	G72194624
14	CITY GOLD LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45201GJ2008PTC053770	G72160245
15	NIPPON CARBON ELECTRODES PRIVATE LIMITED	U31908GJ2010PTC059191	G72011760
16	SIDDHI VINAYAK TRENDZ PRIVATE LIMITED	U17120GJ2015PTC084234	G71156376
17	MARUL AGRO FARMS PRIVATE LIMITED	U01403GJ2011PTC064429	G70943527
18	JYESTHA AGRO PRIVATE LIMITED	U01122GJ2013PTC074313	G70942594
19	JASUD AGRO PRIVATE LIMITED	U01210GJ2013PTC074224	G70941810
20	AMATH AGRO PRIVATE LIMITED	U01403GJ2013PTC074263	G70940499
21	VINSON RUBBER PRIVATE LIMITED	U25191GJ2013PTC075793	G70733704
22	SUMIRAN REALTY PRIVATE LIMITED	U45201GJ2011PTC067968	G70687256
23	DEEM AUTO-TECH PRIVATE LIMITED	U34300GJ2008PTC055746	G70520713
24	WONDER CASTINGS PRIVATE LIMITED	U27310GJ2008PTC053921	G70517172
25	HIYA BEAUTY CONCEPT PRIVATE LIMITED	U24246GJ2013PTC074606	G70481361
26	SHAKTIMAN MEGA FOOD PARK PRIVATE LIMITED	U45209GJ2010PTC063113	G70462643
27	KERION TRADE PRIVATE LIMITED	U51909GJ2013PTC073691	G70452826
28	SINCROWELLS STEEL PRIVATE LIMITED	U27109GJ2007PTC052209	G70419031
29	TODAY'S PAPER PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U36991GJ2007PTC052187	G70417720
30	FALCON RADIATION PRIVATE LIMITED	U85194GJ2015PTC082283	G70387626
31	ASIAN LIFTERS PRIVATE LIMITED	U63030GJ2013PTC074823	G70359740
32	BEEKAY SPRINGS PRIVATE LIMITED	U29130GJ2000PTC038385	G70358684
33	PRUTHA IBUSINESS PRIVATE LIMITED	U74900GJ2016PTC085771	G70193503
34	PHANTOM E-SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140GJ2014PTC079632	G70190970
35	AALOK GROUP PRIVATE LIMITED	U74999GJ2016PTC093357	G70163985
36	INNOSPIRE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900GJ2017PTC095008	G70141262
37	S V SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74140GJ2007PTC051390	G70010038
38	DESIRE BUSINESS SOLUTION PRIVATE LIMITED	U52100GJ2015PTC082616	G68471564
39	AMBICA LABELLING PRIVATE LIMITED	U74999GJ1995PTC024168	G63936769
40	MERCURY MOTORS PVT. LTD.	U50101GJ1959PTC000924	G62102793
41	AADHAR INFRATECH PRIVATE LIMITED	U45200GJ2011PTC064967	G61153946
42	SUPREME MONOLITHICS & REFRACTORIES PRIVATE LIMITED	U26914GJ2013PTC073426	G60791357
43	BALAJI NAMKEEN PRIVATE LIMITED	U15490GJ2016PTC094379	G59105213
44	NEOPRESS PUBLISHERS PRIVATE LIMITED	U22219GJ2015PTC085004	G57004368
45	KINJAL TELEFILMS PRIVATE LIMITED	U92190GJ2014PTC078369	G56987506
46	AUROCON ENGINEERING (OPC) PRIVATE LIMITED	U29221GJ2015OPC083187	G56974488
47	DISTANCE EDUCATION ACADEMY PRIVATE LIMITED	U80301GJ2013PTC075129	G56523384
48	ONLINE SOFTWARE PRIVATE LIMITED	U15201GJ1995PTC026932	G56413826

Sr. No.	Company Name	CIN/LLPIN/FCRN	SRN
49	FOUR DIMENSIONS SECURITIES (IFSC) PRIVATE LIMITED	U65999GJ2016PTC094522	G56229925
50	KASM POLYMERS PRIVATE LIMITED	U25200GJ2010PTC059183	G55929111
51	DIVINE SPA PRIVATE LIMITED	U74999GJ2016PTC091952	G55673453
52	STEM CELL EXPRESS PRIVATE LIMITED	U74999GJ2016PTC091941	G55501621
53	UNITED BENTONITE PRIVATE LIMITED	U14290GJ2016PTC093865	G55500458
54	NIOMI PROJECT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U74140GJ2013PTC075092	G54894241
55	TRICLINIUM CLINICAL DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED	U74900GJ2016PTC091683	G54760582
56	J.C. ELEMECH PRIVATE LIMITED	U52399GJ2015PTC083255	G54746235
57	SHYAM MOBILE PRIVATE LIMITED	U52334GJ2013PTC076450	G54644265
58	BLEACH MAGIC BOX SOFT TECH PRIVATE LIMITED	U72900GJ2007PTC051980	G54643473
59	AASTHA TEXTFAB PRIVATE LIMITED	U17299GJ2016PTC092464	G54436209
60	GFL ALUMINIUM AND POWER PRIVATE LIMITED	U27203GJ2009PTC058201	G54355920
61	AANYA & JINAL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70101GJ2012PTC073133	G54296710
62	J.S.ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U92100GJ2010PTC059825	G54208491
63	TRUSHNA SYRUP PRIVATE LIMITED	U51101GJ2012PTC071465	G54156211
64	BIRMINGHAM COLLEGE PRIVATE LIMITED	U80903GJ2008PTC054355	G52735172
65	URVAKUNJ SALT INDIA PRIVATE LIMITED	U24298GJ2009PTC057042	G51224830
66	ACHALESHWAR CLOTHING PRIVATE LIMITED	U18109GJ2013PTC077690	G51162279
67	SHREE GANESH MEDIA MARKETING PRIVATE LIMITED	U30007GJ2003PTC042532	G51126944
68	VALLABH SHRICO MARBLE PRIVATE LIMITED	U14100GJ1998PTC033887	G51109916
69	SUJALAM PIPES LIMITED	U26950GJ1999PLC036853	G51047702
70	GURUKRUPA VISION PRIVATE LIMITED	U74999GJ1995PTC024697	G51031425
71	RPC JEWELS PRIVATE LIMITED	U36912GJ2007PTC049821	G49361454
72	BIZ PROCESSING SOLUTION PRIVATE LIMITED	U72900GJ2010PTC063104	G47034863
73	P + W SILO SYSTEM INDIA PRIVATE LIMITED	U29100GJ2010PTC061853	G46430443
74	NAVNI DHI INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED	U45201GJ2010PTC060814	G45941994
75	AAHAA DEALS PRIVATE LIMITED	U72200GJ2013PTC074671	G76556869
76	MATRASHREE FASHION PRIVATE LIMITED	U17290GJ2014PTC078633	G76256114
77	ATMIYA AFFORDABLE HOUSING PRIVATE LIMITED	U45201GJ2009PTC057761	G75654590
78	ITLS COMMODITIES (IFSC) PRIVATE LIMITED	U65999GJ2017PTC095097	G75557702
79	RIDHI STRUCTURE PRIVATE LIMITED	U45203GJ2013PTC077738	G75507012
80	ARK-LIGHT ENTREPRENEURS PRIVATE LIMITED	U01222GJ2012PTC068971	G74912924
81	VENISHA EDUCATION PRIVATE LIMITED	U80300GJ2013PTC077386	G73513707
82	TRIMURTI FINSTOCK PVT. LTD.	U65910GJ1995PTC027800	G73508723
83	SATYASURYA PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70100GJ2013PTC073647	G72639578
84	KARIBU TRAVELS AND CARGO PVT. LTD.	U63040GJ1995PTC025907	G72061450
85	HANI TEX-O-FAB PRIVATE LIMITED	U17120GJ2009PTC056415	G71900393
86	PLUTUS CALLSERVE PRIVATE LIMITED	U72900GJ2014PTC080596	G69720530
87	GREEN HYGIENE CONSUMER PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U36991GJ2013PTC074348	G69523215
88	THESIAS FOODS PRIVATE LIMITED	U15510GJ2015PTC084452	G69492890
89	TIRTH FINANCIAL ADVISORY PRIVATE LIMITED	U74140GJ2010PTC061845	G69201523

Sr. No.	Company Name	CIN/LLPIN/FCRN	SRN
90	CRUXBOT ALGORITHMS PRIVATE LIMITED	U72900GJ2013PTC073598	G69192656
91	SAROJ WOODEN FURNITURE PRIVATE LIMITED	U36990GJ2016PTC092614	G68704287
92	NIL ENGINEERING AND MARKETING PRIVATE LIMITED	U51500GJ2005PTC047343	G64539851
93	SUNWARM ENERGY PRIVATE LIMITED	U40100GJ2013PTC077303	G64474984
94	GOLDENLIFE BUILDSQUARE PRIVATE LIMITED	U45203GJ2014PTC080496	G63423990
95	TIKI TAR INDUSTRIES PVT. LTD.	U23109GJ1985PTC008331	G62600200
96	SHREEDEV CONSULTANCY (OPC) PRIVATE LIMITED	U15549GJ2016OPC094056	G60631488
97	EAGLE BIO-MEDICAL SYSTEMS LIMITED	U33112GJ1991PLC016614	G60599834
98	ESTER PORTFOLIO MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED	U67120GJ2012PTC071973	G60327871
99	SAMARTH INFRAPRO PRIVATE LIMITED	U45203GJ2013PTC076647	G59960252
100	BIZ INFOSOFTECH PRIVATE LIMITED	U72900GJ2010PTC059765	G59610394
101	DALIA EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U80301GJ2012PTC072340	G58444274
102	GENISYS INSTRUMENTS PRIVATE LIMITED	U29196GJ2012PTC071892	G57379448
103	KRISHNA NIYATI ADVISORY PRIVATE LIMITED	U93090GJ2016PTC094654	G57363095
104	JNMG ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED	U29130GJ2015PTC083487	G57166480
105	RCON SYNTHETICS PRIVATE LIMITED	U17120GJ2015PTC082115	G57153462
106	WELLCROW PHOTOGEARS PRIVATE LIMITED	U74940GJ2012PTC070779	G57086001
107	CREATIVE MANCON SERVICES PRIVATE LIMITED	U74900GJ2014PTC079023	G56961766
108	MONEY HONEY FOCAL FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U67120GJ2014PTC080545	G56723513
109	NOVELTY SCIARCHIVES PRIVATE LIMITED	U22211GJ2014PTC080824	G56321656
110	KBV MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140GJ2015PTC083910	G55889810
111	ZYCURE EXPORTS PRIVATE LIMITED	U51109GJ2012PTC069323	G55866818
112	JIGS MACHINERIES PRIVATE LIMITED	U29197GJ2013PTC075265	G55622187
113	IRIS REGIMES HABITAT PRIVATE LIMITED	U45203GJ2013PTC076404	G55620926
114	TRUE CHOICE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U52100GJ2013PTC076190	G55431357
115	AKSHAR BROKING PRIVATE LIMITED	U67120GJ2008PTC053203	G55302764
116	MOTHER INFRACON PRIVATE LIMITED	U45200GJ2013PTC074578	G55277958
117	MOTHER FORMALINES PRIVATE LIMITED	U24230GJ2013PTC074482	G55273395
118	KAAMKART HOMECARE PRIVATE LIMITED	U74140GJ2015PTC085151	G55240493
119	TOROFI NETWORKS PRIVATE LIMITED	U74999GJ2016PTC093176	G55220719
120	LAUREATE CORPORATE SUPPORT PRIVATE LIMITED	U74140GJ2013PTC074393	G55188916
121	VRATTANTA CORPORATE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74140GJ2013PTC074248	G55188783
122	SMITH CLINTON RECRUITMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74140GJ2010PTC060247	G55132997
123	PROLATE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	U72200GJ2013PTC073903	G55027189
124	CARE MEDITEK PRIVATE LIMITED	U52311GJ2009PTC057274	G54956362
125	SHREE SANJIVANI LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45202GJ2007PTC050062	G54555545
126	SRC ROADMOVERS PRIVATE LIMITED	U60200GJ2012PTC071659	G54242276
127	ROLEX TECHNOCAST PRIVATE LIMITED	U27310GJ2008PTC055182	G53853479
128	CANDELA SOLAR TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	U74999GJ2016PTC093529	G53546479

Sr. No.	Company Name	CIN/LLPIN/FCRN	SRN
129	SUR METAL PRIVATE LIMITED	U52512GJ2012PTC072267	G53317574
130	RIGHTSTRIDE EDUCATION CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U80903GJ2010PTC060238	G53261186
131	PANCHSHILL EDUCARE PRIVATE LIMITED	U80211GJ2013PTC075533	G53120101
132	BHUMI ENVIRO TECH PRIVATE LIMITED	U29199GJ1998PTC034898	G53025490
133	AADI SEMICON SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74999GJ2012PTC072587	G52826021
134	AZURE KNOWLEDGE SERVICES PRIVATE LIMITED	U72300GJ2007PTC050947	G52823879
135	LYNKTREK SECURITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U52100GJ2015PTC084181	G52773579
136	INTELLITY WEBPORT PRIVATE LIMITED	U72900GJ2012PTC072918	G52750445
137	ESSEN HOLDING AND INVESTMENTS LIMITED	U65910GJ1986PLC009235	G52696085
138	NANLIU ENTERPRISE (INDIA) PRIVATE LIMITED	U17100GJ2017PTC096222	G52501616
139	OM FUTURES COMMODITIES PRIVATE LIMITED	U67100GJ2009PTC055811	G52358587
140	HM FOODS PRIVATE LIMITED	U74999GJ2016PTC092070	G52252301
141	MESHVA ENERGY PRIVATE LIMITED	U40106GJ2014PTC080441	G52198264
142	CARP FASHIONS PVT. LTD.	U18101GJ1994PTC021003	G52173762
143	PRAGATI INFRASPACE PRIVATE LIMITED	U45200GJ2013PTC076844	G52097136
144	PIONEER MINECHEM PRIVATE LIMITED	U26900GJ2014PTC078466	G51936359
145	SEAL ELECTRONICS EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED	U29300GJ2015PTC083035	G51909000
146	TECHMAD LABS PRIVATE LIMITED	U72200GJ2015PTC083456	G51848851
147	ADB LIFE CARE INDIA PRIVATE LIMITED	U24230GJ2013PTC075674	G51675965
148	ROOP NAKODA DEVELOPERS LIMITED	U45200GJ2006PLC049240	G51552131
149	GESTAMP AUTOMOTIVE SANAND PRIVATE LIMITED	U28932GJ2012FTC070930	G51471431
150	AMULYA REALTY PRIVATE LIMITED	U45200GJ2011PTC067176	G50345446
151	SANTRAM MONEY CHANGER PRIVATE LIMITED	U67190GJ2004PTC044516	G50195189
152	TARTAM ENTERPRISE PRIVATE LIMITED	U45201GJ2008PTC052810	G48408694
153	ANSI BASECODE PRIVATE LIMITED	U72200GJ2013PTC077192	G48367684
154	SHREE SANTOSHI AGRICOM PRIVATE LIMITED	U51900GJ2012PTC071662	G47607940
155	HVM POWER PRIVATE LIMITED	U40109GJ2012PTC071185	G47503321
156	MAHAVIR EMBROIDERY ZARI PRIVATE LIMITED	U17120GJ2011PTC065779	G47053970
157	SUCH MONEY EXCHANGE PRIVATE LIMITED	U74140GJ1999PTC036331	G42066852
158	SURAMYA CHEMICALS PRIVATE LIMITED	U24200GJ2015PTC083767	G76522002
159	P D COMMODITIES INDIA PRIVATE LIMITED	U51101GJ2012PTC070658	G76516558
160	VNS FASHIONS PRIVATE LIMITED	U17110GJ2004PTC044950	G76133966
161	GLOBAL INDIA HOME APPLIANCES PRIVATE LIMITED	U52602DN2013PTC000419	G76049428
162	FOOGART PRIVATE LIMITED	U74999GJ2016PTC092449	G75723387
163	C D I PRIVATE LIMITED	U24129GJ1996PTC030629	G75402982
164	PANEHI CREATIONS PRIVATE LIMITED	U18109GJ2012PTC068768	G75287243
165	PANAV CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U74140GJ2012PTC069477	G75200071
166	AJAX INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED	U51900GJ2014PTC078727	G75145763
167	UMASIDDHI FOODS AND BEVERAGES PRIVATE LIMITED	U15400GJ2015PTC084774	G75073007
168	BACKBONE INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U45209GJ1999PTC036571	G74949264
169	ALORVED BIOSCIENCES PRIVATE LIMITED	U24305GJ2016PTC093425	G74800319
170	KANAM INFRASTR PRIVATE LIMITED	U70200GJ2014PTC079733	G74748740

Sr. No.	Company Name	CIN/LLPIN/FCRN	SRN
171	RIATECH IT SERVICES PRIVATE LIMITED	U72200GJ2013PTC077694	G74641697
172	JETHWA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED	U51909GJ2013PTC076191	G74272477
173	DEKAVADIA CHEMICALS PRIVATE LIMITED	U24231GJ1996PTC030547	G74242686
174	FORCA ENGITECH PRIVATE LIMITED	U45200GJ2016PTC086234	G74090242
175	BOULTON TRADING PRIVATE LIMITED	U52390GJ2013PTC076673	G74071341
176	EXZEALIENT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900GJ2012PTC069009	G73951089
177	ALTIORA CERAMIC PRIVATE LIMITED	U26999GJ2016PTC094075	G73948325
178	HOP EVENTS PRIVATE LIMITED	U93000GJ2013PTC074228	G73938995
179	ANGEL RUBY PRIVATE LIMITED	U36912GJ2010PTC062904	G73910168
180	JASMINE SPINNING PRIVATE LIMITED	U17120GJ2010PTC060598	G73701955
181	OLIVE FURNISHINGS AND FABRICS PRIVATE LIMITED	U17120GJ2010PTC060602	G73700049
182	LAXMIRAJ INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U45201GJ2007PTC052425	G73699878
183	STERLING ENGITECH PRIVATE LIMITED	U29220GJ2011PTC066377	G73697252
184	SATYAPRAKASH REALTIES PRIVATE LIMITED	U70102GJ2010PTC060330	G73650574
185	RAJENDRA FINSEC ADVISORY PRIAVTE LIMITED	U67120GJ2013PTC075306	G73541484
186	CLASSIC GREEN PRIVATE LIMITED	U40106GJ2015PTC083682	G73492571
187	DARSHNEM PHARMA PRIVATE LIMITED	U24304GJ2016PTC094453	G73483885
188	AQUA OIL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U29120GJ2010PTC060651	G73449407
189	SOMNATH EXIM PRIVATE LIMITED	U51398GJ2009PTC058231	G73433039
190	UNICODR.COM PRIVATE LIMITED	U72300GJ2014PTC079240	G73343899
191	ROYALRAJ ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U51900GJ2015PTC085434	G73323578
192	ECORE SPINNING PRIVATE LIMITED	U17120GJ2012PTC073077	G72748460
193	CHANDANI MONEY EXCHANGE PRIVATE LIMITED	U67190GJ2000PTC037495	G72588684
194	VIVAAN INFRA-TECH (INDIA) PRIVATE LIMITED	U45204GJ2011PTC068057	G72583156
195	SHREE HARSIDDHI SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74920GJ2013PTC077912	G72523384
196	FOUNDERS PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED	U21098GJ2016PTC086347	G72485808
197	VARAD METAFLUX PRIVATE LIMITED	U28112GJ2011PTC063726	G72455710
198	AKSHAR IT TECH PRIVATE LIMITED	U72900GJ2014PTC078420	G72404122
199	ROSALIE INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED	U51909GJ2017PTC097205	G72376205
200	UNIQUE MEHSANA LIFESPACE PRIVATE LIMITED	U45200GJ2013PTC075926	G72328891
201	SIMPLY TRAVELS PRIVATE LIMITED	U63040GJ2009PTC056469	G72296361
202	TMP TRADEZ INDIA PRIVATE LIMITED	U51909GJ2010PTC060667	G71730832
203	VECTOR FINCAP PRIVATE LIMITED	U65910GJ1994PTC022980	G71699193
204	DROIT LIFESTYLE PRIVATE LIMITED	U45201GJ2010PTC061151	G71595912
205	PROMACT EDUCATION PRIVATE LIMITED	U80302GJ2017PTC095297	G71314546
206	NIKKU FAB PRIVATE LIMITED	U17214GJ2014PTC078518	G71245047
207	MAHESHWARI DIAMONDS PRIVATE LIMITED	U51494GJ2012PTC072293	G71030779
208	SAURASHTRA AGRICARE PRIVATE LIMITED	U01403GJ2013PTC077729	G70958707
209	HARIDARSHAN AGRO PRIVATE LIMITED	U01225GJ2013PTC074262	G70941521
210	AJITNATH AGRO PRIVATE LIMITED	U01403GJ2013PTC074332	G70799333
211	SMOOTH DUCT PRIVATE LIMITED	U29192GJ2014PTC081144	G70523519

Sr. No.	Company Name	CIN/LLPIN/FCRN	SRN
212	KARYASHIL INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED	U74140GJ2015PTC085490	G69976397
213	SEASON SEEDS PRIVATE LIMITED	U51909GJ2016PTC094299	G69955300
214	TRYKSHA SERVICES PRIVATE LIMITED	U50400GJ2011PTC068303	G69749687
215	VYNET IT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U72300GJ2015PTC081916	G69602167
216	DHYAN INFOMEDIA PRIVATE LIMITED	U72900GJ2011PTC068265	G69440113
217	KALYANI BENTONITE PRIVATE LIMITED	U14200GJ2013PTC073743	G69341766
218	ACTON LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED	U24239GJ2009PTC055922	G69010643
219	KAYFAMS PRIVATE LIMITED	U74999GJ2016PTC092580	G68954494
220	SAMHARRA MINING PRIVATE LIMITED	U14200GJ2013PTC075956	G68787753
221	KALPVYRUKSH FILMS PRIVATE LIMITED	U92120GJ2013PTC075099	G68730084
222	RAKUSWA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U15400GJ2014PTC079106	G68184696
223	SWAN HOTELS PVT. LTD.	U55101GJ1985PTC008294	G65030272
224	NESHIEL MINES AND MINERALS PRIVATE LIMITED	U13209GJ1995PTC026227	G62921465
225	GREENSHIELD COATING AND CORROSION PREVENTION PRIVATE LIMITED	U24100GJ2015PTC083712	G61032710
226	MNS TRADELINK PRIVATE LIMITED	U51900GJ2010PTC060996	G58155722
227	ABAD TRADELINK PRIVATE LIMITED	U52100GJ2007PTC052243	G57924045
228	RUSHI SMART TRADE PRIVATE LIMITED	U67120GJ2010PTC062525	G57811127
229	FUSION FLUIDS PRIVATE LIMITED	U51909GJ2014PTC080578	G56986946
230	UNOLYSIS SERVICES PRIVATE LIMITED	U72200GJ2013PTC077173	G56103641
231	VERDE ENVIRONMENT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U51900GJ2014PTC078679	G56101504
232	MAGIC STEM CELL PRIVATE LIMITED	U74999GJ2016PTC092063	G55500839
233	PURVA PROCON PRIVATE LIMITED	U45203GJ2013PTC077212	G55147607
234	JYOTINDRA AUTOLINK PRIVATE LIMITED	U60231GJ1997PTC031902	G54993159
235	LIFEYARDS BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900GJ2013PTC074643	G54478755
236	NEMINATH REALTY PRIVATE LIMITED	U45200GJ2010PTC063168	G54430939
237	NATRAJ RESOURCES PRIVATE LIMITED	U74120GJ2015PTC082747	G54088752
238	INNOVATIVE CONCRETE MIX PRIVATE LIMITED	U26955GJ2012PTC068771	G54062583
239	P AND R EXHIBITIONS PRIVATE LIMITED	U74999GJ2012PTC070173	G53839726
240	FOCUSED FACILITIES PRIVATE LIMITED	U74999GJ2012PTC071393	G53097564
241	INVINCIBLE CREATIONS PRIVATE LIMITED	U24100GJ2013PTC073669	G52624699
242	ZION INFOWEB SERVICES PRIVATE LIMITED	U72900GJ2013PTC075696	G52281508
243	OXYRICH LIFE NEEDS PRIVATE LIMITED	U74900GJ2016PTC085842	G51339505
244	ALLCHEM LABSCIENCE PRIVATE LIMITED	U24230GJ2011PTC065802	G51269157
245	COOLFOOL FAMILY ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U74999GJ2014PTC080752	G49733991
246	ROSE APPLE INVESTMENTS PVT. LTD.	U65910GJ1980PTC003832	G48255814
247	EMAILMONKS SOLUTIONS (OPC) PRIVATE LIMITED	U72900GJ2014OPC081037	G47012398

VIJAY KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Gujarat, Dadra & Nagar Haveli

In the matter of LLP Act 2018 and of the following LLPs

Ahmedabad-380013, the 26th February 2018

No. RoC/LLP-24/Publi./2017-18/8712.—Notice is hereby given pursuant to Sub Rule 3 of Rule 37 of LIMITED Liability Partnership Rules, 2009 that name of the following LIMITED Liability Partnerships have this day been struck off from the register and the said LIMITED Liability Partnerships are dissolved:-

Sl. No.	Name of LLP	LLPIN
1.	AGRO DEAL LLP	AAG-6107
2.	NEELMANI TRADING LLP	AAD-6873
3.	SHREYANSH INFRABUILD LLP	AAE-3120
4.	IPLAN EVENTS SERVICES LLP	AAG-9637
5.	VALLABH INDUSTRIAL PARK LLP	AAG-2940
6.	PURVI DISTRIBUTORS LLP	AAB-5550
7.	SIJCON INFRASTRUCTURE LLP	AAF-2894
8.	2K CARS LLP	AAI-1825
9.	RICH VALUE STONE TRADING LLP	AAD-6872
10.	RADHIYA SOLUTION LLP	AAF-8257
11.	ASRA TRADEXPO LLP	AAC-2123
12.	ARETE CONSUSERVE LLP	AAB-5807
13.	STEM DESIGN & DEVELOPMENT LLP	AAD-4401

V K KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Gujarat, Dadra & Nagar Haveli

In the matter of restoration of the name of the following companies under Section 252 of the Companies Act, 2013
(correspondence section 560(6) of the companies Act, 1956)

Ahmedabad-380013, the 13th March 2018

No. RoC/GUJ/252/2018/9500.—Notice is hereby under section 252 of the Companies Act, 2013 (correspondence section 560(6) of the companies Act, 1956) that the name of the following companies have been restored in the Register of companies maintained by the Office of the Registrar of Companies, Gujarat, as per the order of the Hon'ble NCLT of Gujarat at Ahmedabad.

Sr. No	Name of the company	CIN No.	Company Appeal No.	Dated	Date of Restoration
1	SURYAPRAKASH DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45201GJ2005PTC045790	53/252/NCLT/AHM/2017	20.12.2017	11.01.2018
2	REX ENVIRONMENT SCIENCE PRIVATE LIMITED	U93000GJ2009PTC056852	37/252/NCLT/AHM/2017	15.01.2018	29.01.2018
3	CORGEM PHARMACEUTICAL LIMITED	U24230GJ2011PTC065185	76/252/NCLT/AHM/2017	15.01.2018	31.01.2018
4	MECHANICAL AND HEAT TREAT WORKS PRIVATE LIMITED	U29224GJ1971PTC002008	36/252/NCLT/AHM/2017	15.01.2018	14.01.2018
5	SHIVKRUPA ENVIRO SYSTEM PVT.LTD.	U74999GJ1995PTC024842	55/252/NCLT/AHM/2017	30.01.2018	21.02.2018
6	SHREE BIOCARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U29299GJ2011PTC064414	52/252/NCLT/AHM/2017	30.01.2018	27.02.2018

7	SHOBHASHREE SPINNERS PVT. LTD.	U17119GJ1971PTC002906	T.P.63/560(6)/NCLT/AHM/2017(NEW) C.P.NO.543/560(6)/NCLT/AHM/2016 (OLD)	07.02.2018	27.02.2018
8	A2VP DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	U51909GJ2001PTC040130	2/252/NCLT/AHM/2017	13.02.2018	28.02.2018
9	RAJPUTANA BIOTECH PRIVATE LIMITED	U29219GJ1996PTC030813	33/252/NCLT/AHM/2017	30.01.2018	28.02.2018
10	TURQUOISE EXPORT PRIVATE LIMITED	U52393GJ2011PTC064186	48/252/NCLT/AHM/2017	13.02.2018	06.03.2018
11	KAMRAN KAPADIA LAND DEVELOPERS PRIVATE L	U45202GJ2001PTC039342	T.P.61/560(6)/NCLT/AHM/2017(NEW) C.P.NO.131/560(6)/NCLT/AHM/2016 (OLD)	23.02.2018	06.03.2018

U. P. PARMAR
Dy. Registrar of Companies
Gujarat

FORM No. STK – 7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off the following Companies from the register of Companies of ROC-Mumbai

Mumbai-400002, the 14th March 2018

No. ROC-MUM/Section 248/STK-2/2018/STK-7/2645.—This is with respect to this Office's Notice No. No. ROC/Section 248/STK-2/Strike Off/2018 and notice in form STK 6 issued on dated 21.11.2017 and 02.02.2018. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (6) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the names of the following Companies has this day of 08.03.2018 been struck off the register of companies and the said Company is dissolved:—

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
1	SHRI RAM SWITCHGEARS (MAHARASHTRA) PRIVATE LIMITED	U31100MH1998PTC117189
2	CANDOR PROJECT MANAGERS PRIVATE LIMITED	U45209MH2014PTC258819
3	ALLIANCE TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	U51100MH1996PTC103448
4	PUNIT FIBERS PRIVATE LIMITED	U17110MH1996PTC098062
5	AUTOCARTE ONLINE RETAIL INDIA PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC238064
6	INDIA AUTO STORES PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC234611
7	ANURADHA SPORTS PRIVATE LIMITED	U92419MH2012PTC226055
8	EKOHEALTH MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U85100MH2011PTC216847
9	USL AUTO SERVICES LIMITED	U50103MH2004PLC149394
10	SHANTI DIAMONDS PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC246221
11	HB BROKING PRIVATE LIMITED	U52390MH2011PTC220943
12	LAVANYA HEALTH AND WELLNESS PRIVATE LIMITED	U93000MH2011PTC211815
13	RECREATE ENERGY PRIVATE LIMITED	U40103MH2010PTC211665
14	AMBROSE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72100MH2000PTC124992
15	SANCHAR LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U63030MH2010PTC211309
16	PERCEPT MULTITRADE PRIVATE LIMITED	U74120MH2013PTC245960

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
17	BUCATTI DEVELOPER PRIVATE LIMITED	U70102MH2013PTC247191
18	BHANUMATI TRADING AND EXPORTS PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC247108
19	V CARE MERCHANT PRIVATE LIMITED	U52100MH2011PTC220460
20	AVAAN THERAPEUTICS INDIA PRIVATE LIMITED	U73100MH2008PTC178339
21	BON TON ENTERTAINMENT AND MEDIA PRIVATE LIMITED	U74120MH2011PTC218603
22	TULI Z SECURITY PRIVATE LIMITED	U74120MH2011PTC221642
23	TRANS-INDIA TRANSFUSIONS PHARMACEUTICALS LTD.	U99999MH1982PLC026835
24	NUOER CHEMICALS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U51101MH2016PTC274810
25	DESIGN CONNECT WEB WORLD PRIVATE LIMITED	U72300MH2012PTC235451
26	SOLAR PRODUCTS (I) PRIVATE LIMITED	U40106MH2006PTC164909
27	SPORTS GENIE PRIVATE LIMITED	U74900MH2013PTC240893
28	TRITON INSTRUMENTS PRIVATE LIMITED	U74920MH2008PTC186195
29	CHHEDA PRINT PRIVATE LIMITED	U22212MH2011PTC213730
30	GS REALTIES PRIVATE LIMITED	U70100MH2005PTC154975
31	AGAMMA EDUTAINMENT PRIVATE LIMITED	U80902MH2002PTC137024
32	CALEO CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74999MH2016PTC282037
33	BRAND MASALA DESIGNS PRIVATE LIMITED	U74900MH2012PTC237192
34	DAPOLI BEACH PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U45400MH2013PTC240224
35	DINHARSHA HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED	U55101MH2006PTC164927
36	GENMECH MACHINERY AND EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED	U29253MH2009PTC195594
37	CAPTUS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U45400MH2009PTC196472
38	SRIKRUPA CONSTRUCTIONS PVT. LTD.	U70100MH1993PTC071917
39	FERICO HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U24110MH1987PTC042146
40	SICHER TEK PRIVATE LIMITED	U29268MH2010PTC210025
41	CHARTERED TAX CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74140MH2011PTC215817
42	SUNNY ACETYLENE PRIVATE LIMITED	U40200MH1997PTC109504
43	SAI PURUJITHE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U52100MH2011PTC213701
44	DEUS REAL ESTATE CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U70100MH2013PTC240989
45	EDIFICE REALTY PRIVATE LIMITED	U45202MH2008PTC188860
46	KICKOFF INDIA PRIVATE LIMITED	U74900MH2013PTC247262
47	SHREE SHYAM METAL INDUSTRIES PVT. LTD.	U27200MH1982PTC027322
48	RBG IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72300MH2013PTC240743
49	MEGHALAY SILK MILLS PRIVATE LIMITED	U17120MH2009PTC196520
50	REASSURE CHIT FUND PRIVATE LIMITED	U74900MH2011PTC216033
51	TYP DRAFTING SERVICES PRIVATE LIMITED	U74990MH2009PTC190607
52	APJ TRADING PRIVATE LIMITED	U51909MH2005PTC156514
53	VK SPORTS PRIVATE LIMITED	U92412MH2013PTC246088
54	KRISSH ALFA THERM ENGINEERS PRIVATE LIMITED	U74210MH2008PTC185665
55	OSKAR MERCHANT PRIVATE LIMITED	U52500MH2011PTC220788
56	SASMIT EXIM PRIVATE LIMITED	U51909MH2004PTC148656
57	CHARIOT COMICS PRIVATE LIMITED	U22212MH2010PTC207583
58	NIBHA CHEM CLEANING PRIVATE LIMITED	U74910MH1989PTC054795
59	MOTWANI GIFTS PVT. LTD.	U36998MH1986PTC039468

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
60	SAMARTH DIGISCIENCE PRIVATE LIMITED	U72900MH2010PTC202699
61	BAYAS EDUCATION PRIVATE LIMITED	U74900MH2015PTC270724
62	VIHA MEDIA PRIVATE LIMITED	U74999MH2011PTC221984
63	BHILAI MINERALS PRIVATE LIMITED	U13200MH2010PTC200048
64	COGENT RESEARCH AND ANALYTIC LABS PRIVATE LIMITED	U73100MH2014PTC254028
65	SHARDA BHATIA REALTY PRIVATE LIMITED	U70109MH2012PTC226887
66	SHRI HARIHAR SUGAR PRIVATE LIMITED	U15122MH2012PTC231479
67	EZZI LINKS DATASOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72300MH2008PTC189035
68	SADIQ ENERGY PRIVATE LIMITED	U40101MH2010PTC203803
69	VOODLES BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED (OPC)	U72300MH2015OPC264740
70	JOYA HABITAT PRIVATE LIMITED	U36109MH2009PTC196325
71	CHHAYA MINES & MINERALS PRIVATE LIMITED	U14220MH2013PTC244866
72	JAKHAPUR JAGDAMBA (KORADI) INFRATECH PRIVATE LIMITED	U45400MH2013PTC240982
73	ARCELOR CEMENT PRIVATE LIMITED	U26940MH2009PTC189347
74	TAJ FILMS PRIVATE LIMITED	U92100MH2004PTC149607
75	FORETELL REALTY PRIVATE LIMITED	U45201MH2006PTC164891
76	SANIKA PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70100MH2010PTC208106
77	AMONKER CAPITAL AND WEALTH ADVISORY PRIVATE LIMITED	U67190MH2010PTC198849
78	KRD REAL ESTATE PRIVATE LIMITED	U70109MH2009PTC198071
79	KOKAN CORNER FARM PRIVATE LIMITED	U70102MH2012PTC225814
80	ALMAR CONTAINER LEASING PRIVATE LIMITED	U51909MH1999PTC120690
81	STAR DHOBIZ PRIVATE LIMITED	U74120MH2014PTC260484
82	SPEEDWELL BUSINESS CARE HOUSE PRIVATE LIMITED	U74900MH2012PTC227112
83	REASSURE KURIES PRIVATE LIMITED	U67190MH2012PTC233609
84	GUIDE AGENCY PRIVATE LIMITED	U70100MH1996PTC101251
85	PLUS COMMODITIES PRIVATE LIMITED	U74900MH2009PTC193633
86	UTKARSH MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED	U74120MH2015PTC267909
87	PIGMENTS LAKES AND CHEMICALS MFG CO LTD	U24100MH1948PLC006793
88	VEUZAN VENTURES PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC225963
89	CUSTMATIC CONSULTING PRIVATE LIMITED	U72900MH2012PTC225917
90	RED BRICKS INFRASTRUCTURE (INDIA) PRIVATE LIMITED	U45200MH2011PTC217998
91	LOMAS TECHNICUT (INDIA) PRIVATE LIMITED	U29268MH2007PTC171550
92	HIND TERMINALS (MUNDRA) PRIVATE LIMITED	U74999MH2007PTC168712
93	MANISH CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45200MH1980PTC022074
94	7CLOVER INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U45209MH2012PTC232270
95	MADHUNANA COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	U74990MH2010PTC198656
96	XPRESSIONS EVENTS PRIVATE LIMITED	U92140MH2010PTC207426
97	ARABITAL LOGISTICS INDIA PRIVATE LIMITED	U74120MH2010PTC202331
98	SVOJAS MARINE LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U61200MH2015PTC265355
99	SEALAND LINES INDIA PRIVATE LIMITED	U61200MH2009PTC198233
100	ELITE RIDE PRIVATE LIMITED	U63090MH2010PTC211592
101	TC CAPITAL ADVISORY (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74990MH2014PTC260407
102	DEVKRUPA FOOD INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U15541MH2013PTC241800

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
103	AROME COLD CHAIN PRIVATE LIMITED	U74900MH2015PTC268489
104	SAMANT TRANSPORT PRIVATE LIMITED	U63090MH1995PTC092765
105	ARTEMIS WORKFORCE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74910MH2008PTC186379
106	C J INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U25209MH1998PTC116707
107	GENNEXT CONTROLS PRIVATE LIMITED	U51109MH2007PTC166828
108	SUMA AUTO-TECH (INDIA) PRIVATE LIMITED	U99999MH1997PTC106527
109	ACCUCARE SCIENCES PRIVATE LIMITED	U74999MH2010PTC206789
110	JALLOSH MERCANTILE PRIVATE LIMITED	U51909MH2010PTC205031
111	ECS INDIA PRIVATE LIMITED	U74910MH2009PTC189929
112	ATHAANSH COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	U74900MH2010PTC200375
113	PACIFIC PIRAMAL TRADING PRIVATE LIMITED	U51420MH1995PTC095687
114	TIRUPATI SYNFABS PRIVATE LIMITED	U17127MH1997PTC107969
115	FITARD TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	U72300MH2016PTC271762
116	Y. M. MEDISYS PRIVATE LIMITED	U33111MH2012PTC228456
117	LASER VISION EYE HOSPITAL AND RESEARCH INSTITUTE PRIVATE LIMITED	U74120MH2015PTC262245
118	KUBTEC PRIVATE LIMITED	U33112MH2010PTC205813
119	DMK DIGITAL PRIVATE LIMITED	U22219MH2007PTC176404
120	SATRANGI CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U74900MH2010PTC206693
121	JAGRUTI AQUA PRIVATE LIMITED	U15543MH2008PTC178436
122	GEM DIAMONDS PRIVATE LIMITED	U36911MH1988PTC047191
123	MAZSON MINOR PORT PRIVATE LIMITED	U74999MH2007PTC168677
124	SATRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45201MH2006PTC163491
125	KRISHNA SAGAR AGRICULTURE & PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70102MH2007PTC175661
126	AMBROSIA MEDIA PRIVATE LIMITED	U92110MH1998PTC116658
127	A B AND U COMMUNICATION PRIVATE LIMITED	U74300MH1997PTC107160
128	INCURVE TRADING PRIVATE LIMITED	U51109MH2010PTC205329
129	SPARSH ACCESSORIES PRIVATE LIMITED	U74990MH2011PTC219461
130	GRAVITI ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U51505MH2009PTC195382
131	SWIFT WINES LIMITED	U15500MH1999PLC118367
132	SUUTRA TRADCOM PRIVATE LIMITED	U52100MH2013PTC245312
133	CROSS-LINK TRADING PRIVATE LIMITED	U51109MH2010PTC205020
134	INTER GLOBAL ADD & TRADING PRIVATE LIMITED	U74999MH2014PTC260133
135	SWAN TOURS AND SAFARI PRIVATE LIMITED	U63000MH2013PTC248811
136	HARISHCHANDRA S GHAG HOSPITALITY PRIVATE LIMITED	U55101MH2015PTC263863
137	KEENAN OFFSHORE PRIVATE LIMITED	U74900MH2014PTC254469
138	SAFFRON SOUL INDIA PRIVATE LIMITED	U24240MH1999PTC123324
139	HELIOS NATURAL RESOURCES PRIVATE LIMITED	U11100MH2007PTC169420
140	COLUMBUS PEOPLE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC251492
141	MAARC DENTAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC234234
142	ANANDSAGAR MERCHANT AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U51909MH2012PTC235189
143	TOYOPOWER AUTOMOTIVES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U34300MH2003PTC142677
144	WINGMEN ADVERTISING PRIVATE LIMITED	U74140MH2013PTC242512
145	ARISSA IT SERVICES PRIVATE LIMITED	U72900MH2009PTC194153

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
146	PRATHMESH MULTI-TRADE PRIVATE LIMITED	U51909MH2006PTC163861
147	BHUMIRAJBRIJ PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70100MH2015PTC271148
148	GURMAN PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED	U22130MH2010PTC200443
149	CNR BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC229157
150	CREATIVE DENTAL DESIGNERS PRIVATE LIMITED	U85190MH1994PTC081617
151	BHUMIRAJ KAMAL REALTY PRIVATE LIMITED	U70102MH2016PTC271634
152	BHUMIRAJ RAMNIK PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70102MH2015PTC271240
153	TRAVELGAINS SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U63030MH2010PTC199040
154	H K NOTE BOOKS PRIVATE LIMITED	U21098MH2003PTC141834
155	SKUSAN MARINE DREDGING & ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U74990MH2009PTC191028
156	REAL TECHNO DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U29199MH2006PTC164680
157	SHANAY REALTORS PRIVATE LIMITED	U70100MH1995PTC095612
158	BHUMIRAJ GOVIND PROPERTY PRIVATE LIMITED	U70102MH2016PTC271613
159	EDAS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200MH2012PTC227079
160	DMI COKE PRIVATE LIMITED	U23203MH2012PTC233772
161	BHUMIRAJ JUGAL REALTY PRIVATE LIMITED	U70102MH2015PTC271344
162	PARADYNE MARINE ACADEMY PRIVATE LIMITED	U80904MH2014PTC257078
163	SWIKAR PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70109MH2010PTC205777
164	E SHARE CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U67190MH2005PTC156876
165	BAKER-STREET FOODS INDIA PRIVATE LIMITED	U15313MH2013PTC243224
166	PARADYNE SHIP MANAGEMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74120MH2013PTC243192
167	SANJARI CHEM PRIVATE LIMITED	U74999MH2012PTC231672
168	INDECOR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900MH2012PTC230922
169	BHUMIRAJ CHANDRA PROPERTY PRIVATE LIMITED	U70102MH2016PTC271660
170	NOBLE TECHNO CRAFTS PRIVATE LIMITED	U29253MH2011PTC223238
171	AECETIA CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED	U74900MH2011PTC223352
172	N16 TECHNO CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U93000MH2010PTC201100
173	RANGPRABHU FINANCIAL HOLDINGS PRIVATE LIMITED	U74990MH2011PTC213193
174	JIJAI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U45400MH2011PTC216962
175	AGRO INFRA PRIVATE LIMITED	U01403MH2010PTC208348
176	NEO AGRO EXPORTS PRIVATE LIMITED	U74120MH2015PTC269691
177	MAILTRACK INFOSERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U52392MH2003PTC140298
178	BOVIS INDIA PRIVATE LIMITED	U45200MH1995PTC092070
179	SPARKLING NOVA PRIVATE LIMITED	U52100MH2013PTC242556
180	BEYOND EVENTS PRIVATE LIMITED	U93090MH2009PTC190874
181	ELITE GAS EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED	U29200MH2008PTC182715
182	SOLARIS INVESTMENTS SERVICES PRIVATE LIMITED	U67120MH2005PTC153427
183	TENET INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72100MH2004PTC148313
184	ABSOLUTELY DIGITAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U74900MH2012PTC230600
185	INNOVATIVE POWER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74900MH2013PTC243706
186	NOMEA STRATEGIC CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74130MH2006PTC158782
187	ISHANIKA IMPEX PRIVATE LIMITED	U51109MH2012PTC226457
188	GLOBETECH SYSTEMS INTEGRATORS PRIVATE LIMITED	U72501MH2013PTC250010

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
189	SHREE SADGURU CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45400MH2008PTC184319
190	CROWN WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U65923MH2015PTC270634
191	MASKA DEAL ECOM PRIVATE LIMITED	U74120MH2014PTC258943
192	EL TORO TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74120MH2013PTC242251
193	TOPPER CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U74140MH2010PTC206491
194	SWOJAS HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U51397MH2010PTC209328
195	PEPPER GREEN ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U29190MH2008PTC183934
196	PRASAL'S NON CONVENTIONAL ENERGY SYSTEM PRIVATE LIMITED	U29200MH2007PTC174285
197	WHYMZ-N-FANCEEZ PRIVATE LIMITED	U74900MH2011PTC213933
198	SEAPRINCE INVESTRADE PRIVATE LIMITED	U67120MH1996PTC098146
199	SAHYADRI COURIERS PRIVATE LIMITED	U74990MH2009PTC189283
200	CICERO REALTY VENTURES PRIVATE LIMITED	U45400MH2008PTC179522
201	INFIN ASSET RECONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U67100MH2014PTC256892
202	SAI RACHNA DISTILLERIES PRIVATE LIMITED	U51228MH2003PTC141605
203	SPRUTHI MEDITECH SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED	U74999MH2016PTC287850
204	OPTICAL MART INDIA PRIVATE LIMITED	U52390MH2009PTC194160
205	BOLLYWOOD CIRCUS PRIVATE LIMITED	U93000MH2016PTC274434
206	CHERRY ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	U32109MH1994PTC083273
207	E - GOLDEN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U29253MH2010PTC205771
208	ACKRUTI CITY MEGA PRIVATE LIMITED	U70100MH2010PTC210230
209	SCIENCE EDUCATION PRIVATE LIMITED	U80904MH2012PTC228771
210	AKSHA IMPEX PRIVATE LIMITED	U51909MH2003PTC141986
211	BHARTI CHEM INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U24233MH2014PTC257067
212	KIMAYA ESTATES PRIVATE LIMITED	U70102MH2009PTC195545
213	BIGCITY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45201MH2006PTC165081
214	STONE MATTERS PRIVATE LIMITED	U74900MH2012PTC235081
215	KKRISHAY EXIM PRIVATE LIMITED	U51900MH2010PTC203941
216	VIDHESHWARI POWER DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED	U40105MH2010PTC199045
217	JACOBS NUCLEAR ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED	U74120MH2011FTC216288
218	VISVAS POWER DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED	U40105MH2010PTC198883
219	BKP TELECOM AND IT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U64200MH2005PTC153382
220	DOSHI ONLINE TRAVEL SERVICES PRIVATE LIMITED	U63030MH2011PTC219900
221	EQUANUM ADVISORS PRIVATE LIMITED	U67190MH2006PTC161873
222	JOY ERECTORS PRIVATE LIMITED	U45202MH2008PTC186868
223	GOLDBERG INDIA PRIVATE LIMITED	U74999MH1946PTC005120
224	NAVDEEP AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U01403MH2004PTC147240
225	JAJAL STEELS PRIVATE LIMITED	U27100MH2005PTC154707
226	KAMADGIRI TRADING PRIVATE LIMITED	U51491MH1992PTC069432
227	MODERATE EXPORT PVT. LTD.	U51900MH1993PTC073794
228	SUNLITE TECHNOCRATS PRIVATE LIMITED	U31109MH2012PTC236200
229	BENNETT LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U63010MH2000PTC123911
230	ABBVIE BIOPHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U51909MH2014FTC256854
231	ROOI INFOTECH PRIVATE LIMITED	U74120MH2015PTC271244

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
232	SHILPI ESTATE DEVELOPERS PVT. LTD.	U70100MH1987PTC044071
233	CONEBEAM SCANS PRIVATE LIMITED	U74110MH2009PTC192929
234	HERBAL EXTRACTS PRIVATE LIMITED	U01100MH1996PTC098173
235	STELLAR SCANDENT PRIVATE LIMITED	U74110MH2009PTC192868
236	NDGB DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102MH2008PTC186577
237	KAVITA BEHL PRIVATE LIMITED	U74900MH2015PTC264702
238	SHILPI PROPERTIES PVT. LTD.	U70100MH1987PTC044069
239	XPANDING HORIZON EDUCATION PRIVATE LIMITED	U80900MH2013PTC243241
240	SHYAM AGRICULTURE & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U74900MH1996PTC098151
241	SPECTRA TRAINING AND ACADEMY PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC235749
242	NITYANANDA TRADING AND INVESTMENT COMPANY PRIVATE LIMITED	U67120MH1976PTC018817
243	PARASRAMPURIA GARDEN FRESH CONSTRUCTIONS LTD	U74900MH1994PLC081667
244	ZEN ASSOCIATES PRIVATE LIMITED	U51496MH2004PTC145406
245	SANJ PHARMA ENGINEERS PRIVATE LIMITED	U29297MH1996PTC101603
246	CREATIVE AND MIGHTY REAL ESTATES PRIVATE LIMITED	U45400MH2010PTC209385
247	GOAL FASHION CLOTH MULTITRADE PRIVATE LIMITED	U51109MH2008PTC188506
248	G S DIAMOND AND JEWELRY TESTING SERVICES PRIVATE LIMITED	U74900MH2015PTC262445
249	PARASRAMPURIA PROPERTIES PVT. LTD.	U70101MH1985PTC037015
250	PARASRAMPURIA PULP AND PAPER LIMITED	U21010MH1994PLC081666
251	PROFIT GROW TRADING AND FINANCE PVT. LTD.	U51900MH1989PTC052212
252	PPL BAYWAYS LIMITED	U63090MH1995PLC094902
253	INDUS HUMAN CAPITAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U80904MH2011PTC217596
254	PPL RENEWABLE ENERGIES LIMITED	U28130MH1996PLC099504
255	QUALITY EVANGELIST SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999MH2015PTC270000
256	VRMS FINANCE ADVISORS PRIVATE LIMITED	U65923MH2010PTC200383
257	PAKRAMA DESIGNS PRIVATE LIMITED	U18204MH2013PTC244724
258	ASHUTOSH PANELS PRIVATE LIMITED	U36109MH2007PTC175505
259	STANDARD FIBRECHEM PRIVATE LIMITED	U17120MH1983PTC029717
260	ABHAY DRUGS LIMITED	U24239MH2006PLC166418
261	HEELER HOSPITALITY PRIVATE LIMITED	U55100MH2006PTC158856
262	VISUALMIND MEDIA PRIVATE LIMITED	U92100MH2011PTC218728
263	S&S THRILL RIDES PRIVATE LIMITED	U92490MH2010PTC199975
264	ANJANEY PHARMACEUTICALS LIMITED	U24239MH2006PLC166420
265	JAL H MEHTA TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	U51900MH1961PTC012034
266	A&G CAR CARE PRIVATE LIMITED	U50400MH2014PTC258389
267	BSE SKILLS LIMITED	U80904MH2014PLC255068
268	SEVENSEAS INFOTECH LIMITED	U30000MH1996PLC097027
269	W.E.E RECYCLING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U37100MH2010PTC210443
270	MAKAN APPAREL PRIVATE LIMITED	U18101MH1996PTC099455
271	LANDMARK PARKING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U63090MH2009PTC194270
272	EMERGING INDIA REALTY ENDEAVOR PRIVATE LIMITED	U70200MH2013PTC247259
273	OMG SURYA PICTURES PRIVATE LIMITED	U92412MH2010PTC211526

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
274	MEDST OIL AND GAS PRIVATE LIMITED	U11100MH2013PTC247067
275	SNAP FOODS PRIVATE LIMITED	U15139MH2013PTC250815
276	HEALTHY AGRICULTURE PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U01403MH2015PTC261667
277	VICTORY EXIM PRIVATE LIMITED	U51900MH1988PTC049934
278	SIDDHARTH GRANDEUR PRIVATE LIMITED	U55101MH2011PTC223181
279	SEA RAVE ENGINEERS AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U45400MH2010PTC210882
280	CRESCENT DIAGNOSTIC CENTRE PRIVATE LIMITED	U85195MH2011PTC218080
281	INDIA INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED	U65923MH2012PTC229802
282	YOGADHIPA PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70101MH2012PTC233433
283	THEIA RECOUP PRIVATE LIMITED	U74120MH2013PTC240155
284	AMRAVATI HEART DIGNOSTIC CENTRE PRIVATE LIMITED	U85110MH2001PTC132383
285	EMERGING INDIA RETAIL SERVICES PRIVATE LIMITED	U70100MH2013PTC247400
286	EDUEDGE CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U80301MH2009PTC197510
287	MOBIPIXEL SOFTWARES PRIVATE LIMITED	U72300MH2010PTC209929
288	TWIGURU DIGITAL ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC236045
289	VARADRAJ PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70102MH2012PTC231423
290	MIRAGE EXPERIENCE ARTICRAFTS PRIVATE LIMITED	U51109MH2009PTC194201
291	LIFEL (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74900MH1990PTC054983
292	INDU INTERNATIONAL DAIRY PRIVATE LIMITED	U74120MH2013PTC239659
293	PRABHADEVI REALTORS PRIVATE LIMITED	U70102MH2012PTC229940
294	AMBER TRENDS PRIVATE LIMITED	U74994MH2014PTC253884
295	KHADAMAT INTEGRATED SOLUTIONS DYNAMIC PRIVATE LIMITED	U74120MH2016PTC271974
296	AL-HUDA EDUCATIONAL FOUNDATION PRIVATE LIMITED	U80904MH2010PTC200052
297	MERCANTILE BROKING PRIVATE LIMITED	U65990MH1986PTC042013
298	POOJA INFRA (INDIA) PRIVATE LIMITED	U45400MH2011PTC214483
299	OWN CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U74140MH2008PTC188316
300	ATAL PROJECTS PRIVATE LIMITED	U74999MH2011PTC218587
301	MERRYGOLD BUILDCON PRIVATE LIMITED	U45200MH2008PTC182106
302	QUTBI TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	U52390MH2010PTC206634
303	SHARVAK ENVIRONMENT LIMITED	U29219MH2006PLC163400
304	TUTOR TODAY EDUCATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U80903MH2008PTC177978
305	SUPERZONE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102MH2009PTC196329
306	MEET SHARES AND STOCKS SERVICES PRIVATE LIMITED	U74992MH2006PTC162961
307	PIRAMAL ARCHITECTS & ENGINEERS PRIVATE LIMITED	U70102MH2011PTC217965
308	MAMSKY INFRA SERVICES PRIVATE LIMITED	U45202MH2010PTC208392
309	FIZZAH EXIM PRIVATE LIMITED	U52190MH2009PTC195619
310	MATA BAMLESHWARI TOURISM DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED	U63090MH2013PTC243661
311	VITHAI CHIT FUND PRIVATE LIMITED	U67190MH2011PTC215012
312	TWIST PHARMA PRIVATE LIMITED	U24239MH2008PTC179073
313	QUASIC FINANCIAL SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U67190MH2007PTC173650
314	CHARISMA GAOTHAN PRIVATE LIMITED	U45201MH2012PTC230971
315	R V N REALTORS PRIVATE LIMITED	U70101MH2012PTC231358
316	SAWAKIN INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72900MH2005PTC157337

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
317	ANS LEX LEGUM PPRIVATE LIMITED	U93000MH2012PTC236051
318	LOVAPAL IMPEX PRIVATE LIMITED	U24230MH1995PTC092384
319	RAIBAHADHUR ESTATES PRIVATE LIMITED	U70102MH2015PTC265673
320	EASTERN GEOPHYSICAL CO PVT. LTD.	U11200MH1987PTC042295
321	MOONZONE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102MH2009PTC196491
322	GARLAND MERCANTILE PRIVATE LIMITED	U51109MH2009PTC193857
323	MADHURI POP AND DINE HOTELS PRIVATE LIMITED	U55204MH2011PTC220289
324	AT INFRA & REALTY LIMITED	U45400MH2013PLC248233
325	ATG BAZAAR LIMITED	U74999MH2013PLC242587
326	KRISH PUBLICITY PRIVATE LIMITED	U74120MH2010PTC210062
327	FORWARD MOTION PRIVATE LIMITED	U92412MH2011PTC214568
328	VENUS SOLAR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U92114MH1996PTC095974
329	C AND U ESTATE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U45200MH2006PTC159906
330	BLUE BEAR TRADING PRIVATE LIMITED	U51909MH2005PTC154290
331	MAMMA ROSA FOODS PRIVATE LIMITED	U55101MH2012FTC238283
332	SILVERLINE LIFESTYLE PRIVATE LIMITED	U45202MH2011PTC214249
333	PAC COMPONENTS PRIVATE LIMITED	U25206MH1996PTC099018
334	SUGRIVA REAL ESTATES PRIVATE LIMITED	U70102MH2010PTC205141
335	PERFECT FIBRES PRIVATE LIMITED	U17291MH2012PTC234913
336	UMAY REALTIES PRIVATE LIMITED	U70109MH2011PTC216265
337	NO MANS LAND MEDIA PRIVATE LIMITED	U93030MH2012PTC231882
338	TWARA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED	U45400MH2008PTC180836
339	GUINEA REALTIES PRIVATE LIMITED	U45202MH2007PTC177141
340	ELODEA REALTIES PRIVATE LIMITED	U70102MH2009PTC195652
341	BHUMIRAJ ANUP PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70102MH2015PTC270999
342	KAIRAVI REALTIES PRIVATE LIMITED	U70102MH2011PTC216230
343	MEDISPEC PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U24230MH1991PTC059904
344	FARHAN PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U45400MH2011PTC216354
345	INGOTTS TRADING PRIVATE LIMITED	U74120MH2013PTC241264
346	VERTIXA EQUIPMENTS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U29253MH2013PTC249383
347	JEENA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED	U70109MH2011PTC216222
348	CARLISLE PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70102MH2011PTC216164
349	FUNTRIP TRAVELS (OPC) PRIVATE LIMITED	U74900MH2015OPC269039
350	KAYADHU REALTIES PRIVATE LIMITED	U70102MH2009PTC195504
351	ABLAZE BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900MH2012PTC237549
352	ROYLOTT EXIM PRIVATE LIMITED	U74120MH2013PTC243194
353	PERSPICAS WIRELESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72300MH2010PTC206738
354	RELIABLE BIO COAL PRIVATE LIMITED	U10102MH2011PTC220446
355	CEMENTITIOUS CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U74120MH2011PTC212495
356	UNMESH REAL ESTATE PRIVATE LIMITED	U70102MH2011PTC216371
357	SUJIT REALTIES PRIVATE LIMITED	U70102MH2011PTC216291
358	ULHAS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45400MH2011PTC216342
359	ROSALIE PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70109MH2011PTC216171

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
360	TAHIR REAL ESTATE PRIVATE LIMITED	U70102MH2011PTC216035
361	RALIGA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102MH2008PTC188138
362	YASIR REALTIES PRIVATE LIMITED	U70101MH2011PTC216133
363	ASTRA LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U63010MH2002PTC138449
364	URJITA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45400MH2011PTC216242
365	NICOLE REAL ESTATE PRIVATE LIMITED	U70109MH2011PTC216184
366	ZUBEN REALTIES PRIVATE LIMITED	U70102MH2010PTC205136
367	PARUL FOOT WEAR PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U19202MH1968PTC013937
368	L'PREE PROFESSIONALS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74994MH2012PTC232188
369	VISA GREENTECH PRIVATE LIMITED	U74999MH2015PTC267490
370	JPJ ENERGIES PRIVATE LIMITED	U40300MH2014PTC258284
371	ECO ELECTRICALS AND SUPPLIERS PRIVATE LIMITED	U40101MH2010PTC203215
372	CHESS CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U74900MH2007PTC172547
373	DOL POWER SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U31103MH2015PTC264490
374	BOTESHWAR INFRASTRUCTURE LIMITED	U45400MH2011PLC212352
375	PARADEIGM INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION PRIVATE LIMITED	U74900MH2011PTC224249
376	ENGGMECH ENGINEERS PRIVATE LIMITED	U29253MH2013PTC247924
377	CONCEPTUAL BENCHMARKING PRIVATE LIMITED	U93000MH2010PTC207011
378	INTERWRAP BUILDING SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U26930MH2009PTC191915
379	INTERFLEX NETS & INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U18109MH2010PTC209110
380	EMPHASYS ADVERTISING PVT. LTD.	U74300MH1987PTC044273
381	SKORPIO FILMS PRIVATE LIMITED	U92112MH1990PTC054993
382	SPIRE ENVIROTECH PRIVATE LIMITED	U74120MH2015PTC269495
383	NOUS-SENSE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74900MH2012PTC234894
384	MANS HEALTH RECORD MANAGEMENT SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U85100MH2010PTC208917
385	OSTWAL FOOD ZONE PRIVATE LIMITED	U15549MH2014PTC251575
386	VASANI POLISH PAINTS PVT. LTD.	U24200MH1992PTC067419
387	CHHABRIA INVESTMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U67120MH2007PTC173621
388	THREESTAR DISTRIBUTORS & TRADERS PRIVATE LIMITED	U52590MH2013PTC239315
389	STREAMLINE INFRA-TRADING PRIVATE LIMITED	U74999MH2010PTC204081
390	ESTEEM AGRO & FOOD PRIVATE LIMITED	U01400MH2006PTC161408
391	SHREE SAIBABA FARM PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U15500MH2016PTC271901
392	A.S.U. FOODS PRIVATE LIMITED	U51220MH2010PTC203987
393	PHOENIX ENERTECH PRIVATE LIMITED	U74990MH2010PTC210419
394	MINERALS MINING AND LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U14200MH2008PTC184924
395	KAPRI VENTURES PRIVATE LIMITED	U74120MH2010PTC210026
396	RVG TRADING AND FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U67190MH2005PTC153360
397	ANAND VASTU SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74900MH2010PTC205246
398	SHREE JAI AMBE AUTOMOBILE SERVICE PRIVATE LIMITED	U74999MH2010PTC210912
399	BUZZZMEE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U74120MH2011PTC221124
400	J DMELLO WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U74900MH2014PTC258512
401	VIRAJ MEGAMOVERS PRIVATE LIMITED	U63090MH2013PTC249735

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
402	GREEN STONE TRADING PRIVATE LIMITED	U52399MH2012PTC230227
403	DIAMOND PROCESSORS PRIVATE LIMITED	U36912MH2008PTC180632
404	LUXURY YACHTS INDIA PRIVATE LIMITED	U74999MH2009PTC192267
405	BRAIN MARK DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	U74999MH2011PTC217988
406	SBA CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U74990MH2011PTC211922
407	AHAN DESTINATION MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U93090MH2012PTC233461
408	BRIGHT WOODS PRIVATE LIMITED	U51431MH2008PTC180249
409	VENUS ENTRANCE AUTOMATIONS PRIVATE LIMITED	U28931MH2013PTC244502
410	KRYSTALIMITEDE FABRIC CARE PRIVATE LIMITED	U93030MH2012PTC236626
411	SANKALP INDUSTRIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U51101MH2012PTC229362
412	HILLCREST VENTURES PRIVATE LIMITED	U70200MH2014PTC256655
413	SAISHRADDHA ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U29253MH2010PTC203236
414	SOULSCAPE PICTURES PRIVATE LIMITED	U22190MH2011PTC224735
415	MIDWEST TRADERS PRIVATE LIMITED	U51900MH1997PTC111205
416	PARAMOUNT DIAMOND SAWERS PRIVATE LIMITED	U36912MH2008PTC180758
417	NEO VISIONS BOMBAY PRIVATE LIMITED	U72100MH2000PTC129231
418	BIG GUY EXPRESS CONNECTIONS LIMITED	U63040MH1995PLC092207
419	EPCM CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC234715
420	DIMENSION 4 WEB SERVICES PRIVATE LIMITED	U72200MH2007PTC175045
421	LEELA INNOVATION CENTRE PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC241675
422	LEELA CONSTATES PRIVATE LIMITED	U70102MH2010PTC204600
423	ARTISAN DESIRED SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900MH2009PTC193442
424	LEELA REALCON PRIVATE LIMITED	U70102MH2010PTC204606
425	LEELA TECHNO PARKS PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC241831
426	MEGA TECH ENERCON SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U74120MH2010PTC202660
427	MICROCIDE INDIA PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC250207
428	VINIYOG AGROFOOD PRIVATE LIMITED	U01403MH2010PTC207291
429	C GATE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74120MH2015PTC268134
430	FORTYTWO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74999MH2016PTC274098
431	VINIYOG INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED	U45400MH2010PTC206278
432	QUALITY INFORMATICS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U72900MH2005PTC156024
433	WADIA GRAPHICS PRIVATE LIMITED	U74300MH1991PTC061238
434	GURUKUL ACTING ACADEMY PRIVATE LIMITED	U92140MH2009PTC192757
435	BSTREAM EXIM AND COMM SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140MH2004PTC150278
436	ABLE MARITIME PRIVATE LIMITED	U63032MH2005PTC151903
437	VINIYOG FURNITURE PRIVATE LIMITED	U36109MH2013PTC239440
438	UNITED INDUSTRIAL FASTNERS PRIVATE LIMITED	U28991MH1971PTC015494
439	BHOUM INFRASTRUCTURES OPC PRIVATE LIMITED	U70102MH2014OPC257425
440	KANADE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45202MH2011PTC214596
441	NANAVATI BLOW-MOULDED PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U28992MH1971PTC015104
442	GEO INSTITUTE OF LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U80904MH2013PTC243054
443	ECOPLUS BRIQUETTES PRIVATE LIMITED	U37100MH2013PTC250948
444	RUDRASHT SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74120MH2011PTC222537

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
445	AIRXPA TOOLS ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U29100MH2011PTC225008
446	K F EXPRESS VIEW LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U74900MH2011PTC220183
447	GLEAM COSMETICS PVT. LTD.	U24246MH1991PTC063098
448	ARCTRENDS SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U31900MH2004PTC149351
449	RUDRASHT SERVICES PRIVATE LIMITED	U74900MH2011PTC222423
450	MARK DEALERS LIMITED	U51109MH2008PLC180221
451	DARO CORP PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC246836
452	DARO POLY PRIVATE LIMITED	U74900MH2013PTC246832
453	HI-TECH INSURANCE AGENCY PRIVATE LIMITED	U66010MH2011PTC217656
454	GAYATRI MANTRA MEDIA PRIVATE LIMITED	U92412MH2011PTC224099
455	ASSET FOODS PRIVATE LIMITED	U15400MH2010PTC207430
456	NEWERA IT INNOVATIONS PRIVATE LIMITED	U72300MH2013PTC249973
457	KISSAN BHARTI AGRO MARKETING COMPANY LIMITED	U01407MH2008PLC185673
458	MERMAID REALTY PRIVATE LIMITED	U45201MH2007PTC169167
459	SPRINGBOARD ADVISORS PRIVATE LIMITED	U74999MH2011PTC222473
460	CONSTELLATION MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED	U63090MH2013PTC244965
461	MGM REALTY PRIVATE LIMITED	U51100MH2006PTC160447
462	LEON SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED	U52100MH2007PTC171901
463	CRICINFO DATA SERVICES PRIVATE LIMITED	U72900MH2001PTC131322
464	OLEOCHEM INDIA PRIVATE LIMITED	U24119MH2001PTC131724
465	TRADEMACH CONSULTING PRIVATE LIMITED	U74140MH2006PTC165354
466	SAMPURNA BAMBOO AGROTECH PRIVATE LIMITED	U01403MH2012PTC233684
467	PGL TRAVEL (INDIA) PRIVATE LIMITED	U63000MH2014FTC252579
468	TRUST HOUSING FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED	U65923MH2011PTC213979
469	NAAZ IRON PRIVATE LIMITED	U27100MH2009PTC197334
470	FINTRUE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U65999MH2011PTC212278
471	NUVED HOLDINGS PVT. LTD.	U67120MH1985PTC038063
472	NEXTGEN FASTFOOD & BEVERAGES PRIVATE LIMITED	U15400MH2009PTC191148
473	MRIGYA VENTURES PRIVATE LIMITED	U74900MH2009PTC197103
474	TRAVIERA FABRICS PRIVATE LIMITED	U17120MH1998PTC114838
475	IARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U74900MH2011PTC221865
476	NOAHSAARK TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74900MH2010PTC206604
477	RAGHAV BUILDMAT PRIVATE LIMITED	U45203MH2008PTC178136
478	IDESAI TRADEIDEAS PRIVATE LIMITED	U26960MH2013PTC245529
479	KHADAMAT INTEGRATED SOLUTIONS MUMBAI PRIVATE LTD	U74120MH2016PTC271608
480	KHADAMAT INTEGRATED SOLUTIONS HYDERABAD PRIVATE LTD	U74900MH2016PTC271816
481	AMBIPURE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U41000MH2011PTC219718
482	PHYTO PHARMA ACTIVES PRIVATE LIMITED	U24100MH2013PTC244312
483	AIRE MARKET PRIVATE LIMITED	U74999MH2015PTC266838
484	LOTUS CARGO TRANSPORT PRIVATE LIMITED	U60200MH2013PTC241946
485	DEVANSH FINVEST SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999MH2011PTC217481
486	KULSWAMINI HOUSING AND INFRASTRUCTURE PVT. LTD.	U01100MH2005PTC154870
487	STUDYZON CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U93090MH2009PTC193416

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
488	RXN LABORATORIES PRIVATE LIMITED	U74120MH2016PTC271893
489	KHADAMAT INTEGRATED SOLUTIONS KOCHI PRIVATE LIMITED	U74120MH2016PTC271815
490	KOTHARI GEMS PRIVATE LIMITED	U52393MH1999PTC121627
491	OMEGA CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U74210MH2005PTC154920
492	YNZ MEDIA GENERATION NEXT PRIVATE LIMITED	U22130MH2011PTC220293
493	NORRIS EXPORTS PVT. LTD.	U51900MH1993PTC070612
494	TRIOS SHIPPING PRIVATE LIMITED	U74120MH2011PTC223806
495	GREENRIDGE PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U45400MH2008PTC181842
496	KOLTE CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U74140MH2006PTC161120
497	SYNCHROTECH SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999MH1988PTC045945
498	APARAJEETA IT SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900MH2008PTC180724
499	LEADWELL BULK MOVERS PRIVATE LIMITED	U29299MH1993PTC074057
500	SUNRAYS CONTAINERS PRIVATE LIMITED	U25200MH2009PTC197133
501	BIG SMILE VENTURES PRIVATE LIMITED	U15122MH2010PTC206827
502	DYNAWALL CONVEYING AND ELEVATING CO PVT. LTD.	U29100MH1984PTC033318
503	FOOT LOOSE INDIA PRIVATE LIMITED	U19200MH2008PTC181708
504	RE-SUM COMPETENCY MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U93030MH2013PTC241925
505	CONFIANCE INSURANCE BROKERS PRIVATE LIMITED	U74999MH2015PTC268601
506	T & Y CAR RENTAL PRIVATE LIMITED	U63090MH2014PTC257756
507	CHROME INFORMATION MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED	U72900MH2015PTC262315
508	BIRLA TRADING PRIVATE LIMITED	U51909MH2016PTC289104
509	CITILITE TRADERS P.LTD.	U51900MH1991PTC064241
510	POOLED FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U52190MH1998PTC115674
511	SIVIN HORIZON PRIVATE LIMITED	U72900MH2011PTC218369
512	VYOMAN OIL AND GAS ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U74999MH2011PTC212524
513	NOVUS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U01403MH2013PTC247853
514	CLANERGY COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	U64200MH2009PTC197138
515	JUMBO TRANSPORT PRIVATE LIMITED	U60232MH2009PTC198068
516	CLANERGY EVENTS PRIVATE LIMITED	U74900MH2009PTC193533
517	CLANERGY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U74990MH2009PTC194645
518	CAPE CAPRI INDUSTRIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U22219MH1988PTC047546
519	FARMACO FRESH FOODS PRIVATE LIMITED	U15122MH2012PTC235633
520	UNIROW INDIA PRIVATE LIMITED	U72900MH2013FTC248571
521	TXA MARKETING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U93000MH2013PTC241598
522	INFORMATRIX IMPORT EXPORT TRADING PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC240700
523	BUOYANCY TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	U74900MH2016PTC274612
524	OLYMPUS COMMODITIES PRIVATE LIMITED	U51100MH2005PTC155363
525	RIDERS BUG MOTORSPORTS PRIVATE LIMITED	U50102MH2013PTC251007
526	ANIK DAIRY PRIVATE LIMITED	U15411MH2014PTC260100
527	SB GREEN FUELS INDIA PRIVATE LIMITED	U24100MH2011PTC218208
528	AD ASIA ADVERTISING PRIVATE LIMITED	U74120MH2014PTC258600
529	CLOUD HOUSING DEVELOPMENT AND FINANCE LTD	U45202MH1991PLC059707

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
530	CHILI MEDIA PRIVATE LIMITED	U74999MH2014PTC258647
531	NIKABHI GOLD JEWELLERY PRIVATE LIMITED	U36912MH2013PTC240031
532	WISHING-WELL MEDIA PRIVATE LIMITED	U74120MH2011PTC218130
533	SCALES CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED	U74140MH2010PTC207040
534	SB GREEN ENERGY & INFRA PRIVATE LIMITED	U40300MH2012PTC236889
535	NIKESH OUTLOOK PRIVATE LIMITED	U70101MH2012PTC234858
536	LOVISHKA GOLD JEWELLERY PRIVATE LIMITED	U36911MH2011PTC217358
537	WILLIAM MILLS AGENCY PRIVATE LIMITED	U74120MH2011FTC220685
538	INFINITE GLOBAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74140MH2012PTC238090
539	SAT - SANSKAR REALTORS PRIVATE LIMITED	U70101MH2011PTC218875
540	JYOTI CORPORATE & MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED	U67120MH1994PTC076705
541	PRATHAM BIO-MASS PRIVATE LIMITED	U74990MH2009PTC189864
542	SPICA DESIGNZ INDIA PRIVATE LIMITED	U18109MH2005PTC158333
543	BOBS AND BEARDS SERVICES PRIVATE LIMITED	U72300MH2016PTC272495
544	TILAK HIRING CO PVT. LTD.	U60230MH1980PTC022827
545	OKUZ TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72300MH2012PTC226642
546	UDGAM RESOURCE MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED	U74120MH2011PTC220901
547	CHAKRA MERCANTILE PRIVATE LIMITED	U93030MH2011PTC223440
548	PUNYA EXIM PRIVATE LIMITED	U93030MH2011PTC223781
549	ROHIT JHAMB REALTY PRIVATE LIMITED	U45201MH2013PTC243051
550	ENGAGEON SOFTTECH PRIVATE LIMITED	U72900MH2011PTC213043
551	CAVIM MALLS PRIVATE LIMITED	U74999MH2003PTC140055
552	DEEPAK DOSHI INVESTMENT CO PVT. LTD.	U65990MH1981PTC024933
553	AIR A SOURCING PRIVATE LIMITED	U51909MH1996PTC102980
554	ASHA TRANS PHARMA PRIVATE LIMITED	U24239MH2010PTC202876
555	NOVA REALTY PRIVATE LIMITED	U45201MH2006PTC165058
556	FURNSTUDIO TRADING PRIVATE LIMITED	U52100MH2011PTC214741
557	BBS ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED	U45203MH2013PTC250618
558	KOTESHWAR BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45400MH2010PTC206293
559	BOMBAY BOLTING CENTRE PRIVATE LIMITED	U17120MH1984PTC034798
560	GREENLIFE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U74120MH2015PTC267043
561	MEDSUTRA HEALTHCARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U52190MH2016PTC283998
562	BUDGET BEAUTY PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC244769
563	PURANBANSI HOLDINGS PRIVATE LIMITED	U67120MH1990PTC057325
564	SYNKRANE MEDICAL CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U74120MH2011PTC215750
565	PRESTIGE WRITING INSTRUMENTS PRIVATE LIMITED	U36991MH1999PTC122339
566	NEELAY TRADING PRIVATE LIMITED	U51909MH2012PTC232864
567	PRIYANK TRACOM PRIVATE LIMITED	U51909MH2012PTC233478
568	IPM SAFETY SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74999MH2014FTC251624
569	PRESTIGE WRITING TIPS PRIVATE LIMITED	U36991MH1996PTC103971
570	U S HORTICULTURE & AGROTECH PRIVATE LIMITED	U01407MH2009PTC189578
571	AYAN POWERCOM PRIVATE LIMITED	U72300MH2012PTC229373

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
572	TATTVA BIOSCIENCE PRIVATE LIMITED	U24233MH2015PTC271307
573	SARTO BESPOKE TAILORING PRIVATE LIMITED	U18204MH2012PTC233843
574	COLOURCOM GARMENT PRIVATE LIMITED	U18101MH2005PTC157307
575	GLOBUS HEALTHCARE LIMITED	U24239MH2006PLC162743
576	UDUMBARA MININGS OVERSEAS PRIVATE LIMITED	U14290MH2014PTC252225
577	SHREE BALAJI ZINCALLOYS PRIVATE LIMITED	U51420MH2005PTC152448
578	PLAY IT INTERACTIVE ONLINE PRIVATE LIMITED	U74900MH2015PTC261393
579	INDIAN FLUID SEALING PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U14295MH2008PTC178130
580	HAVIK LEASING AND FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U65920MH1996PTC096516
581	POCKET ACES ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U74120MH2014PTC254312
582	STEEL MONT INFRA PRIVATE LIMITED	U45201MH2014PTC255157
583	YOG KSHEM COMMERCE PRIVATE LIMITED	U51101MH2013PTC240216
584	SEBROS STRUCTURES PRIVATE LIMITED	U28112MH2013PTC242434
585	NRW SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74999MH2015PTC261889
586	U S POWER PRIVATE LIMITED	U40103MH2009PTC189364
587	ASHTAVINAYAK REALTORS PRIVATE LIMITED	U70200MH2007PTC167285
588	SANSUI ROSALINE AROMA COSMETICS PRIVATE LIMITED	U24297MH2013PTC246915
589	DOCTOR'S HOSPITALITIES PRIVATE LIMITED	U55101MH2009PTC193786
590	ZERON COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	U74900MH2010PTC203875
591	MAYA JEWELS PRIVATE LIMITED	U51398MH2008PTC181618
592	AURORA COMMS PRIVATE LIMITED	U74300MH2008PTC189257
593	KHATIB ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U74999MH2014PTC259007
594	TULSYAN KRISHI LIMITED	U01110MH1996PLC101734
595	PRO-WELD TRAINING CENTRE PRIVATE LIMITED	U74999MH2015PTC260892
596	C B RENEWABLE ENERGIES PRIVATE LIMITED	U40100MH2004PTC149107
597	SHREE DATTA RENEWABLE ENERGIES PRIVATE LIMITED	U40100MH2005PTC158213
598	SHRI SAPTASHRUNGA POWER PRIVATE LIMITED	U40100MH2005PTC154654
599	RITUS BIOTECH (INDIA) PRIVATE LIMITED	U24233MH2014PTC253526
600	ARISTON SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900MH2008PTC179296
601	YANG NORTH COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	U74120MH2011PTC220045
602	LEAK PROOF INVESTMENTS PVT. LTD.	U65990MH1993PTC071417
603	GILDEN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U24239MH2010PTC201318
604	SAPHALE CONSTRUCTION AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45400MH2014PTC258072
605	SAFE HANDS ELECTRODES PRIVATE LIMITED	U29253MH2013PTC240424
606	SWAN INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED	U72900MH2000PLC125149
607	ZENTECH TECHNICAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U74210MH1998PTC117446
608	SURESH CHHABRIA IMPEX PRIVATE LIMITED	U63090MH1997PTC111423
609	AGARWAL MOBITECH PRIVATE LIMITED	U74200MH2010PTC209568
610	ZEROMILE LOGISTICS AND INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED	U45209MH2008PTC188100
611	MENTORSTONE EDUCATION PRIVATE LIMITED	U74999MH2015PTC264421
612	RED OAK MALL MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U74999MH2014PTC257774
613	LOTUS LABORATORIES PRIVATE LIMITED	U25209MH1994PTC081786

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
614	SUNMUKH HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U93000MH2012PTC228705
615	FOUNTAIN CAFES PRIVATE LIMITED	U55209MH2014PTC255116
616	INDIA INFOIDEA ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED	U74900MH2016PTC273018
617	U S SPORTS PRIVATE LIMITED	U92412MH2009PTC189869
618	KAIZEN CONTROLS PRIVATE LIMITED	U29242MH2014PTC257096
619	DISHTI IMPEX PRIVATE LIMITED	U24110MH2008PTC181282
620	WALDEN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U24239MH2008PTC181362
621	SMARTGIZMO ONLINE PRIVATE LIMITED	U22300MH2006PTC163127
622	SAMUDAY INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U70102MH2011PTC215413
623	METRO ORANGE BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45209MH2013PTC249369
624	STAR MULTITIPS PRIVATE LIMITED	U24110MH1996PTC104719
625	V-TRONIX PRIVATE LIMITED	U72300MH2011PTC223354
626	MANMOHAK EDIFICE PRIVATE LIMITED	U45400MH2013PTC239218
627	GOVIND HILLS MARKETING PRIVATE LIMITED	U52599MH2007PTC168349
628	DIODON INDIA PRIVATE LIMITED	U72900MH2014PTC252503
629	SUPREMO EXIMTRADE PRIVATE LIMITED	U51109MH2010PTC208420
630	KARANDIKAR TUTIONS PRIVATE LIMITED	U80220MH1995PTC085002
631	RAINBOW IRRIGATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC236711
632	DIGITAL SCHOOL OF E-LEARNING PRIVATE LIMITED	U72900MH2013PTC242161
633	CONCINNITY CYBER SERVICES PVT. LTD.	U72900MH2008PTC188142
634	JEEVAN OORJA PRIVATE LIMITED	U40101MH2009PTC195185
635	BOMBAY WAREHOUSING COMPANY PRIVATE LIMITED	U45200MH1974PTC017569
636	TIRUPATI FILMS EXPORTERS & IMPORTERS PRIVATE LIMITED	U92100MH1974PTC017685
637	MILEAGE TRADING PRIVATE LIMITED	U74120MH2013PTC250844
638	RESURGERE INDUSTRIES LIMITED	U36100MH2011PLC214549
639	RESURGERE FERRO ALLOYS LIMITED	U27310MH2011PLC214191
640	CLARITAS RESEARCH SERVICES PRIVATE LIMITED	U74120MH2014PTC253929
641	NAIRSONS MEDICAL SERVICES LIMITED	U85110MH1994PLC081529
642	CROSSWAY REALTORS PRIVATE LIMITED	U45202MH2008PTC186220
643	COMPUTER BASED SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U30009MH1996PTC096514
644	BISKRAFT PROFESSIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U74900MH2014PTC260003
645	ROR HOSPITALITY PRIVATE LIMITED	U55101MH2015PTC262830
646	L'OLIVIER HR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74120MH2014PTC259239
647	VASTUVISION REALTORS PRIVATE LIMITED	U45200MH2008PTC187847
648	MANYA FINSERVE PRIVATE LIMITED	U67190MH2010PTC198874
649	ARKA AGRO FOODS PRIVATE LIMITED	U74120MH2016PTC273306
650	B 2 B FREIGHT AND LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U63090MH2009PTC192346
651	BLUE DOLPHIN CARWASH PRIVATE LIMITED	U50200MH2014PTC254230
652	STAVAN EXIM PRIVATE LIMITED	U51390MH2008PTC181254
653	SALEM MAGNESITE PRIVATE LIMITED	U13100MH1940PTC003201
654	SHARPRISE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U93030MH2012PTC234135
655	EXTRAAN ENERGY AND MINES PRIVATE LIMITED	U29268MH2011PTC214011

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
656	SHELL CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U45200MH2006PTC159124
657	AUGSTRAT BUSINESS CONSULTING PRIVATE LIMITED	U74900MH2015PTC261591
658	RANBAXY INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U45201MH2007PTC170517
659	VARTALI INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED	U45200MH2009PTC195853
660	SCRIBAYA MEDIA PRIVATE LIMITED	U22122MH2012PTC234460
661	VIRTUOSO SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U74999MH2015PTC267566
662	CRU PRO SAND MANUFACTURER PRIVATE LIMITED	U26990MH2017PTC295423
663	NVJ INVESTMENT SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140MH2010PTC204888
664	PRINTISLE MEDIA WORKS PRIVATE LIMITED	U22222MH2013PTC246431
665	KRIS CON ENGINEERS PRIVATE LIMITED	U45200MH1998PTC112991
666	UNO SOURCE ENGINEERING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U45200MH2002PTC137236
667	LAMBAKARNA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70100MH2012PTC237054
668	SIDDHIDHATA PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70102MH2012PTC233328
669	UMAPUTRA PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70102MH2012PTC231326
670	MAYURAJ FOODS PRIVATE LIMITED	U05004MH2012PTC238045
671	SANBORN TECHNOLOGY RESOURCES PRIVATE LIMITED	U99999MH1997PTC110748
672	EMERGING MARKETS CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED	U65923MH2012PTC229653
673	SKYLAP TRADING PRIVATE LIMITED	U74999MH2015PTC270160
674	VULTURE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45201MH2013PTC246080
675	DREAM CATCHER MOVIES PRIVATE LIMITED	U74999MH2009PTC198140
676	GPCD REALTORS PRIVATE LIMITED	U45400MH2007PTC175002
677	INTEGRATED KNOWLEDGE & INFORMATION MANAGEMENT PRIVATE LIMITEDITE	U74100MH2005PTC154917
678	VEMOT TECHNOLOGIES LIMITED	U72900MH2008PLC177996
679	THOUGHT VENTURES CONSULTANTS AND BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE	U74120MH2014PTC253018
680	J B PROP CON PRIVATE LIMITED	U45200MH2011PTC218635
681	SENSO FRAGRANCES PRIVATE LIMITED	U24244MH2009PTC189737
682	NALANDA PACKAGING PRIVATE LIMITED	U74950MH1995PTC087039
683	ONE-NINE BIZVENTURES PRIVATE LIMITED	U64204MH2015PTC262326
684	IDEALOGIC SERVICES PRIVATE LIMITED	U72300MH2011PTC216569
685	UNIDROP FARMS PRIVATE LIMITED	U01120MH2017PTC289630
686	INTELESCO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74120MH2013PTC245952
687	LAMAR MARKETING & SERVICES PRIVATE LIMITED	U52100MH2012PTC227104
688	LEG UP EDUCATION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U80904MH2016PTC273683
689	MAHESHWARI SOCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U74900MH2014PTC255759
690	SOLENOID PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U74900MH2012PTC236958
691	BHOLAS 360DEGREE WORLDEDUVISION PRIVATE LIMITED	U80903MH2015PTC269789
692	TECHNETRONIC AUTOMATION PRIVATE LIMITED	U74900MH2013PTC245269
693	DST DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH2007PTC176662
694	MEDIATORS LIAISON AND CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED	U45201MH2009PTC192167
695	TAIKO POLYTEC PRIVATE LIMITED	U25209MH2016PTC274491

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
696	SWITCHNETWORKS WEB HOSTING PRIVATE LIMITED	U72300MH2011PTC213176
697	WINDWELL SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC084608
698	GOLDENLIFE CONSUMER AND HEALTHCARE PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U36102MH2010PTC207417
699	MAV TECHNOLOGIES AND SOLUTION PRIVATE LIMITED	U72300MH2013PTC240407
700	JOHNY LEVER INVIVO MEDIA & INFRA PRIVATE LIMITED	U92142MH2008PTC180321
701	MIRALUX IMPEX PRIVATE LIMITED	U74900MH2012PTC234914
702	WAVES MUSICALS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U32303MH2000PTC129072
703	PRO9 INFOSERVICES PRIVATE LIMITED	U72900MH2015PTC266115
704	LAUGH OUT LOUD GAMES PRIVATE LIMITED	U92400MH2012PTC226590
705	OSHIAN MEDIAFILMS PRIVATE LIMITED	U74900MH2014PTC254789
706	LAURUS SYSTEMS AND SERVICES (ASIA) PRIVATE LIMITED	U72300MH2012PTC237439
707	TRINAD LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U99999MH1995PTC084879
708	NAMPRE ELECTRONICS & SECURITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74999MH2011PTC221026
709	LILAC REALTY PRIVATE LIMITED	U45200MH2008PTC182620
710	VIDARBHA COMPUTER DEALERS LIMITED	U72300MH2010PLC202962
711	VENERE REALTY PRIVATE LIMITED	U45200MH2008PTC185025
712	JAI HIND AGRO OILS PRIVATE LIMITED	U15142MH1993PTC074305
713	ADVANCED REASONING TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U74140MH1999PTC118410
714	ELEVEN STARS REAL ESTATE VENTURES PRIVATE LIMITED	U70200MH2015PTC261204
715	DIYA MERCANTILE PRIVATE LIMITED	U51109MH2009PTC193875
716	STEEL & TUBE EXPORTS LIMITED	U27106MH1982PLC027084
717	ASSETS BUILDCON PRIVATE LIMITED	U45200MH2014PTC256105
718	YAP YOGA PRIVATE LIMITED	U92412MH2013PTC245416
719	M.S. STEELS SEONI PRIVATE LIMITED	U27310MH2012PTC237103
720	VISHAY INVESTMENT PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC087803
721	BUDDHAYA LIFESTYLE PRIVATE LIMITED	U51909MH2004PTC145793
722	BLISS FOODPLAZA PRIVATE LIMITED	U55101MH2013PTC244621
723	CASINO DESIGN COMPANY (INDIA) PRIVATE LIMITED	U92200MH2008PTC182507
724	INDOGERMAN COMPETENCE ACADEMY PRIVATE LIMITED	U74120MH2015PTC269215
725	OCULUS EYE HOSPITAL PRIVATE LIMITED	U85110MH2007PTC170613
726	NOSTRUM CHEMISPHERE PRIVATE LIMITED	U24233MH2011PTC215161
727	TEAM MANAGEMENT LEGAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U93030MH2011PTC221143
728	RAYVA INTIMATEWEAR PRIVATE LIMITED	U18109MH2003PTC143027
729	UNNATTI INFRACON PRIVATE LIMITED	U45202MH2008PTC183923
730	INNOVATIVE DREAMS MULTISERVICES INDIA PRIVATE LIMITED	U52100MH2009PTC196391
731	AELIUS CONSULTING PRIVATE LIMITED	U93030MH2013PTC244764
732	THE REDWAND ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U74120MH2015PTC269076
733	PACIFICA HOSPITALITY PRIVATE LIMITED	U55100MH2004PTC149279
734	CONSULTANCY SERVICE TO STOP BRIBES AND PREVENT CORRUPTION LI	U74110MH2010PLC203329
735	KRISHNA PROPCON PRIVATE LIMITED	U74930MH2011PTC219807

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
736	PRASAM ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U72400MH1999PTC121806
737	DISCOVERNH PRIVATE LIMITED	U74999MH2016PTC288453
738	ACCESS SERVICED RESIDENCES PRIVATE LIMITED	U74999MH2014PTC251771
739	MAHANIGAM GAS FLAME SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999MH2015PTC260998
740	CREDERE ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999MH2015PTC261612
741	VARI COMMODITIES PRIVATE LIMITED	U51109MH2010PTC203667
742	ARISTA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U74900MH2010PTC200045
743	SAMNI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72501MH2013PTC250439
744	HASTIMAL MANIKCHAND RETAIL PRIVATE LIMITED	U52100MH2015PTC270481
745	PEANUT BUTTER JELLY ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999MH2015PTC266896
746	GLOBAL WORKSTATIONS INDIA PRIVATE LIMITED	U74999MH2012PTC231478
747	TECHCETRA ONLINE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74999MH2015PTC267300
748	SUPERMAX TRADERS P.LTD.	U51900MH1991PTC064243
749	AQUILA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45201MH2006PTC163461
750	ULTIMA REALTORS PRIVATE LIMITED	U70102MH2006PTC161603
751	PAKRAMA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70101MH2006PTC161618
752	NAPLES CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45201MH2006PTC163462
753	IXORA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45201MH2006PTC163270
754	SAANVI PICTURES PRIVATE LIMITED (OPC)	U93000MH2014OPC258122
755	GOTRIP INDIA PRIVATE LIMITED	U63000MH2009PTC197297
756	SPELL SOFTWARE ETHICS & TECHNOLOGY (I) PRIVATE LIMITED	U72909MH2014PTC252121
757	MANAS NATURE CURE PRIVATE LIMITED	U93090MH2009PTC193451
758	FOUR MARCOM STRATEGIES PRIVATE LIMITED	U74999MH2008PTC187602
759	RUDRAJ REALTY PRIVATE LIMITED	U70102MH2008PTC177730
760	WOODSTOCK FARMS PRIVATE LIMITED	U01100MH2005PTC156290
761	VIONA REALTORS PRIVATE LIMITED	U45201MH2006PTC163463
762	AZARA STEEL PRIVATE LIMITED	U27100MH2008PTC185900
763	URAN FARMS PRIVATE LIMITED	U01100MH2005PTC156070
764	AMBITION STOCK TRADING PRIVATE LIMITED	U74992MH2006PTC163392
765	HEALTHHOLIC HOSPITALS PRIVATE LIMITED	U85194MH2011PTC218143
766	TALESARA TEXTILES PVT. LTD.	U17100MH1989PTC051687
767	JAI BHAVANI REALTORS PRIVATE LIMITED	U45200MH2004PTC147491
768	ARUJ EXPORTS PRIVATE LIMITED	U51900MH1990PTC059457
769	INDULGENCE FOOD PRIVATE LIMITED	U15400MH2007PTC171642
770	SPURSH FILMS (OPC) PRIVATE LIMITED	U74999MH2016OPC281429
771	APEX EDUCARE PRIVATE LIMITED	U74120MH2011PTC221840
772	VANARAJA RESORTS PRIVATE LIMITED	U55204MH2014PTC258795
773	ADVANCE FRP BUILDMAT PRIVATE LIMITED	U93000MH2011PTC214613
774	INTEGRA DIGITAL SYSTEMS PVT. LTD.	U72100MH1988PTC048966
775	MED TOUR INDIA 4 HEALTH PRIVATE LIMITED	U74999MH2016PTC282116
776	KEYLINK PLACEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999MH2012PTC226169
777	L&T TRUSTEE COMPANY PRIVATE LIMITED	U74990MH2009PTC193936

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
778	M R PARIKH AND CO PVT. LTD.	U24130MH1945PTC004646
779	FEELWELL GARMENTS PRIVATE LIMITED	U18101MH2003PTC141686
780	NAVI MUMBAI YACHT CLUB PRIVATE LIMITED	U74990MH2008PTC188532
781	GRIFFIN ESTATES PRIVATE LIMITED	U45203MH2008PTC184166
782	IDIS PHARMA PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC238369
783	OZZY WEB TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72300MH2015PTC260735
784	ARIHANT BOOK INDUSTRIES PVT. LTD.	U36991MH2003PTC048406
785	KRISHNA COLD CHAIN & LOGISTIC PRIVATE LIMITED	U99999MH1987PTC044750
786	SCOPE SECURITIES INDIA PVT. LTD.	U67120MH1992PTC066115
787	PRARAMBH SAHAJEEVANACHA MATRIMONIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U74120MH2013PTC241254
788	VALOUR MERCANTILE PRIVATE LIMITED	U51909MH2010PTC209235
789	TECHNOPONS PRIVATE LIMITED	U80301MH2010PTC207604
790	PACKT PUBLISHING SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U22300MH2016PTC282731
791	THINK GREEN PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U26960MH2013PTC245926
792	BELUR FARMS PRIVATE LIMITED	U01403MH2013PTC249936
793	UNION ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC250891
794	QUADRANT OUTSOURCING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900MH2007PTC175648
795	S S MARINE OFFSHORE SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999MH2014PTC256991
796	MOHNISH MERCANTILE PRIVATE LIMITED	U51109MH2012PTC228405
797	TRUESHAPE ENGINEERS PRIVATE LIMITED	U99999MH1992PTC068304
798	NIRMEET SHEET RE-ROLLERS PRIVATE LIMITED	U27200MH1987PTC066865
799	NILAY REAL ESTATE PRIVATE LIMITED	U70102MH2011PTC220437
800	SHARDUL PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U51101MH2011PTC220392
801	INFOTECH COMMUNICATION ENTERTAINMENT (INDIA) PVT. LTD.	U92100MH1988PTC047355
802	TRILOGIS INDIA PRIVATE LIMITED	U61200MH2007PTC173558
803	UNI TRITECH (INDIA) PRIVATE LIMITED	U29253MH2013PTC251230
804	BLUE MARTINI REALTORS PRIVATE LIMITED	U74999MH2012PTC228414
805	JAKARI PORT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED.	U63040MH1997PTC110264
806	ALDEN EXIM PRIVATE LIMITED	U52100MH2013PTC239707
807	AUTOMARK OVERSEAS PRIVATE LIMITED	U74900MH2015PTC264610
808	ADAMAS REAL ESTATE PRIVATE LIMITED	U70102MH2008PTC177248
809	ZIRE TRADING PRIVATE LIMITED	U51909MH2013PTC240822
810	DEVASHISH FABTEX PRIVATE LIMITED	U17291MH2013PTC240796
811	TRIDHARA COTSPIN PRIVATE LIMITED	U17291MH2013PTC240797
812	KALPAVRIKSHA INFRACON PRIVATE LIMITED	U45200MH2011PTC216491
813	EQUES SEALS PRIVATE LIMITED	U74900MH2013PTC251101
814	PRANIK FACILITIES MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140MH2008PTC181896
815	ALLIANCE LOGISTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U63090MH2000PTC123550
816	ADITYAYAN ENERGY INDUSTRY PRIVATE LIMITED	U51420MH2008PTC179578
817	MERCURY NATURAL RESOURCES PRIVATE LIMITED	U52599MH2011PTC221455
818	KRYFS ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC231003

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
819	NB & D VENTURES PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC226023
820	HEALTHVEDA INNOVATIONS PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC235708
821	RED OCTOBER COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	U74300MH2004PTC144123
822	GOOD LUCK PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U45200MH1988PTC046268
823	SAPTASHRUNGI PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70109MH2009PTC190134
824	MANAS KRUSHI TECH PRIVATE LIMITED	U01403MH2008PTC179571
825	PILLAR ALUMINIUMS AND COPPERS LIMITED	U27203MH1988PLC049557
826	SUPERFINE MERCANTILE COMPANY PRIVATE LIMITED	U51909MH2005PTC151561
827	VIAD TRADE LINK PRIVATE LIMITED	U51909MH2006PTC159691
828	ADRYIA TRADING PRIVATE LIMITED	U74120MH2015PTC267887
829	GLOVANTAGE SHARED SERVICES PRIVATE LIMITED	U55209MH2008PTC187070
830	ESCROW TRADING PRIVATE LIMITED	U70102MH2015PTC266934
831	INTELLACHIP IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74140MH2015PTC268828
832	RIVERBACK TRADING PRIVATE LIMITED	U74120MH2015PTC267921
833	SPEEDUP CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC241276
834	PRIKARV IT PRIVATE LIMITED	U72900MH2012PTC228444
835	TURBOGREEN TRADING PRIVATE LIMITED	U74120MH2015PTC267906
836	ANANDA COMMSERV PRIVATE LIMITED	U51101MH2013PTC245781
837	FINBIZ CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74999MH2010PTC203247
838	VYCLOUD TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U74999MH2015PTC268892
839	HAARKA PRODUCTS PRIVATE LIMITED (OPC)	U74120MH2015OPC271099
840	TECHOPS FIBER PRIVATE LIMITED	U25203MH2013PTC247211
841	TECHOPS INFRATECH PRIVATE LIMITED	U45400MH2011PTC221188
842	NOVELTY FURNISHINGS PRIVATE LIMITED	U74990MH2009PTC191488
843	TECHOPS INFRAVENTURE PRIVATE LIMITED	U70102MH2014PTC253644
844	RANJIT BUILDERS PVT. LTD.	U45200MH1989PTC053579
845	NOVELTY LINEN PRIVATE LIMITED	U74990MH2009PTC191490
846	RUSHIRAJ CARGO CARRIERS PRIVATE LIMITED	U63000MH2015PTC266054
847	SAIKALPANA CORPORATE ADVISORS PRIVATE LIMITED	U74120MH2015PTC263253
848	POONAWALLA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC227136
849	CAUSE MEDIA PRIVATE LIMITED	U22210MH2014PTC257422
850	U S BIOTECH PRIVATE LIMITED	U74990MH2009PTC189357
851	RS2 CREATION PRIVATE LIMITED	U52393MH2007PTC175595
852	SUYASH FLOW TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	U51101MH2011PTC217463
853	RYNESTONE CHAIN CREATION PRIVATE LIMITED	U36911MH2007PTC175596
854	OSIRIS ADVISORY PRIVATE LIMITED	U74140MH2009PTC197280
855	SAFOIL INDIA PRIVATE LIMITED	U51101MH2012PTC230655
856	KSM RISK MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED	U67200MH2002PTC135175
857	ANJANI DWELLERS PRIVATE LIMITED	U70102MH2011PTC223633
858	PERSPECTIVE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72400MH2013PTC247804
859	ASTER VALUES PRIVATE LIMITED	U74120MH2011PTC212220
860	KOKAN BHUSHAN AGROTECH PRIVATE LIMITED	U01403MH2010PTC198267

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
861	GOURMET VIANDS RETAIL CONCEPTS PRIVATE LIMITED	U52100MH2012PTC235553
862	FILMS AND REELS PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC237704
863	ZEBA & FURQAN DESIGNERS PRIVATE LIMITED	U74999MH2012PTC231081
864	INDX LIFECARE (INDIA) PRIVATE LIMITED	U72900MH2014FTC257342
865	GRANDEUR BPO PRIVATE LIMITED	U72300MH2013PTC243232
866	BLACKCAPE DIGITAL STUDIOS PRIVATE LIMITED	U74999MH2014PTC259866
867	SEA EAGLE SHIPPING & LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U63090MH2012PTC234732
868	CAPTENCE ADVISORS PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC245682
869	USP PLACEMENTS PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC236879
870	U S LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45202MH2009PTC189849
871	DEORALIA FINANCE PVT. LTD.	U65923MH1993PTC071493
872	AXIS FABRICS PVT. LTD.	U17299MH2006PTC163255
873	PACMAN LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U63000MH2010PTC201388
874	FORT KNOX SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200MH2008PTC187642
875	DARINA TRADERS PRIVATE LIMITED	U52100MH2013PTC242861
876	DESERVE GRANDEUR PRIVATE LIMITED	U45400MH2015PTC269983
877	DESERVE RESIDENCY PRIVATE LIMITED	U45400MH2015PTC270062
878	BUILDBEES DEVELOPER PRIVATE LIMITED	U70102MH2014PTC254781
879	ECCOMNIX VENTURES PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC251039
880	NIVAN AGRICOM PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC250575
881	ONCODX LABS INDIA PRIVATE LIMITED	U85100MH2010PTC201287
882	KRIMSON HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U85100MH2011PTC221166
883	RENOVAR TECH INDIA PRIVATE LIMITED	U29238MH2014PTC252152
884	XAMIN OUTSOURCING OPC PRIVATE LIMITED	U74999MH2014OPC257638
885	JEET REKHA PLASTICS PVT. LTD.	U25200MH1987PTC044760
886	RADIOHEADS ADVERTISING AND PUBLICITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITEDIT	U74900MH2013PTC240833
887	NIRANJAN TRAILERS PRIVATE LIMITED	U34300MH2016PTC273541
888	NIRJALA MERCANTILE PRIVATE LIMITED	U51109MH2010PTC205459
889	CALCULUSTO PROGRAMMING PRIVATE LIMITED	U74900MH2016PTC273770
890	ALIF PLASTICS PRIVATE LIMITED	U25209MH1995PTC086441
891	AVENUES TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900MH2006PTC163412
892	MORAJ CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45200MH1994PTC080611
893	ANANDA GOLF PRIVATE LIMITED	U92412MH2013PTC245780
894	ANANDA HEALTHFIRST PRIVATE LIMITED	U74900MH2013PTC245772
895	SPIRIT FILMS PRIVATE LIMITED	U74120MH2007PTC166775
896	SURGE PRODUCTION FACILITIES PRIVATE LIMITED	U92100MH2008PTC179444
897	AVIRAM TECHNOCRATS PRIVATE LIMITED	U72300MH2013PTC244309
898	KRISONS FASHION JEWELERY PRIVATE LIMITED	U67120MH1996PTC096271
899	THE BATH HANGOVER PRIVATE LIMITED	U74120MH2013PTC247946
900	ATLANTA MEDICO PRIVATE LIMITED	U24231MH2006PTC161362
901	CHARISMA INFRA PROJECTS (I) PRIVATE LIMITED	U45400MH2009PTC197318

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
902	RATIONAL VISION SOFTWARE SERVICE PRIVATE LIMITED	U72900MH2001PTC133005
903	FUTURECOM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72300MH2010PTC209724
904	ITL AQUAIR SHIPPING AND FORWARDING PRIVATE LIMITED	U63000MH2011PTC213257
905	PRAGYA SECURITY AND FACILITY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74900MH2015PTC264172
906	FISCAL DEVELOPMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U74140MH2010PTC210565
907	CLINILINKS HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U73100MH2011PTC225276
908	INGUS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70100MH2010PTC202284
909	CANMORE EXPORTS P LTD	U51900MH1993PTC075348
910	SHRI SUMATI EQUITYSERVICES PRIVATE LIMITED	U65910MH1991PTC062969
911	YELLOW MONKEY STUDIOS PRIVATE LIMITED	U92120MH2007PTC172435
912	SEVITWAM SYSTEMS & SOFTWARES PRIVATE LIMITED	U52100MH2013PTC239934
913	SILVER-LINE REALCON PRIVATE LIMITED	U45400MH2013PTC243951
914	WHITEWOOD CONTRACTORS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U99999MH1996PTC101070
915	CORDIAL ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74900MH2009PTC197925
916	AUSTERE ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140MH2009PTC197231
917	RELIABLE ROPE MANUFACTURING COMPANY PRIVATE LIMITED	U31300MH1985PTC036564
918	GROWELL DALMIA INDIA COMMODITIES PRIVATE LIMITED	U51909MH2011PTC220334
919	METRO TV PRIVATE LIMITED	U74990MH2010PTC210623
920	FLEXI STAFFING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74910MH2006PTC161303
921	SHREE GAJANAN FINANCE & INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U74999MH2012PTC230567
922	SOURCECODE INDIA PRIVATE LIMITED	U72900MH2001PTC132068
923	EHDD DESIGN INDIA PRIVATE LIMITED	U74120MH2012FTC238217
924	BLESSING SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC238487
925	OMEOPAPER PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC250060
926	ADITI ESSENCES PRIVATE LIMITED	U24235MH2001PTC132102
927	UFORIA VENTURES (OPC) PRIVATE LIMITED	U74999MH2016OPC288418
928	TELEMEDIA SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U31908MH2008PTC181126
929	SHASHWATI CAPITAL MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U67190MH2014PTC255996
930	REALTY RADAR SOFTWARES PRIVATE LIMITED	U72300MH2012PTC231128
931	SHUBHAM ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U74120MH2011PTC222810
932	G H KHATRI AND COMPANY PRIVATE LIMITED	U45200MH1991PTC064290
933	A3 PRODUCTS & SERVICES PRIVATE LIMITED	U74120MH2014PTC251661
934	SOORYA INFRA PRODUCTS LIMITED	U20296MH2011PLC216319
935	VENUS ASSAYING AND METALS TRADING PRIVATE LIMITED	U51398MH2004PTC148132
936	HELVETINDIA IMPORT PRIVATE LIMITED	U74120MH2013PTC241760
937	AVAGAM CONSULTING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74900MH2010PTC203980
938	SHANTADURGA PRINTERS PVT. LTD.	U22219MH1986PTC038976
939	FAT MAMA FILMS PRIVATE LIMITED	U92100MH2010PTC201335
940	TULI POWER PRIVATE LIMITED	U40103MH2009PTC195531
941	TRIVIKRAMA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900MH2007PTC176672
942	ARSHA FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74140MH2008PTC183762
943	VIDYASAGAR ONLINE PRIVATE LIMITED	U72900MH2000PTC126080

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
944	MANAN HR PRIVATE LIMITED	U93030MH2012PTC227443
945	AVENSYS CORPSERV INDIA PRIVATE LIMITED	U74900MH2012PTC237446
946	QUICKSOFT TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U72900MH2002PTC136061
947	R Z MALPANI INFRA DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED	U45202MH2010PTC210196
948	MAIL.COM MEDIA SERVICES PRIVATE LIMITED	U72900MH2008PTC178442
949	AEGIS GLOBAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999MH2016FTC274021
950	VATSA NUTRAHEALTH PRIVATE LIMITED	U85191MH2011PTC215312
951	INTIMACY EXIM PRIVATE LIMITED	U52599MH2012PTC235062
952	SPASIBO IMPEX PRIVATE LIMITED	U52392MH2012PTC233861
953	ARCADE EXIM PRIVATE LIMITED	U52100MH2012PTC232931
954	GLEAMIO TRADING PRIVATE LIMITED	U52100MH2012PTC233028
955	ANBRO FOODS PRIVATE LIMITED	U74999MH1994PTC081577
956	DEEPJYOTI PLASTICS PRIVATE LIMITED	U25200MH1990PTC058922
957	NUTRITION FOODS PRIVATE LIMITED	U55209MH2007PTC174916
958	DESTINATION ANDAMAN PRIVATE LIMITED	U63090MH2012PTC230013
959	RUDRAKSHA HEALING THERAPY PRIVATE LIMITED	U74900MH2011PTC215775
960	REX R GIS PHARMA PRIVATE LIMITED	U85300MH2016PTC274170
961	KSM IMPEX PRIVATE LIMITED	U51909MH2005PTC152753
962	TRILLION DOLLAR WEALTH MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED	U65990MH2009PTC190264
963	CHOWRIYA MOVERS AND PACKERS PRIVATE LIMITED	U63090MH2010PTC208726
964	SAINATH INSECTISIDES PRIVATE LIMITED	U31100MH1990PTC059121
965	IMAGE DIGITAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U72900MH2008PTC181231
966	BIMTECH INNOVATIVE INFRASTRUCTURE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74120MH2011PTC217645
967	FAUZ ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U74900MH2012PTC228726
968	INTEGRATED COHESIVE SERVICES PRIVATE LIMITED	U74900MH2009PTC197874
969	SUMKIT IMPORT & EXPORT PRIVATE LIMITED	U51101MH2012PTC235973
970	PANZARA DAIRY AND AGRO PRODUCER COMPANY LIMITED	U01403MH2010PTC211177
971	CASTLE PEAK PICTURES PRIVATE LIMITED	U92140MH2002PTC136953
972	VIKALP ISPAT PRIVATE LIMITED	U51101MH2011PTC218466
973	AUM GOOD FRIENDS ENTERPRISE PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC240802
974	DIGILIFE IMAGING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74900MH2012PTC233305
975	TEAMFUND PRIVATE LIMITED	U74999MH2016PTC280977
976	MAXIMUS EQUIPMENT SERVICES PRIVATE LIMITED	U51500MH2004PTC144289
977	EPAYRO PRIVATE LIMITED	U74999MH2016PTC280440
978	N AND T CONSULTANCY SERVICE PRIVATE LIMITED	U67120MH2001PTC130680
979	FORTH DIMENSIONS IMPEX PRIVATE LIMITED	U72900MH2008PTC182655
980	ROBOSOFT SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U72300MH2013PTC241396
981	CASTLE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U85100MH2010PTC198517
982	XGEO SOLUTION PROVIDERS PRIVATE LIMITED	U74900MH2009PTC192007
983	ONLY SOLUTNZ INDIA PRIVATE LIMITED	U74910MH2005PTC156550
984	SHALINI VINAYAK REAL ESTATE PRIVATE LIMITED	U70102MH2008PTC181466

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
985	PROCIRCLE OUTDOOR MEDIA PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC241197
986	SHWET KANCHAN AGRO PRIVATE LIMITED	U01211MH2001PTC131897
987	PHARMATECH ENGINEERING COMPANY (MFG.) PRIVATE LIMITED	U29253MH2013PTC250437
988	JAMIA SOFTWARES PRIVATE LIMITED	U72900MH2009PTC195831
989	SYNERGETICS INSIGHTS PRIVATE LIMITED	U74900MH2016PTC273936
990	SHAILEE S EXPORTS (INDIA) PVT. LTD.	U51900MH1991PTC064609
991	NADKARNI TRAVELS PRIVATE LIMITED	U63040MH2003PTC139211
992	LA CONTESA JEWELS PRIVATE LIMITED	U51398MH2011PTC220983
993	UPRISING REALTORS PRIVATE LIMITED	U45400MH2013PTC243142
994	ORIENT BUILD VENTURES PRIVATE LIMITED	U45400MH2011PTC221071
995	CLEAR INTENTIONS IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900MH2008PTC188104
996	RAJESH SPICES PVT. LTD.	U15495MH1985PTC038012
997	APPU ENGINEERING & MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED	U65920MH1998PTC116925
998	ARISE CONSULTING PRIVATE LIMITED	U72200MH2008PTC182197
999	SINGLE WINDOW MANAGEMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74120MH2008PTC182340
1000	AMRAPALI APPLIANCES PRIVATE LIMITED	U25200MH1997PTC109597
1001	UNIQUE FRAGRANCE PVT. LTD.	U24300MH1986PTC041538
1002	QUALITY SYSTEM GROUP (INDIA) PRIVATE LIMITED	U51900MH1992PTC068530
1003	STAR ASIA ENGINEERING & SERVICES PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC235529
1004	KOTAK CONSULTING PRIVATE LIMITED	U74140MH2002PTC137989
1005	CELEBIT TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	U30007MH2001PTC134224
1006	360 DEGREES WAREHOUSING AND LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U63000MH2013PTC239525
1007	KULKARNI RESORTS & HOTELS PRIVATE LIMITED	U55204MH2010PTC207248
1008	SGI ENERGY PRIVATE LIMITED	U40300MH2013PTC249799
1009	ROBOFAN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900MH2016PTC284202
1010	MARVEL HOLIDAYS INDIA PRIVATE LIMITED	U93030MH2013PTC243320
1011	APOLLO EXPLOCHEM PRIVATE LIMITED	U24100MH2009PTC190377
1012	CRYSOL FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U74990MH2009PTC195455
1013	JAIN HOSPITALS PRIVATE LIMITED	U85110MH1990PTC057889
1014	REAL SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U93090MH2009PTC193125
1015	PRINCE CONTRACTOR PRIVATE LIMITED	U45202MH2010PTC204128
1016	CEL TECH THERAPEUTICS PRIVATE LIMITED	U33111MH2012PTC238524
1017	ENEN ENVIRONMENT AND ENERGY PRIVATE LIMITED	U90000MH2010PTC208591
1018	COLOUR SHADE PRIVATE LIMITED	U22100MH1961PTC012230
1019	KILJIT INVESTMENTS PVT. LTD.	U67120MH1991PTC063407
1020	SHASHWATI PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70109MH2010PTC203277
1021	ORA TECH CONSULTING PRIVATE LIMITED	U72300MH2012PTC236004
1022	POLAAD STEEL AND POWER PRIVATE LIMITED	U27101MH2009PTC195100
1023	RAHOFIT HEALTH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U85100MH2015PTC265324
1024	DEN CHANNEL III CABLE NETWORKS PRIVATE LIMITED	U80300MH1999PTC120659
1025	CAPITAL ONE WEALTH MANAGERS INDIA PRIVATE LIMITED	U74999MH2015PTC268547
1026	MUMBA FACILITY AND REALTY PRIVATE LIMITED	U74120MH2013PTC240065

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
1027	PRECIOUS OIL PRODUCTS PVT. LTD.	U15140MH1987PTC043672
1028	SATGURU DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH1988PTC047158
1029	SHRI JAGANNATH METALLURGICAL COAL AND COKE PRIVATE LIMITED	U13100MH2005PTC152079
1030	SORRENTO VISIONZ PRIVATE LIMITED	U45400MH2012PTC231324
1031	BIOLOGIX LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC244804
1032	INDRADHANU MERCANTILE PRIVATE LIMITED	U51109MH2010PTC204881
1033	POISE MERCANTILE PRIVATE LIMITED	U51109MH2010PTC205460
1034	RADIUS SHIPPING AGENCY PRIVATE LIMITED	U74999MH2017PTC292031
1035	UDDHAR TRADING PRIVATE LIMITED	U51109MH2010PTC204920
1036	TRIDENT LOGISTICS AND TRANSPORT PRIVATE LIMITED	U60200MH2013PTC250606
1037	PRIVIA REALTORS PRIVATE LIMITED	U45400MH2013PTC239297
1038	FOODINDEX CUISINE PRIVATE LIMITED	U55204MH2013PTC240368
1039	IRA ANALYTIC PRIVATE LIMITED	U41000MH2015PTC269934
1040	NORTH ARROW TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	U73100MH2011PTC218652
1041	CLINICAL MEDICINE INFOMATICS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74999MH2007PTC169131
1042	CXI DESIGN PRIVATE LIMITED	U72200MH2007PTC172991
1043	URJITA MERCANTILE PRIVATE LIMITED	U51909MH2011PTC217081
1044	DEVCOM ABTECH PRIVATE LIMITED	U24297MH2010PTC202136
1045	CARPE-BEND JOINTS PRIVATE LIMITED	U74120MH2014PTC259856
1046	GREEN APPLE CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED	U93000MH2010PTC207743
1047	REPHARM HEALTHCARE INDIA PRIVATE LIMITED	U33110MH2012PTC235132
1048	ROOT WINGS METALLICS PRIVATE LIMITED	U74999MH2015PTC260893
1049	CORPORATE OPTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74120MH2011PTC222723
1050	PROGRESSIVE LABORATORIES PRIVATE LIMITED	U74900MH2012PTC237434
1051	SHOURYA POWER PRIVATE LIMITED	U40101MH2010PTC201084
1052	SANJEEVANI ARC PRIVATE LIMITED	U74120MH2010PTC208472
1053	PSYOP MEDIA COMPANY (INDIA) PRIVATE LIMITED	U92412MH2012PTC233753
1054	CHRONE ADVISORY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200MH2008PTC187938
1055	COOPERS AND LYBRAND PRIVATE LIMITED	U67190MH1990PTC055285
1056	ZEUS ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U74999MH2011PTC224156
1057	ISCO TRADING INDIA PRIVATE LIMITED	U51101MH2014PTC254201
1058	CLOUDNINE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45200MH1995PTC088424
1059	SNAR VENTURES PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC244836
1060	CHIDAMBARA AIRLINES PRIVATE LIMITED	U62100MH2011PTC215389
1061	PYOSHNI AGRO PRIVATE LIMITED	U01403MH2008PTC185056
1062	VELOCITY BUSINESS FACILITATION SERVICES PRIVATE LIMITED	U74120MH2015PTC268261
1063	SARTH PHARMA INDIA PRIVATE LIMITED	U74999MH2012PTC229469
1064	TAYAL SILK MILLS PVT. LTD.	U17200MH1981PTC025403
1065	KALAKRUTI APPARELS PRIVATE LIMITED	U18101MH2002PTC137674
1066	YASHMANN ENTERPRISE PRIVATE LIMITED	U17291MH2012PTC231992
1067	RAMAKRISHNA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U74900MH2012PTC232834

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
1068	AUXIN CAPITAL MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U74999MH2014PTC254775
1069	AMBIENT HVAC PRIVATE LIMITED	U29253MH2014PTC251850
1070	ANANT BIO ORGANICS LIMITED	U24100MH1994PLC082574
1071	BPR ADVISORY PRIVATE LIMITED	U74140MH2010PTC203763
1072	PLATINUM INDUSTRIAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U51496MH2007PTC171417
1073	NISHIMORA LEISURE CONCEPTS PRIVATE LIMITED	U55101MH1995PTC091847
1074	COMPUTWEL SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U30007MH1982PTC026155
1075	ADISHWAR FABRICS PVT. LTD.	U17120MH1987PTC042565
1076	PSS PROPERTY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999MH2016PTC273462
1077	USS SHIPPING AND AGENCY PRIVATE LIMITED	U74999MH2016PTC281954
1078	DEVLA SALTS PRIVATE LIMITED	U72100MH2000PTC125638
1079	MICROROOT POC TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	U72200MH2009PTC195996
1080	PARA YOUTOPIA PRIVATE LIMITED (OPC)	U74140MH2015OPC266470
1081	ADI ETHIQUE PRIVATE LIMITED	U74210MH2005PTC154328
1082	MIDLAND MOVERS PRIVATE LIMITED	U60300MH1990PTC058365
1083	AREN ORGANICS PVT. LTD.	U51900MH1985PTC036467
1084	PALATUA FARMS PRIVATE LIMITED	U01403MH2007PTC176654
1085	VERPLACA FARMS PRIVATE LIMITED	U01403MH2007PTC176656
1086	USS CLEARING & FORWARDING INDIA PRIVATE LIMITED	U74999MH2016PTC283158
1087	IT'S A DATE EVENTS PRIVATE LIMITED	U74999MH2015PTC262023
1088	VIJAY KIRAN SOLAR POWER PRIVATE LIMITED	U40106MH2011PTC217740
1089	INDIAN RECORDING & REPRODUCTION RIGHTS COMPANY LIMITED	U74900MH2007PLC171315
1090	ON2ALL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U93090MH2016PTC272207
1091	SHUKUYA CONCIERGE INDIA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74120MH2014PTC252445
1092	SHITALATA ESTATE PRIVATE LIMITED	U70101MH1988PTC047235
1093	REVOVISION CONSULTING PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC237460
1094	OPPDOT SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999MH2015PTC269297
1095	SARASSU ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U74210MH1994PTC081171
1096	ALPHA RETURN ADVISORS PRIVATE LIMITED	U74999MH2012PTC232506
1097	SONI STUDIOS PRIVATE LIMITED	U74900MH2010PTC202060
1098	HERAMB DIAMOND TOOLS PRIVATE LIMITED	U29292MH2013PTC239645
1099	NANCY TRANSLATION SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999MH2016PTC287190
1100	APARAJITA FARMING PRIVATE LIMITED	U01400MH2012PTC236592
1101	ASIM FARMING PRIVATE LIMITED	U01403MH2012PTC236740
1102	VISHAD HOLDINGS PVT. LTD.	U65990MH1991PTC063565
1103	JEKEGRAM REALTY LIMITED	U70102MH2010PLC202294
1104	BISHEN FARMING PRIVATE LIMITED	U01403MH2012PTC236595
1105	PATEL TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED	U63040MH2005PTC157423
1106	TALKABOUT FILMS PRIVATE LIMITED	U74999MH2015PTC265008
1107	COMPUFY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200MH2016PTC273476
1108	ORANGE CITY TOWNSHIP ERECTORS INDIA PRIVATE LIMITED	U45400MH2013PTC240931

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
1109	DREAMZ THERMOFORMER PRIVATE LIMITED	U25209MH2011PTC224262
1110	DANA MOTORS PRIVATE LIMITED	U34101MH2008PTC188660
1111	SKYWORTH REALTY PRIVATE LIMITED	U45400MH2015PTC265645
1112	RMS PREMISES PRIVATE LIMITED	U74900MH2016PTC272789
1113	JUMBO GALVANISERS PRIVATE LIMITED	U27320MH2008PTC183598
1114	BVU MEDIA PRIVATE LIMITED	U93090MH2009PTC197139
1115	PICCOLO FILMS PRIVATE LIMITED	U22222MH2013PTC243509
1116	ARUNDHATI FARMING PRIVATE LIMITED	U01403MH2012PTC236697
1117	BRIJESH FARMING PRIVATE LIMITED	U01403MH2012PTC236722
1118	SMV TRADING PRIVATE LIMITED	U51909MH2012PTC236364
1119	RSF CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45201MH2013PTC241522
1120	BRAMHA AGRO FOOD PROCESSORS LIMITED	U01110MH1994PLC078094
1121	LEGEND INVESTOR SERVICES AND DATABASE PRIVATE LIMITED	U65990MH1995PTC095200
1122	MERCURE LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED	U85100MH2010PTC202070
1123	GUROME EDUCATIONAL AND CAREER SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED	U80301MH2008PTC184096
1124	GREAT MARATHA MANPOWER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74910MH2009PTC189600
1125	MUN INFRA COMPANY PRIVATE LIMITED	U45202MH2010PTC210630
1126	DIVINE INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED	U67120MH2007PTC167665
1127	PRIME SOLPOWER PRIVATE LIMITED	U40106MH2015PTC263216
1128	KAMLESH ALLOYS PRIVATE LIMITED	U51900MH2000PTC125505
1129	PIXON TRADING AND MERCANTILE PRIVATE LIMITED	U51101MH2011PTC215852
1130	COMPONERE SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U35900MH2016PTC274304
1131	TEMPEST FILMS PRIVATE LIMITED	U92110MH1991PTC063416
1132	SAI DHAM HOSPITALITY PRIVATE LIMITED	U55101MH2011PTC212328
1133	SAI KRUPA MULTI VENTURE TRADING PRIVATE LIMITED	U51101MH2016PTC272222
1134	LANDERT HMTD (INDIA) PRIVATE LIMITED	U28920MH2000PTC128352
1135	GREEN ZONE AUTO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U50500MH2004PTC144406
1136	ROOKIE LEGENDS PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC236016
1137	ANC INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72900MH2017PTC293118
1138	SAAHU EYE CARE PRIVATE LIMITED	U85190MH2012PTC226974
1139	GRAVIT ENGINEERING WORKS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74210MH2003PTC141889
1140	WATSON FITNESS PRIVATE LIMITED	U74900MH2010PTC207877
1141	ARI FILMS PRIVATE LIMITED	U93000MH2011PTC212877
1142	PRATA HIES MANUFACTURING PRIVATE LIMITED	U74900MH2013PTC240705
1143	ASIF & SAJID SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999MH2014PTC258401
1144	ACEX LOGISTICS LIMITED	U74999MH2011PLC218842
1145	TOPWORTH AIRWAYS PRIVATE LIMITED	U62200MH2010PTC199116
1146	TOPWORTH PETROLEUM PRIVATE LIMITED	U11200MH2009PTC190088
1147	ZONE ERECTIONS PRIVATE LIMITED	U70102MH2013PTC241166
1148	FLORA AVENUE RESIDENCY PRIVATE LIMITED	U93030MH2011PTC221024
1149	WAFFLEONWHEELS FASTFOODS PRIVATE LIMITED	U74999MH2016PTC285650

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
1150	KRIPASOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200MH2006PTC158893
1151	CWT DISTRI PARK ONE (INDIA) PRIVATE LIMITED	U63020MH2007PTC176894
1152	AMONRA FABRIKEN PRIVATE LIMITED	U28113MH2010PTC198701
1153	CHITALE CONSULTING PRIVATE LIMITED	U74140MH2010PTC208085
1154	OMAN AGENCIES PRIVATE LIMITED	U63090MH2010PTC198703
1155	MPOWER PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U45400MH2013PTC246008
1156	PROGRADE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC246734
1157	POTENTIAL MANUFACTURING AND TRADING PRIVATE LIMITED	U74900MH2011PTC216169
1158	VISON MANPOWER CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U74900MH2009PTC195748
1159	LEXCON GLOBAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U74900MH2013PTC249493
1160	DHARSONS SHARESHOPPE PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC084762
1161	DAKSH INFRASTRUCTURE & DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED	U45200MH2007PTC174910
1162	JALARAM FOOD AND BEVERAGES PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC238256
1163	CAVIM FOODS PRIVATE LIMITED	U55101MH2013PTC246567
1164	TOPWORTH METALS & ENERGY PRIVATE LIMITED	U14200MH2008PTC182964
1165	WAVES CAREER FORUM PRIVATE LIMITED	U74990MH2009PTC189431
1166	LUCKY DIAMONDS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U36911MH2012PTC235624
1167	KAPADIA DISTRIBUTION SERVICES PRIVATE LIMITED	U74120MH2011PTC223072
1168	UBRIS DESIGNS PRIVATE LIMITED	U74990MH2010PTC207045
1169	PRATYUSH SPINNERS AND WEAVERS PRIVATE LIMITED	U17210MH2010PTC200671
1170	QUANTUM RE-DEVELOPMENT AND INFRASTRUCTURE PROJECTS PRIVATE L	U45205MH2014PTC258484
1171	C AND A REAL ESTATE PRIVATE LIMITED	U70100MH1999PTC118097
1172	KANAGHA BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45202MH2011PTC216355
1173	VZON INDIA ENTREPRENEUR PRIVATE LIMITED	U74999MH2011PTC221499
1174	MKS MEGA FOOD PARK PRIVATE LIMITED	U74999MH2016PTC286596
1175	MKS ESTABLISHMENT PRIVATE LIMITED	U25199MH2014PTC254256
1176	POLAR DESKING INDIA PRIVATE LIMITED	U36990MH2016PTC280909
1177	AMAL ESTATE PRIVATE LIMITED	U70102MH2013PTC247866
1178	PETROTECH ENTERPRISES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U29219MH2006PTC163767
1179	BASKIN ROBBINS INDIA PRIVATE LIMITED	U15205MH1995PTC089410
1180	COMFORT FOODS PRIVATE LIMITED	U55101MH2012PTC236683
1181	SAI SADCIDANAND TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC238717
1182	SPIRALSTONE REAL ESTATE PRIVATE LIMITED	U70100MH2011PTC220194
1183	VIJAYNANA AGRO TECHNOLOGIST PRIVATE LIMITED	U01403MH2013PTC247267
1184	ULTROVA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED	U70102MH2011PTC218449
1185	MAXSHARE DISTRIBUTION PRIVATE LIMITED	U92490MH2006PTC163771
1186	VIBRANT GLOBAL HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED	U65990MH2014PTC256555
1187	BOMBAY VYAPAR PRIVATE LIMITED	U51909MH2005PTC156602
1188	CLICK TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74210MH2000PTC128173
1189	AMOUR RETAIL INDIA PRIVATE LIMITED	U52100MH2013PTC246721
1190	SPINDLELOGIC STORAGE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900MH2010PTC203237

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
1191	PHOENIX MULTIVENTURES PRIVATE LIMITED	U74999MH2015PTC260922
1192	SUMAN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45201MH2004PTC145220
1193	NAVNEET INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U74900MH2014PTC256405
1194	COMPLETE STEEL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U74999MH2016PTC271853
1195	CHIDAMBARA STEEL AND POWER LIMITED	U27101MH2004PLC148952
1196	AKKA ADVISORS PRIVATE LIMITED	U74900MH2010PTC205402
1197	PHIROBOTICS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC226557
1198	SUKHWANI BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45200MH1992PTC068104
1199	ABHISHRI GLOBAL EDUVENTURES PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC243912
1200	SHEA CREATION PRIVATE LIMITED	U74990MH2009PTC195145
1201	KOSHER ADVISORY PRIVATE LIMITED	U74900MH2016PTC273365
1202	DEEPTI INFRA MARKETING PRIVATE LIMITED	U70102MH2015PTC264513
1203	MACKNRINK WORLDWIDE ENTERTAINMENT NETWORKS PRIVATE LIMITED	U92190MH2016PTC288115
1204	STORECASA LIVING PRIVATE LIMITED	U52330MH2010PTC200236
1205	SAHAKAR CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U45200MH1998PTC113686
1206	MEHRA REALTORS PRIVATE LIMITED	U70102MH2009PTC197616
1207	EXPONENTIA CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED	U93090MH2010PTC208865
1208	AIE SERVICES PRIVATE LIMITED	U72200MH2016PTC281588
1209	MECKLAI AND MECKLAL FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74120MH1982PTC026061
1210	ADVAYAM TRADING CORPORATION PRIVATE LIMITED	U74900MH1999PTC120672
1211	ELIGETTY ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U15549MH2017PTC289808
1212	OPULENCE BEDDING AND LINEN PRIVATE LIMITED	U17121MH2008PTC200614
1213	RS EMPIRE BUILDCON PRIVATE LIMITED	U70109MH2014PTC259818
1214	BHAKTI PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70100MH1995PTC089025
1215	WALFARM FOODS PRIVATE LIMITED	U74999MH2014PTC255034
1216	ANUJ TEXLINKS PRIVATE LIMITED	U17220MH2005PTC155216
1217	QUALITY WISE ENHANCED RESEARCH IN TECHNOLOGY LABS PRIVATE LI	U74990MH2010PTC208384
1218	JUNRICK INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC226258
1219	EMS POWER PRIVATE LIMITED	U74120MH2013PTC242452
1220	OUT 4SPORTS PRIVATE LIMITED	U92412MH2009PTC195616
1221	GUIDING STAR GLOBAL EDUCATION SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74140MH2011PTC220872
1222	AREAXIS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72300MH2012PTC236066
1223	ONCLICK INFORMATION SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999MH2014PTC257575
1224	CRESCENDO SECURITIES PRIVATE LIMITED	U65999MH2010PTC208628
1225	ADM ENERGY PRIVATE LIMITED	U40108MH2010PTC202320
1226	ADM INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72300MH2010PTC208286
1227	ADM NATURAL RESOURCES PRIVATE LIMITED	U14290MH2010PTC208494
1228	CELLO SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED	U93090MH2009PTC191367
1229	HARNE BEACH PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U45400MH2013PTC240191

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
1230	SHREENAMANH MARKETING PRIVATE LIMITED	U67110MH2006PTC161233
1231	PLANET MAXIMA MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999MH2004PTC146570
1232	SHANTANU SHEOREY AND ASSOCIATES PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED	U22110MH1990PTC056253
1233	SHANTANU SHEOREY PHOTOGRAPHY AND DESIGN PVT. LTD.	U44953MH1987PTC044953
1234	AUGUST BIOCHEM PRIVATE LIMITED	U24233MH2010PTC204481
1235	MY FAIR DEALS INDIA PRIVATE LIMITED	U74120MH2015PTC266144
1236	URJA LUBRICHEM PRIVATE LIMITED	U74999MH2011PTC214100
1237	ONE STOP AUTO SERVICES PRIVATE LIMITED	U63090MH2010PTC204463
1238	BABAJI SHIVRAM GLOBAL SUPPLY BASE PRIVATE LIMITED	U63090MH2016PTC280952
1239	MONEY FORT FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U67190MH2012PTC235822
1240	CHITRALEKHA PRINTERS & PUBLISHERS PRIVATE LIMITED	U99999MH1986PTC039534
1241	NULIFE MEDIPLUS PRIVATE LIMITED	U25199MH2002PTC134875
1242	PAWAN NETWORK INDIA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U74999MH2015PTC266753
1243	UX TRAVELS PRIVATE LIMITED	U74990MH2009PTC194043
1244	TRANSCEND CLEARING & FORWARDING PRIVATE LIMITED	U63090MH2012PTC228502
1245	JSI WELD EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED	U29253MH2014PTC254663
1246	THE JUMPING BOX COMPUSERVE PRIVATE LIMITED	U74120MH2013PTC247736
1247	LACHURE INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45400MH2014PTC254797
1248	ESKIMO FOODS PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC225695
1249	SUPREME FUELTECH PRIVATE LIMITED	U23200MH2011PTC224731
1250	RAMSAN POWER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U74900MH2012PTC227318
1251	DEFINING SPACES REALTY CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74120MH2010PTC203826
1252	GOOD EARTH REMEDIES LIMITED	U24239MH2006PLC163289
1253	KENMARK INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED	U51101MH2013PTC241226
1254	MORGAN LOGISTICS INDIA PRIVATE LIMITED	U74900MH2012PTC236360
1255	MINT CAPITAL MARKETS PRIVATE LIMITED	U67190MH2007PTC175760
1256	VIYASU HOTELS PRIVATE LIMITED	U55100MH2001PTC132825
1257	RFU MUSIC FOUNDATION PRIVATE LIMITED	U92140MH2009PTC197101
1258	SAI - ASHISH LOGISTICS AND MANAGEMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74120MH2013PTC241318
1259	LIVING EDGE ESTATES PRIVATE LIMITED	U45400MH2013PTC245949
1260	TECHSAMURAI ONLINE PRIVATE LIMITED	U72300MH2015PTC267488
1261	DREAM INFRA AND PROJECTS PRIVATE LIMITED	U45400MH2011PTC213246
1262	TECHNONET TECHNOLOGIES LIMITED	U72900MH2000PLC124944
1263	TANISHQ PAANI PRIVATE LIMITED	U15137MH2014PTC253548
1264	ABHYU CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74140MH2007PTC175276
1265	EQVILITE ASSET SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U71210MH2013PTC249931
1266	BACILLUS TRADING PRIVATE LIMITED	U74900MH2011PTC213776
1267	IDEAL ART PRIVATE LIMITED	U74999MH2007PTC167875
1268	ARTHA-MATRIX SECURITIES PRIVATE LIMITED	U65999MH2009PTC194011
1269	ALMOND WELLNESS TECH PRIVATE LIMITED	U72200MH2014PTC252533
1270	FEAT INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED	U74900MH2007PTC171302

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
1271	JUST FOR YOU SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999MH2014PTC257615
1272	MINONIM VENTURES PRIVATE LIMITED	U52100MH2014PTC259517
1273	STUNNED TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U51909MH2015PTC266925
1274	ALKAUTHAR EDUCATION INDIA PRIVATE LIMITED	U80903MH2008PTC183603
1275	IDAFA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U65990MH1996PTC096822
1276	ESSKAY CONSULTANCY & SERVICES PRIVATE LIMITED	U93090MH2008PTC182597
1277	PRASHAM REALTORS PRIVATE LIMITED	U70100MH2005PTC152541
1278	V. S. AGRAWAL AGRO PRIVATE LIMITED	U01110MH2014PTC254784
1279	SHAREURJOY INNOVATIONS PRIVATE LIMITED	U52399MH2013PTC245830
1280	NEWEDGE MARKETING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U51909MH2012PTC233370
1281	OPEN DOOR FILMS PRIVATE LIMITED	U92100MH2006PTC161202
1282	THANJAVOOR MERCANTILE PRIVATE LIMITED	U27310MH2013PTC240462
1283	INVEST @ MAGUS FINANCIAL PRIVATE LIMITED	U65990MH2009PTC194225
1284	VESTGUARD SECURITY INDIA PRIVATE LIMITED	U28995MH2016PTC284440
1285	VILLA SORENTO DEVELOPERS AND TRADERS PRIVATE LIMITED	U45200MH2004PTC146240
1286	MARGARETA STOCK BROKING PRIVATE LIMITED	U67120MH2000PTC125324
1287	WORLD AIR SERVICES PRIVATE LIMITED	U63040MH1996PTC101051
1288	FILMS 2 FESTIVALS PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC230346
1289	JUSTLEGAL CORPORATE ADVISORS PRIVATE LIMITED	U74140MH2009PTC189399
1290	JENVIN PROJECTS PRIVATE LIMITED	U70102MH2010PTC207391
1291	CRIMSON VORTEX PRIVATE LIMITED	U74900MH2008PTC177527
1292	WEBSOL SOFTWARE PRIVATE LIMITED	U72200MH2008PTC184698
1293	PHAROS ADVISORS PRIVATE LIMITED	U67120MH1994PTC082197
1294	CLEANFLO ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U27209MH2016PTC279972
1295	DORUS BUSINESS PROMOTION PRIVATE LIMITED	U74999MH2016PTC283438
1296	INDIAN SCHOOL FOOTBALL LEAGUE PRIVATE LIMITED	U74999MH2014PTC257557
1297	RITU PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70102MH2009PTC190857
1298	INSTRUMENTAL SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED	U72900MH2007PTC176312
1299	STAPPU ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED	U74120MH2016PTC271817
1300	OBELISK TELE SERVICES PRIVATE LIMITED	U74300MH2008PTC177987
1301	EMPLOYERS' CLUB PRIVATE LIMITED	U72300MH2013PTC248732
1302	KOHINOOR GRAPHICS PRIVATE LIMITED	U22222MH2014PTC252389
1303	WATERLINE TRADERS P.LTD.	U51900MH1991PTC064242
1304	RAINMAN TRADERS P.LTD.	U51900MH1991PTC064244
1305	VHN DIAMONDS PRIVATE LIMITED	U36911MH2010PTC203954
1306	IFRS ADVISORS PRIVATE LIMITED	U74999MH2014PTC253878
1307	CAREER DEFINERS PRIVATE LIMITED	U74999MH2014PTC251634
1308	SPECIALITY DISPLAYS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U25200MH2002PTC134716
1309	SEVEN INFOCOMM PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC243815
1310	LAUD BUILDCON PRIVATE LIMITED	U70101MH2013PTC251356
1311	JVSK REALTY & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45201MH2014PTC259306
1312	FUTURE MAVERICK VENTURES PRIVATE LIMITED	U74120MH2015PTC264795

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
1313	ANANTO ANALYTICS PRIVATE LIMITED	U74900MH2013PTC239487
1314	CHOUDHARY FRACTURE & SURGICAL HOSPITAL(KAMPTEE) PRIVATE LIMITED	U74999MH2014PTC257633
1315	MIKANTRA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U92419MH2011PTC213604
1316	KAIRAV PETROCHEMICALS PRIVATE LIMITED	U24297MH2013PTC244814
1317	CIMIC REALTY PRIVATE LIMITED	U45400MH2010PTC205316
1318	SIDDHA-SIDDHESHWAR REALTY PRIVATE LIMITED	U45200MH2002PTC137465
1319	YASH-MAAG MACHINE WORKS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U50102MH2007PTC168031
1320	ARUNDINA FOODSTUFF PRIVATE LIMITED	U55101MH1997PTC109755
1321	GRISHMA HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U33111MH2015PTC267196
1322	XTEQNIO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74900MH2015PTC270691
1323	THERMOSIL ENGINEERS PRIVATE LIMITED	U28920MH1997PTC107727
1324	SUMAN RECRUITMENT SERVICES PRIVATE LIMITED	U74910MH2009PTC192855
1325	KCIL NANOXPRT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U24231MH2014PTC259961
1326	SURYODAY WHEELS PRIVATE LIMITED	U50300MH2007PTC176696
1327	ATHENA HORIZON BUILDERS INDIA PRIVATE LIMITED	U45400MH2013PTC248376
1328	SUMAN HR CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74140MH2007PTC169132
1329	R5 ONLINE PRIVATE LIMITED	U93090MH2006PTC166068
1330	PURPLE IMAGE EXIM PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC236213
1331	ASPRIYA TRADING PRIVATE LIMITED	U51101MH2014PTC258919
1332	ATHEEVA PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U52300MH2015PTC262702
1333	EQUANIMITY TRADERS PRIVATE LIMITED	U52600MH2015PTC262129
1334	J & R CLOSET PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC240017
1335	JVS PHARMA PRIVATE LIMITED	U93000MH2013PTC248221
1336	ROOMY TRADERS PRIVATE LIMITED	U52100MH2013PTC250609
1337	OMNIVERSE ENTERTAINMENT MEDIA PRIVATE LIMITED	U74999MH2014PTC259709
1338	RESTAURANTS AND BARS INDIA PRIVATE LIMITED	U55101MH2009PTC192199
1339	AARTI DAIRY AND FROZEN DESSERTS PRIVATE LIMITED	U15203MH2016PTC280727
1340	APRIKOT RETAIL PRIVATE LIMITED	U52100MH2014PTC257445
1341	SHREE RADHEY PROPERTIES DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U74999MH2012PTC226463
1342	GSOL RE PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC237183
1343	DMNY INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72900MH2009PTC191260
1344	INDTEK FINANCE AND HOLDINGS PRIVATE LIMITED	U87120MH1996PTC104066
1345	DEEP STAR TILES PRIVATE LIMITED	U28994MH1996PTC101319
1346	APARAYASH GOODS CARRIER PRIVATE LIMITED	U63090MH2012PTC235032
1347	TAALIMITED SCHOLARS PRIVATE LIMITED	U80901MH2012PTC237159
1348	BBM INFRA ESTATE PRIVATE LIMITED	U70102MH2009PTC192143
1349	SSB REALITY PRIVATE LIMITED	U70109MH2010PTC199397
1350	ARPAN CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74140MH1980PTC022262
1351	MALVILON FABRICS PRIVATE LIMITED	U17120MH2005PTC150801
1352	SHREE BALAJI POWER SERVICES PRIVATE LIMITED	U40101MH2006PTC165868
1353	INSERV EXAM ARENA ACADEMY PRIVATE LIMITED	U80301MH2011PTC215843

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
1354	BRAINZ IT CONCEPTS PRIVATE LIMITED	U72200MH2011PTC218744
1355	ATHARVA TECHNOSOFT PRIVATE LIMITED	U72900MH2013PTC248108
1356	FANTASTIQUE EVENTS PRIVATE LIMITED	U74120MH2013PTC241266
1357	SEAWOODS REALTY PRIVATE LIMITED	U70109MH2016PTC285064
1358	SEAWOODS RETAIL PRIVATE LIMITED	U70103MH2016PTC285466
1359	FUNATIC SPORTS PRIVATE LIMITED	U92412MH2012PTC226072
1360	YUKTI SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED	U51900MH1999PTC122570
1361	SHREE SAMARTH ROLLING MILLS PRIVATE LIMITED	U28112MH2013PTC247661
1362	AVALON HEIGHTS EDUCATION & RESEARCH PRIVATE LIMITED	U80301MH2010PTC208371
1363	AMAL VALVES PRIVATE LIMITED	U29253MH2012PTC232835
1364	SAMANTAR MERCANTILE PRIVATE LIMITED	U51909MH2010PTC205053
1365	QUBERRY FOODS PRIVATE LIMITED	U15122MH2014PTC258192
1366	CAUTION MERCANTILE PRIVATE LIMITED	U51909MH2010PTC209611
1367	VIKUL INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U70102MH2011PTC215469
1368	THRASH MERCANTILE PRIVATE LIMITED	U51101MH2010PTC209232
1369	TEMPERATE MERCANTILE PRIVATE LIMITED	U51909MH2010PTC209182
1370	MICR PRINTS PRIVATE LIMITED	U22100MH1998PTC113277
1371	REESHUL AGRO PLANTATIONS PRIVATE LIMITED	U99999MH1997PTC106805
1372	CANARA CAP CREDIT AND FINANCE PRIVATE LIMITED	U65990MH1996PTC099820
1373	DIGIVERTEX SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED	U72200MH2013PTC240556
1374	AYOKI EXPORTS PRIVATE LIMITED	U51900MH1997PTC106880
1375	ASTA BIO MASS AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U37100MH2012PTC229471
1376	SHIV KRUPA PETROCHEMICALS PRIVATE LIMITED	U74999MH2014PTC256792
1377	KAPIL LIQUOR AND SPIRITS PRIVATE LIMITED	U74120MH2015PTC261189
1378	YASHODA DESIGN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC248304
1379	ENERSAVE BUILDING COOLING SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC241262
1380	HASIT PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70200MH2011PTC212236
1381	BIGG 5 EVENTS AND ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U93000MH2014PTC256118
1382	RARECRAFT MEDIA PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC249649
1383	TALENT TREKK PRIVATE LIMITED	U74910MH2016PTC281215
1384	SUNKIST TRADING CO PVT. LTD.	U51900MH1984PTC034375
1385	THAKKERS RESORTS & LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED C/N	U29110MH1983PTC029706
1386	MANAVRAJ FILMS PRODUCTION PRIVATE LIMITED	U93000MH2013PTC240508
1387	ISELFA MORSETTERIA PRIVATE LIMITED	U74900MH2015FTC260699
1388	IDEANOSE RETAIL (OPC) PRIVATE LIMITED	U74999MH2016OPC284428
1389	ORANGE KIOSK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC234420
1390	GIRNAR ERECTIONS PRIVATE LIMITED	U45200MH1993PTC074744
1391	SANTOL COMMERCIALS PRIVATE LIMITED	U51909MH2006PTC163182
1392	TANGERINE AGRO PRIVATE LIMITED	U01119MH2006PTC162904
1393	ROBOSOFT IT SERVICES PRIVATE LIMITED	U72200MH2007PTC176752
1394	NOVATEKNO AUTOMATIONS PRIVATE LIMITED	U31400MH2008PTC181655
1395	NOVUS ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U74999MH2011PTC225429

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
1396	G R TANKS & VESSELS PRIVATE LIMITED	U34203MH2008PTC188375
1397	TWINKLE FASHION (INDIA) PRIVATE LIMITED	U52300MH2014PTC252740
1398	TOPWORTH TOLLWAYS (HAZARIBAGH) PRIVATE LIMITED	U45201MH2012PTC230590
1399	SIDDHI CATERERS AND ALLIED SERVICES PRIVATE LIMITED	U55204MH2004PTC149398
1400	PHALKE INVESTMENTS LTD	U67120MH1984PLC033858
1401	RUPESH SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67120MH2002PTC134618
1402	ACTIVEZONE LEARNING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U80301MH2008PTC187736
1403	SHRI KALIKA BUILDCON PRIVATE LIMITED	U45200MH2004PTC127681
1404	PURVA MERCANTILE PRIVATE LIMITED	U51101MH2007PTC169975
1405	SWEET DREAMS SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U01403MH2015PTC267856
1406	FONTUS METCON INFRA PRIVATE LIMITED	U45400MH2011PTC222921
1407	RUCHIRA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U45200MH2007PTC170052
1408	RUCHIRA MULTITRADE PRIVATE LIMITED	U51900MH2007PTC169999
1409	PROCYON DIGITAL PRIVATE LIMITED	U74900MH2012PTC227769
1410	VARSHA INVESTMENTS COMPANY PRIVATE LIMITED	U67120MH1980PTC023183
1411	CLASSIC RETREAT AND RESORTS PRIVATE LIMITED	U55100MH2004PTC146685
1412	YASHOBHOOMI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U45209MH2007PTC172527
1413	J P SAMCON REALTY PRIVATE LIMITED	U45200MH2010PTC204651
1414	PALAK REAL ESTATE PRIVATE LIMITED	U70100MH2008PTC186389
1415	POWERMAN SAFETY LINK PRIVATE LIMITED	U15490MH1997PTC110040
1416	SHRI BHAIKAVNATH GARMENTS PRIVATE LIMITED	U17120MH2010PTC210285
1417	ATLANTA TOURISM VENTURES LIMITED	U45202MH2008PLC180941
1418	ATLANTA HOTELS PRIVATE LIMITED	U45200MH2007PTC169228
1419	NORTHEAST TOLLWAYS PRIVATE LIMITED	U45400MH2014PTC257334
1420	TEMPLE FLOWER HOSPITALITY PRIVATE LIMITED	U93030MH2010PTC210564
1421	D C OMRIGAR AND COMPANY PRIVATE LIMITED	U51900MH1943PTC004066
1422	ATEM FINANCE PVT. LTD.	U74999MH1986PTC040492
1423	AGILE MEDIATECH PRIVATE LIMITED	U92200MH2007PTC173572
1424	SPRINGBOARD FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U74120MH2011PTC219917
1425	ISHANHARSH TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	U52100MH2012PTC234849
1426	SARASWATI INTERIORS PRIVATE LIMITED	U36912MH2015PTC270621
1427	BAAL -THE SALON PRIVATE LIMITED	U74900MH2007PTC170372
1428	SHIVANSH SYNCO PRIVATE LIMITED	U17291MH2013PTC240925
1429	SHAKTI FLOUR-TECH PRIVATE LIMITED	U15500MH2016PTC273046
1430	NEWAGE THERMOPACK (INDIA) PRIVATE LIMITED	U25199MH2012PTC235506
1431	BANSIWALA AGRO PRIVATE LIMITED	U15100MH1999PTC119830
1432	HEARTY FOODS PRIVATE LIMITED	U15400MH2011PTC217750
1433	FUN STOP SHOP PRIVATE LIMITED	U74990MH2010PTC203607
1434	PANDORASBOX PRIVATE LIMITED	U74999MH2017PTC295366
1435	IGRENENERGI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U31401MH2013PTC239652
1436	SMART STRATEGIST PRIVATE LIMITED	U74999MH2008PTC183463
1437	PAN ALIANCE MARKETING PRIVATE LIMITED	U74900MH2012PTC235190

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
1438	MALHAR SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200MH1999PTC118043
1439	VASA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC236666
1440	HTRAK ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U51900MH2014PTC255688
1441	YOUTASTE PRIVATE LIMITED	U15137MH2016PTC282378
1442	I-CAN CONNECT NETWORK PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC228696
1443	MORTAR WESTERN REALTORS PRIVATE LIMITED	U70102MH2013PTC249077
1444	AVISHKARI MEDIA & IT CREATIONS LIMITED	U74120MH2013PLC244109
1445	NOVA CONTAINERS LIMITED	U28992MH1998PLC115026
1446	VINGO PHARMACEUTICAL PRIVATE LIMITED	U74999MH2016PTC273855
1447	DEVYANI EMBROIDERIES PRIVATE LIMITED	U74994MH2005PTC158410
1448	PELMAR SHIPPING AND ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U35110MH2003PTC140337
1449	UNIVERSAL NEUTRACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U15122MH2013PTC242855
1450	KASHVI MULTITRADE PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC242461
1451	MANAN CORP PRIVATE LIMITED	U74900MH2013PTC245141
1452	EASY HEALTH TECH PRIVATE LIMITED	U74999MH2016PTC286648
1453	GREAT APPLICATION DESIGN PRIVATE LIMITED	U72900MH2016PTC285402
1454	VITAL LINKS AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U51900MH1991PTC060668
1455	INFINITY EDUHUB PRIVATE LIMITED	U80903MH2011PTC215228
1456	AMIT AYURVEDIC AND COSMETIC PRODUCTS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U24230MH1995PTC095197
1457	DHYAANA CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED	U74140MH2011PTC216669
1458	RAJSHREE ROADLINES PRIVATE LIMITED	U63090MH2003PTC139719
1459	GAJANAN KOTA AND MARBLE PRIVATE LIMITED	U99999MH1995PTC084482
1460	INDIA OVERSEAS ADVISORS PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC245220
1461	SRI MAHAPATI AGRO PRIVATE LIMITED	U01111MH2008PTC182477
1462	GSI GEMS SERVICES INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED	U36910MH2005PTC152316
1463	TEAM FIVE COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	U92110MH1994PTC080324
1464	FORTUNE UNIVERSAL SPACES PRIVATE LIMITED	U45400MH2013PTC245976
1465	STONSET BUILTCON & INFRA PRIVATE LIMITED	U45209MH2013PTC245045
1466	XIS ASSET SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U65191MH2014PTC257855
1467	SLPL INFRACON PRIVATE LIMITED	U45400MH2013PTC244582
1468	RRRS RECOVERY RECYCLING REFINING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U37100MH2015PTC270623
1469	GAJANAN BRIQUETTING PRIVATE LIMITED	U45400MH2012PTC237634
1470	SP ARMADA OFFSHORE PRIVATE LIMITED	U11100MH2013PTC251503
1471	PROP STOP INDIA REALTORS PRIVATE LIMITED	U70100MH2014PTC258078
1472	INFRA POWER CONSULTING PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC236797
1473	ASHUTOSH AUTOMOBILE PRIVATE LIMITED	U50200MH2014PTC254867
1474	WHITE FOODS PRIVATE LIMITED	U55204MH2014PTC256717
1475	VINDOSHOP ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED	U74120MH2015PTC270368
1476	PRAJAY INVESTMENTS PVT. LTD.	U67120MH1987PTC042143
1477	DHAIRYA TRACOM PRIVATE LIMITED	U51909MH2012PTC233656
1478	CONFIABLE TRADING PRIVATE LIMITED	U51101MH2012PTC232252

Sr. No.	COMPANY NAME	CIN No.
1479	SENSIBLE TRACOM PRIVATE LIMITED	U51101MH2012PTC233766
1480	TREK SALES PRIVATE LIMITED	U51101MH2012PTC232347
1481	TRINKET MERCANTILE PRIVATE LIMITED	U51101MH2012PTC232345
1482	VINMAY MERCANTILE PRIVATE LIMITED	U51101MH2012PTC233537
1483	H M MEHTA AND SONS PRIVATE LIMITED	U17120MH1949PTC007412
1484	NATASHA INVESTRADE PRIVATE LIMITED	U67120MH1996PTC104069
1485	JOGESHWARI HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U85100MH2015PTC262199
1486	SOLARE ENERGY CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U40300MH2013PTC248770
1487	ANISH POULTRY FARMS PRIVATE LIMITED	U01222MH1997PTC106163
1488	MAXSTRONG PROFESSIONAL OUTSOURCING MANAGEMENT SERVICES PRIVA	U74120MH2011PTC220252
1489	DHARANGAON AGRICULTURE PRODUCE PRIVATE LIMITED	U01120MH2012PTC230780
1490	VELVETCASE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900MH2014PTC256955
1491	JHNSPD PROJECTS PRIVATE LIMITED	U45203MH2014PTC252370
1492	INDOLAC PAINTS AND COATINGS PRIVATE LIMITED	U74900MH2016PTC273116
1493	S G A PHARMA PRIVATE LIMITED	U51109MH2013PTC242911
1494	HORIZON RETREAT PRIVATE LIMITED	U55204MH2012PTC228046
1495	RAJMUDRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45201MH2014PTC252043
1496	SEAPOWER CHARTERING PRIVATE LIMITED	U61100MH2007PTC170799
1497	SHUBHAM MANPOWER CONSULTANT PRIVATE LIMITED	U74900MH2014PTC253055
1498	V-TECH SUPPORT PRIVATE LIMITED	U72900MH2010PTC208045
1499	RM URBAN INFRASTRUCTURE SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999MH2009PTC194660
1500	DINESH RATHI ACQUA PRIVATE LIMITED	U74999MH2015PTC262240
1501	PROTECH CONSULTANCY & ENGINEERING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74120MH2013PTC251301
1502	THE EXPERIENTIAL TRAVEL COMPANY PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC248418
1503	KASS PACKAGING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U63090MH2016PTC274210
1504	CULINARY SPECIALIST PRIVATE LIMITED	U15122MH2016PTC274532

VINOD SHARMA
Registrar of Companies
Maharashtra